CMYK

इंटरनेट पर देखें
www.dainikdawa.com

संस्कारधानी से प्रकाशित मध्यभारत व छत्तीसगढ़ अंचल का सर्वप्रसारित लोकप्रिय हिंदी समाचार पत्र

भारत सरकार व छत्तीसगढ़ शासन से विज्ञापन के लिए अधिकृत

दैनिक प्रातः संस्करण

" यो आत्मानं वेति, सर्वं स वेति "।।

आर.एन.आई.नं. 58841/93
डाक पंजीयन छ.ग./दुर्ग/14/2024-26

दावा

सम्पादक - दीपक कुमार बुद्धदेव

शुक्ला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल
■ डायलिसिस सुविधा उपलब्ध
■ प्रोस्टेट एवं पथरी का इलाज दूरबिन पद्धति द्वारा
■ आयुष्मान कार्ड द्वारा निः शुल्क ईलाज
बसंतपुर, राजनांदगांव (छ.ग.) मो.नं.- 9301033013

वर्ष- 43 अंक -282 राजनांदगांव, रविवार 01 सितंबर 2024 पृष्ठ - 8 मूल्य - 4.00 रुपए

आंध्रप्रदेश में बारिश का कहर, सात लोगों की मौत; गुजरात में बाढ़ से जनजीवन अस्त-व्यस्त

नई दिल्ली। उत्तर-पश्चिम से लेकर मध्य और दक्षिण भारत में बारिश का कहर जारी है। आंध्र प्रदेश में बारिश से जुड़ी घटनाओं में कुल सात लोगों की मौत हो गई हैं, इसमें विजयवाड़ा में भूस्खलन के कारण चार लोगों की मौत भी शामिल हैं। जानकारी के मुताबिक भूस्खलन की घटना विजयवाड़ा के मोगलराजपुरम इलाके में हुई है, जहां भारी बारिश के कारण एक घर पर बड़ा पत्थर गिर गया।

वहीं इस हादसे पर आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने शोक जताते हुए भूस्खलन में मारे गए लोगों के परिजनों को 5 -लाख रुपये अनुग्रह राशि देने का एलान किया है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे भूस्खलन की आशंका वाले स्थानों से लोगों को दूर ले जाएं, क्योंकि अगले दो से तीन दिनों तक भारी बारिश का अनुमान है।

गुंटूर में उफनती धारा को पार करते समय बही कार

गुंटूर जिले के पुलिस अधीक्षक एस सतीश ने बताया, ये घटना दोपहर करीब 12.30 बजे हुई। बारिश के कारण कक्षाएं स्थगित होने के बाद शिक्षक ने स्कूल से करीब 3 किलोमीटर दूर एक गांव में लौटने के लिए दो छात्रों को साथ लिया और एक नाले को पार करते समय कार बह

गई। हालांकि नाला बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन हल्की कार होने के कारण हादसा हो गया। उन्होंने कहा कि पुलिस तीनों शवों को खोजने में सफल रही। अधिकारियों ने बताया कि पिछले 24 घंटों में विजयवाड़ा समेत आंध्र प्रदेश के कई स्थानों पर लगातार बारिश हुई।

जामनगर में बाढ़, प्रशासन ने चलाया सफाई अभियान

गुजरात में भारी बारिश के कारण कई जिलों में आम जनजीवन अस्त-व्यस्त है, वहीं राज्य के जामनगर जिले में बाढ़ की स्थिति में सुधार होने के बाद स्थानीय प्रशासन ने साफ-सफाई अभियान शुरू कर दिया है। वहीं अकेले जामनगर से पिछले दो-तीन दिन में बाढ़ग्रस्त इलाकों में फंसे 15,000-20,000 हजार से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। (शेष पृष्ठ 6 पर...)

हिमाचल में भूस्खलन से 72 सड़कें बंद

हिमाचल प्रदेश में मूसलाधार बारिश की वजह से जगह-जगह भूस्खलन होने से 72 सड़कें बंद हैं। शिमला में अधिकारियों ने बताया कि भूस्खलन की वजह से राज्य में 72 सड़कों को यातायात के लिए बंद करना पड़ा है। मलबा हटाने का काम तेजी से चल रहा है। लेकिन मौसम खराब होने से बाधा आ रही है। 10 बिजली और 32 जल आपूर्ति की परियोजनाएं भी ठप पड़ी हैं। मौसम विभाग ने 2 सितंबर तक राज्य के अलग-अलग क्षेत्रों में भारी से लेकर बहुत भारी बारिश होने की संभावना जताई है और यलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान तेज गरज के साथ हवाएं भी चल सकती हैं।

पीएम मोदी ने 3 नई वंदे भारत ट्रेनों को दिखाई हरी झंडी, बोले- ये आधुनिक भारतीय रेलवे का है नया चेहरा

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 3 नई वंदे भारत ट्रेन को वर्चुअल रूप से हरी झंडी दिखाई है। ये तीनों नई वंदे भारत ट्रेनें कर्नाटक, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों को जोड़ेंगी। इनमें से पहली वंदे भारत ट्रेन चेन्नई सेंट्रल से नागरकोइल, दूसरी मदुरै से बेंगलुरु कैंट और तीसरी मेरठ सिटी-लखनऊ तक जाएगी।

पर्यटन में आया उछाल

हरी झंडी दिखाने के दौरान पीएम मोदी ने कहा ,वंदे भारत ट्रेनों की शुरुआत से जहां भी ये ट्रेनें चलती हैं, वहां के पर्यटन में उछाल आया है। इससे स्थानीय व्यवसायों को बढ़ावा मिला है और रोजगार के नए अवसर पैदा हुए हैं। मैं इस उपलब्धि के लिए नागरिकों को बधाई देता हूं।

नई वंदेभारत ट्रेन ने पकड़ी रफ्तार

वहीं, कर्नाटक के मदुरै में वैगई नदी पर बने पुल से ड्रोन द्वारा नई वंदे भारत ट्रेन को कैमरे में कैद किया गया है। जब ये मदुरै - बेंगलुरु वंदे भारत ट्रेन वहां से गुजर रही थी। ये नई वंदे भारत ट्रेन भगवा रंग में दिखाई दे रही है।

वंदे भारत आधुनिक भारतीय रेलवे का नया चेहरा

पीएम मोदी ने कहा कि आज यूपी और खासकर पश्चिमी यूपी के लोगों को मेरठ-लखनऊ रूट पर वंदे भारत ट्रेन के जरिए भी खुशखबरी मिली है। मेरठ और पश्चिमी यूपी क्रांति की धरती है। आज यह क्षेत्र विकास की नई क्रांति का गवाह बन रहा है। वंदे भारत आधुनिक भारतीय रेलवे का नया चेहरा है।

देशभर में चल रहीं 102 वंदे भारत ट्रेन

इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आज शहर में और हर रूट पर वंदे भारत की मांग है। हाई-स्पीड ट्रेनों के आने से लोगों को अपने कारोबार, रोजगार और अपने सपनों को विस्तार देने का भरोसा मिलता है। आज देशभर में 102 वंदे भारत रेल सेवाएं चल रही हैं। (शेष पृष्ठ 6 पर...)

100 दिन के भीतर 3 करोड़ घरों को मंजूरी, 11 लाख नई लखपति दीदी बनीं; पीएम मोदी ने गिनाईं उपलब्धियां

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को नई दिल्ली में ईटी वर्ल्ड लीडर्स फोरम को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि जब लोकसभा चुनाव के नतीजे आए थे तो मैंने कहा था कि तीसरे कार्यकाल में हमारी सरकार तीन गुना तेजी से काम करेगी। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अब इरादे और मजबूत हैं और देश के हर नागरिक की तरह सरकार भी उम्मीद और विश्वास से भरी हुई है।

तीन करोड़ घरों को मंजूरी दी

पीएम मोदी ने कहा कि 100 दिन भी नहीं बीते हैं, हम भौतिक बुनियादी ढांचे को आधुनिक बनाने में लगे हैं। हम सामाजिक बुनियादी ढांचे का विस्तार कर रहे हैं। हम लगातार सुधारों को आगे बढ़ा रहे हैं। पिछले तीन महीनों में हमने गरीबों, किसानों, युवाओं और महिलाओं के लिए एक के बाद एक बड़े फैसले लिए हैं। हमने गरीबों के लिए तीन करोड़ नए घरों को मंजूरी दी है। हमने एकीकृत पेंशन योजना की घोषणा की है।

100 से अधिक किस्मों के बीज जारी

पीएम मोदी ने कहा कि एक लाख करोड़ रुपये के कृषि ढांचा के विस्तार का फैसला किया। (शेष पृष्ठ 6 पर...)

हरियाणा विस चुनाव में मतदान की तिथि एक अक्टूबर की जगह पांच अक्टूबर: नतीजे 8 अक्टूबर को

नयी दिल्ली। चुनाव आयोग ने हरियाणा में असोज अमावस्या त्योहार पर स्थानीय लोगों के बड़े पैमाने पर भ्रमण के मद्देनजर राज्य विधानसभा चुनाव में मतदान की तिथि एक अक्टूबर के स्थान पर पांच अक्टूबर को करने की शनिवार को घोषणा की। इसके साथ ही जम्मू-कश्मीर और हरियाणा विधानसभा के चुनावों की मतगणना की तिथि भी चार अक्टूबर से बढ़ाकर आठ अक्टूबर कर दी गयी है। आयोग ने कहा है कि अब दोनों विधानसभाओं के चुनाव की प्रक्रिया 10 अक्टूबर तक पूरी करा ली गयी जायेगी जबकि आयोग ने 16 अगस्त को जारी चुनाव कार्यक्रम में छह अक्टूबर तक संपन्न कराने की घोषणा की थी।

आयोग ने यहां जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा है कि उसे विभिन्न राष्ट्रीय राजनीतिक दलों, हरियाणा के राजनीतिक दलों और अखिल भारतीय विश्नोई महासभा की ओर से कई ज्ञापन मिले थे, जिसमें मतदान की तिथि बदलने का आग्रह किया गया था। विज्ञापनों में कहा गया था कि राज्य में सदियों पुराने 'असोज अमावस्या' त्योहार के अवसर पर हरियाणा के विश्नोई समाज के बड़ी संख्या में लोग राजस्थान में इस त्योहार में भाग लेने के लिये जाते हैं, इन दलों और संगठनों का कहना था कि पूर्व में घोषिति तिथि में मतदान कराने से लोगों को मतदान के अपने अधिकार से वंचित होना पड़ सकता है और मतदान का प्रतिशत भी घट सकता है।

आयोग ने इस के मद्देनजर केवल हरियाणा में मतदान की तिथि को एक अक्टूबर से बढ़ाकर पांच अक्टूबर 2024 (शनिवार) करने का फैसला किया है। इसके अनुसार दोनों विधानसभाओं के मतदान की गणना की तिथि भी बदल दी गयी है। दोनों विधानसभाओं के चुनाव में मतदान प्रक्रिया की बाकी तिथियों में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

उल्लेखनीय है कि आयोग ने 90 सदस्यीय जम्मू-कश्मीर विधानसभा में चुनाव तीन चरणों में कराने की घोषणा की है जबकि 90 सदस्यीय हरियाणा विधानसभा में चुनाव एक चरण में कराया जा रहा है। जम्मू-कश्मीर में तीसरे और अंतिम चरण के चुनाव की अधिसूचना पांच सितंबर को जारी की जायेगी और इस अंतिम चरण के लिये मतदान एक अक्टूबर को कराये जायेंगे। हरियाणा विधानसभा की सभी सीटों के लिये चुनाव की अधिसूचना पांच सितंबर को जारी करने का कार्यक्रम है। राज्य में 12 सितंबर तक नामांकन दाखिल किये जा सकेंगे और उनकी जांच 13 सितंबर को होगी और नाम वापसी की अंतिम तिथि 16 सितंबर है।

भारत में फास्टैग सिस्टम होगा खत्म! सरकार नए जमाने की टोल कलेक्शन तकनीक 'GNSS' करेगी लाग

नई दिल्ली। भारत में ऑटो उद्योग काफी फल-फूल रहा है। इसके साथ ही सड़क पर गाड़ियों की संख्या बढ़ रही। जिसके साथ ही टोल कलेक्शन में भी इजाफा हो रहा है। हालांकि अब ऐसा लग रहा है कि टोल संग्रह का यह पारंपरिक तरीका खत्म होने वाला है। क्योंकि सरकार ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम नाम के एक नई युग की टेक्नोलॉजी के जरिए टोल वसूलने के तरीके को बदलने के लिए तैयार हो रही है।

एडवांस्ड टोल कलेक्शन सिस्टम का एलान केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी पहले ही कर चुके हैं। इस समय इसकी टेस्टिंग जारी है। और जल्द ही भारत में पुराने तरीके से होने वाले टोल संग्रह प्रणाली को खत्म किया जा सकता है।

GNSS कैसे काम करता है

फास्टैग से उलट, भविष्य का तहस्स एक नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम पर आधारित होगा। यह एक सैटेलाइट-आधारित यूनिट के साथ आएगा, जो वाहनों में स्थापित किया जाएगा। यह संबंधित अधिकारियों को टोल हाईवे का इस्तेमाल करना शुरू करने पर कारों को ट्रैक करने की अनुमति देगा। जब वाहन टोल वाली सड़क से बाहर निकलता है, तो सिस्टम टोल सड़क के वास्तविक उपयोग की गणना करेगा। और ऑटोमैटिक तरीके से एक सटीक राशि काट लेगा। इससे यह सुनिश्चित होगा कि यात्री सिर्फ टोल हाईवे पर तय की गई दूरी के लिए ही भुगतान करें।

फास्टैग की तुलना में GNSS के फायदे

आगामी टोल संग्रह प्रणाली ग्राहकों को टोल सड़क के इस्तेमाल के लिए सटीक राशि का भुगतान करने की अनुमति देगी। उपभोक्ता हर फायदा यात्रा पर अच्छी खासी रकम बचा सकेंगे। यह पारंपरिक टोल बूथों को भी खत्म कर देगा। जिससे लंबी कतारों से बड़ी राहत मिलेगी और ड्राइवरों को ज्यादा सुविधाजनक यात्रा अनुभव का फायदा मिलेगा।

कब तक होगा लागू

सरकार द्वारा बताया गया है कि इसमें कुछ समय लगेगा। हालांकि, मॉडल का परीक्षण पहले ही दो प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्गों पर शुरू हो गया है। जिसमें कर्नाटक में बंगलूरू-मैसूर राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच-75) (शेष पृष्ठ 6 पर...)

पीएम बोले- महिला सुरक्षा के लिए कठोर कानून मौजूद : जिला अदालतों की कॉन्फ्रेंस में कहा- फैसले जितनी जल्दी आएंगे, भरोसा उतना ज्यादा बढ़ेगा

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट के 75 वर्ष पूरे होने पर पीएम मोदी शनिवार को जजों के अखिल भारतीय सम्मेलन में शामिल हुए. इस दौरान उन्होंने कहा कि महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध देश में गंभीर चिंता का विषय बन गया है. उन्होंने जिला न्यायालय के न्यायाधीशों से अपील की कि वे इन मामलों का शीघ्र निपटारा करें, ताकि विशेष रूप से महिलाओं और पूरे समाज में सुरक्षा की भावना पैदा हो सके.

सुप्रीम कोर्ट एक संस्था नहीं, एक यात्रा है

सुप्रीम कोर्ट के 75 वर्ष पूरे होने पर पीएम मोदी ने कहा कि ये केवल एक संस्था की यात्रा नहीं है. ये यात्रा है भारत के संविधान और संवैधानिक मूल्यों की. ये यात्रा है एक लोकतंत्र के रूप में भारत के और परिपक्व होने की. भारत के लोगों ने सुप्रीम कोर्ट पर, हमारी न्यायपालिका पर विश्वास किया है. इसलिए सुप्रीम कोर्ट के ये 75 वर्ष मदर ऑफ डेमोक्रेसी के रूप में भारत के गौरव को और बढ़ाते हैं. आजादी के अमृतकाल में 140 करोड़ देशवासियों का एक ही सपना है विकसित भारत, नया भारत बनने का.

भारतीय न्याय संहिता के रूप में हमें नया भारतीय न्याय विधान मिला

नया भारत, यानी सोच और संकल्प से एक आधुनिक भारत. हमारी न्यायपालिका इस विज़न का एक मजबूत स्तम्भ है. भारतीय न्याय संहिता के रूप में हमें नया भारतीय न्याय विधान मिला है. इन कानूनों की भावना है- (नागरिक पहले, सम्मान पहले और न्याय पहले) है. (शेष पृष्ठ 6 पर...)

देखो अपना देश अभियान में हिस्सा लें और छत्तीसगढ़ के पर्यटन स्थलों को बनाएं राष्ट्रीय धरोहर, साय सरकार ने की अपील

रायपुर। अगर आप अपने छत्तीसगढ़ के पर्यटन स्थल को राष्ट्रीय धरोहर में शामिल करना चाहते है तो आपके पास बहुत अच्छा मौका है। इसके लिए आपको पर्यटन मंत्रालय द्वारा चलाए जा रहे देखो अपना देश अभियान में हिस्सा लेना होगा।

इस अभियान में हिस्सा लेकर आप अपने पसंद के पर्यटन स्थल को ज्यादा से ज्यादा वोट देकर राष्ट्रीय धरोहर बना सकते है। साथ ही प्रदेश के अद्वितीय और खूबसूरत स्थलों को इस राष्ट्रीय मंच पर प्रदर्शित करने का यह एक सुनहरा अवसर है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा, छत्तीसगढ़ के प्राकृतिक सौंदर्य, समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर और ऐतिहासिक स्थलों को पूरे देश में पहचान दिलाने का यह एक महत्वपूर्ण कदम है। सभी से अनुरोध करते हैं कि वे अपने राज्य के गंतव्यों के लिए वोट करें और इस अभियान को सफल बनाने में अपना योगदान दें। वोटिंग के लिए नागरिकों को वेबसाइट https://forms.gle/ANvrFcQqxg55EkSw7 का उपयोग करना होगा। इस फार्म के माध्यम से लोग प्रदेश के उन स्थलों के लिए वोट कर सकते हैं, जिन्हें वे राज्य और देश का गौरव मानते हैं। राज्य सरकार ने भी सभी से आग्रह किया है कि वे इस लिंक को अपने सोशल मीडिया पर साझा करें, ताकि अधिक से अधिक लोग इस अभियान में भाग ले सकें। इस अभियान में वोट करने की अंतिम तिथि 15 सितंबर है।

पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा

चुने गए पर्यटन स्थलों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रचारित किया जाएगा, जिससे राज्य में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और आर्थिक विकास के नए अवसर पैदा होंगे।

अशोका आई.टी.आई.
ASHOKA GROUP OF INSTITUTIONS • RAJNANDGAON •
NCVT-DGET नई दिल्ली एवं छ.ग. शासन से मान्यता प्राप्त
प्रवेश प्रारंभ
कोपा (Computer)
10 वीं पास
1 वर्षीय कोर्स
स्टेनो
10 वीं पास
1 वर्षीय कोर्स
इलेक्ट्रीशियन
10 वीं पास
2 वर्षीय कोर्स
वॉयरमैन
8 वीं पास
2 वर्षीय कोर्स
अशोका डिग्री कॉलेज
B.A. | B.COM | PGDCA
8319493983, 7000629783, 8602502398
ग्राम- तोरनकट्टा, मनकी पेट्रोल पंप के पास.जी.ई. रोड, पोस्ट- सोमनी, राजनांदगांव (छ.ग.)
ऑफिस: 99813-60623 | ashokaiti2019@gmail.com

डिप्टी सीएम साव को नहीं मिला अमेरिकी वीजा : चार दिन तक दिल्ली में करते रहे इंतजार, आखिर वापस

रायपुर। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम और पीडब्ल्यूडी मंत्री अरुण साव और सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह अमेरिका जाना चाहते थे। लेकिन 4 दिन दिल्ली में रुकने के बाद भी उन्हें वीजा नहीं और वे छत्तीगसढ़ लौट आए हैं। डिप्टी सीएम श्री साव शनिवार को बिलासपुर में आयोजित दीक्षांत समारोह शामिल होने पहुंचे। जहां वे हेलीपैड पर राज्यपाल और मुख्यमंत्री की हेलीपैड अगुवानी करते नजर आए। उल्लेखनीय है कि, अमेरिका के दौरे के लिए डिप्टी सीएम और उनके विभागीय सचिव 26 अगस्त को रायपुर से दिल्ली गए थे। जहां उन्हें उम्मीद थी कि, उन्हें अमेरिका का वीजा मिल जाएगा।

लेकिन 4 दिन की कोशिश के बाद भी उन्हें वीजा नहीं मिल पाया। ऐसे वे सभी लोग छत्तीसगढ़ लौट आए हैं। डिप्टी सीएम श्री साव और उनकी टीम एशियाई विकास बैंक ने अमेरिका दौरे का प्रस्ताव दिया था। इस यात्रा का राज्य की सड़क परियोजनाओं में अंतरराष्ट्रीय स्तर की तकनीकों और प्रथाओं को अपनाना है। (शेष पृष्ठ 6 पर...)

'काश मैं वंदे भारत से यूक्रेन जा पाता', जयशंकर ने बताया चीन के साथ क्या है समस्या? कहा- यूरोप और अमेरिका भी कर रहे बहस

नई दिल्ली। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शनिवार को कहा कि भारत के सामने चीन को लेकर एक विशेष समस्या है, जो दुनिया की चीन संबंधी सामान्य समस्या से अलग है। चीन के साथ संबंधों एवं सीमा पर स्थिति को देखते हुए वहां से होने वाले निवेश की समीक्षा की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि जिन देशों की सीमा चीन से नहीं लगती, वे भी चीन से होने वाले निवेश की जांच कर रहे हैं। एक समाचार पत्र द्वारा आयोजित व?र्ल्ड लीडर्स फोरम में उन्होंने कहा कि चीन कई मायनों में एक अनूठी समस्या है, क्योंकि वह एक अनूठी राजनीति है, वह एक अनोखी अर्थव्यवस्था है। जब तक कोई इस विशिष्टता को समझने की कोशिश नहीं करता, तब तक इससे निकाले जाने वाले निर्णय और नीतिगत कदमों में समस्या रहेगी।

यूरोप-अमेरिका में भी चीन को लेकर बहस

एस जयशंकर ने कहा, चीन को लेकर एक सामान्य समस्या है। हम दुनिया के एकमात्र देश नहीं हैं, जो चीन के बारे में बहस कर रहे हैं। यूरोप में जाइए और उनसे पूछिए कि आज उनकी प्रमुख आर्थिक या राष्ट्रीय सुरक्षा बहस क्या है। यह बहस चीन के बारे में है।

अमेरिका को देखिए। उसे भी चीन के प्रति दिक्कत है और यह कई मायनों में सही भी है। इसलिए सच्चाई यह है कि भारत एकमात्र ऐसा देश नहीं है, जिसे चीन को लेकर समस्या है। उन्होंने कहा, जब हम चीन के साथ व्यापार, निवेश, विभिन्न प्रकार के आदान-प्रदान को देखते हैं और यदि आप इस बात को ध्यान में नहीं रखते कि यह एक बहुत ही अलग देश है और इसके काम करने का तरीका भी बहुत अलग है तो मुझे लगता है कि आपकी बुनियादी बातें ही पटरी से उतरने लगती हैं। आप सभी जानते हैं कि पिछले चार साल से सीमा पर हमारी स्थिति बहुत कठिन है। मुझे लगता है कि ऐसी स्थिति में भारत जैसा देश जैसी सावधानियां बरत रहा है, वही समझदारी भरी प्रतिक्रिया है।

काश, वंदे भारत से यूक्रेन जा पाता

पीएम नरेन्द्र मोदी की हाल ही में ट्रेन से यूक्रेन यात्रा को याद करते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि काश, मैं वंदे भारत ट्रेन से यह यात्रा कर पाता। उन्होंने कहा कि यह 10 घंटे लंबी यात्रा थी और उस स्थिति में यह एकमात्र विकल्प था। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में ट्रेन में बैठकर पोलैंड से यूक्रेन तक की यात्रा की थी। (शेष पृष्ठ 6 पर...)

CMYK

छत्तीसगढ़ में धूम मचाएगी धमाकेदार छत्तीसगढ़ी फिल्म 'तहीं मोर आंशिकी'

कर्मा प्रोडक्शन की मोस्ट रोमांटिक व पारिवारिक फिल्म प्रदर्शन के लिए तैयार

राजनांदगांव (दावा)। संस्कार धानी नगरी सहित पूरे प्रदेश भर में आगामी दिनों रिलीज होने वाली कर्मा प्रोडक्शन की छत्तीसगढ़ी फिल्म 'तही मोर आंशिकी' पूरी तरह बन कर तैयार है। कर्मा फिल्म प्रोडक्शन के बैनर तले बनी उक्त धमाकेदार मोस्ट रोमांटिक एवं पारिवारिक फ़िल्म 'तहि मोर आशिकी' 6 सितंबर से रिलीज होने जा रही है।

इस छत्तीसगढ़ी फिल्म के संबंध में इससे जुड़े कलाकारों ने प्रेस क्लब में पत्रकार वार्ता आयोजित कर बताया कि इस फिल्म के डायरेक्टर छत्तीसगढ़ी व भोजपुरी सहित बालीवुड में अलग पहचान बनाने वाले व कई हिट फिल्म देने वाले अभिषेक सिंह हैं, वहीं प्रोड्यूसर गुलशन बधेल और शुभम गुप्ता है। हालांकि इन दोनों की यह पहली फिल्म है लेकिन उनकी बैंक-टू-बैंक 3 और फिल्में बनने को तैयार हैं। फ़िल्म के मुख्य कलाकार लक्षित झांझी है जो छत्तीसगढ़ी व भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने फिल्म स्टार अपने पिता रजनीश झांकी के साथ इस फिल्म में नजर आएंगे। फिल्म के कहानी लेखक सुशील श्रीवास्तव है जिन्होंने कई छत्तीसगढ़ी और भोजपुरी फिल्म लिख चुके है।

कलाकारों ने फ़िल्म की कहानी के बारे में बताया कि यह फ़िल्म छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी रोमांटिक फिल्म होगी, जोकि आज तक पर्दे पर देखने को नहीं

प्रेस वार्ता मे रुबरु हुए फिल्म के कलाकार

मिली है,। उन लोगों ने बताया कि अक्सर आज तक छत्तीसगढ़ में एक ही पैटर्न की फिल्में बनते आ रही है जिसे देख कर दर्शक भी बोर हो चुके है. लेकिन इस फिल्म में वैसा कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा।

बताया गया है हांलाकि यह फ़िल्म छत्तीसगढ़ी की है, लेकिन फील पूरा बॉलीवुड का देखने को मिलेगा, इस फ़िल्म में रोमांस के साथ फिल्म में एक्शन और कॉमेडी भी देखने को मिलेंगी। इस फिल्म को छत्तीसगढ़ की बाकी फिल्मों से बिल्कुल अगल, और एक नए अंदाज में दिखाया गया है। कलाकारों ने फिल्म के डीओपी कुणाल कदम को बताया है, जो कि मुंबई से है, जिन्होंने बॉलीबुड की वेव सिरीज और बड़े-बड़े शोज किये है. फिल्म के ट्रेलर में इसकी सिनेमेटोग्राफी बखूबी नजर आ रही है, जो फ़िल्म को एक अलग लेवल का बनाती है।

साउथ की हिरोइन

फिल्म की हीरोइन एल्शा घोष है जो साउथ के साथ-साथ छत्तीसगढ़ में भी अपनी दमदार अदाकारी से एक अलग पहचान बना चुकी व एक से एक छत्तीसगढ़ की हिट फिल्में अपने नाम कर चुकी है। सपोर्टिंग कलाकारों में रजनीश झांझी, उपासना वैष्णव, मनीषा वर्मा, विवेक चंद्रा, पप्पू चंद्राकर जीत शर्मा, जैसे दिग्गज कलाकर देखने को मिलेंगे।

6 सितंबर को होगी रिलीज

फिल्म के प्रोड्यूसर गुलशन बघेल वह शुभम गुप्ता सहित इसके डायरेक्टर अभिषेक सिंह का कहना है कि इस फिल्म के गाने जब से रिलीज हुए हैं पूरे छत्तीसगढ़ में ट्रैडिंग पर चल रहे है इससे साफ जाहिर होता है, एक बार फिर छत्तीसगढ़ी फिल्म एक नया इतिहास रचने वाली है।

साथ ही उनका यह भी कहना है कि आगे भी छत्तीसगढ़ की जनता के लिए वे इसी तरह की अच्छी फिल्मों का निर्माण करेंगे, उनकी आने वाली फिल्में भी बहुत जल्द अनाउंस की जाएगी। कहा गया है कि फिलहाल गणेश चतुर्थी से एक दिन पहले 6 सितंबर को रिलीज होने वाली उनकी छत्तीसगढ़ी फिल्म, तहीं मोर आंशिकी, को अपने नजदीकी सिनेमा घरों में देखना ना भूले।

केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह पर मुस्लिम युवक ने किया हमला

बेगूसराय। मोदी सरकार में लगातार तीसरी बार मंत्री बनने वाले बिहार के कद्दावर बीजेपी नेता गिरिराज सिंह पर शनिवार को एक युवक ने हमला कर दिया। केंद्रीय मंत्री पर यह हमला उस वक्त हुआ जब वह बेगुसराय के बलिया प्रखंड में जनता दरबार में लोगों की शिकायतें सुन रहे थे। हालांकि वहां मौजूद सुरक्षाकर्मियों ने आरोपी युवक को रोक लिया आरोपी की पहचान मोहम्मद सैफी के रूप में की गई है।

पहले माइक छीनी फिर किया हमला

घटना की जानकारी देते हुए स्थानीय बीजेपी के नेताओं ने बताया कि आज केंद्रीय मंत्री लोगों की समस्याओं को सुन रहे थे। उसी वक्त वहां मोहम्मद सैफी नाम का एक युवक पहुंचा और सबसे पहले उसने माइक को अपने कब्जे में ले लिया और अनाप-शनाप बयानबाजी करने लगा। इसी बात से जब भाजपा के कार्यकर्ताओं एवं आम लोगों ने उसका विरोध किया तब आरोपी युवक ने गिरिराज सिंह पर मुक्का चला दिया। हालांकि वहां पर मौजूद सुरक्षाकर्मियों ने गिरिराज सिंह को बचा लिया।

दाढ़ी बढ़ाने से कोई मुल्ला नहीं बनता- गिरिराज सिंह

केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने सीधे-सीधे आरोप लगाते हुए कहा है कि दाढ़ी बढ़ाने से कोई मुल्ला नहीं बन जाता और जिस तरह से ऊक्त मुस्लिम युवक के द्वारा उन्हें डराने धमकाने का काम किया जा रहा है वह इससे डरने वाले नहीं है। गिरिराज सिंह ने कहा कि बिहार में तेजस्वी यादव एवं उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जैसे लोगों का समर्थन मिलने की वजह से आज अपने आप को कट्टरपंथी मुसलमान कहलाने वाले लोगों का मनोबल बढ़ा है और वह एक सांसद पर भी हमला करने से नहीं चुक रहे हैं।

उन्होंने एक बार फिर बखूफ बोर्ड पर सवाल उठाते हुए कहा है कि वक्फ बोर्ड के द्वारा फतुहा ही नहीं बल्कि बेगूसराय में भी हिंदुओं के जमीन पर नोटिस भेजा जा रहा है और उसे अपना बताया जा रहा है। वक्त बोर्ड का काम वर्तमान में जमीन जुटाव अभियान में तब्दील हो चुका है।

राहुल गांधी भारत को इस्लामिक कंट्री बनाकर ही दम लेंगे

उन्होंने सीधे शब्दों में कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जो कहा है बटोगे तो कटोगे वह बिल्कुल सत्य है और हिंदुओं को अपनी सुरक्षा एवं सनातन धर्म की रक्षा के लिए एक होना ही पड़ेगा, नहीं तो अखिलेश यादव तेजस्वी यादव एवं राहुल गांधी जैसे लोग भारत को इस्लामिक कंट्री बनाकर ही दम लेंगे।

काम की खबर : बदलेगा जीएसटी का नियम, पोर्टल पर अपलोड करना होगा वैध बैंक खाते का डिटेल

रायपुर। दो दिन बाद यानि अगले महीने एक सितंबर से जीएसटी करदाताओं के लिए नया नियम लागू हो जाएगा। नए नियम के तहत करदाताओं को पंजीकरण मिलने के 30 दिनों के भीतर अपने वैध बैंक खाते का विवरण जीएसटी पोर्टल में अपलोड करना होगा।

अगर करदाताओं ने ऐसा नहीं तो करदाता जीएसटीआर-1 नहीं भर पाएंगे। जीएसटी अधिकारियों का कहना है कि इस नियम को लागू करने के पीछे मुख्य उद्देश्य यही है कि जीएसटी चोरों पर लगाम कसा जा सके। अभी जीएसटी द्वारा कर चोरों को पकड़ने विशेष अभियान भी चलाया जा रहा है। जीएसटीएन ने पिछले सप्ताह इस संबंध में एडवाइजरी करते हुए जीएसटी के नियम 10ए के अनुसार करदाता को पंजीकरण की तारीख से 30 दिन के भीतर वैध खाते का विवरण देना अनिवार्य किया है।

300 करोड़ से ज्यादा की टैक्स चोरी पकड़ाई

बीते सात महीनों में प्रदेश में जीएसटी विभाग द्वारा 300 करोड़ से ज्यादा की टैक्स चोरी पकड़ी है। इसके साथ ही करीब 17 आरोपितों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। टैक्स चोरों को पकड़ने के लिए विशेष अभियान भी चलाया जा रहा है,जो 15 अक्टूबर तक चलेगा। यह अभियान फर्जी फर्म बनाकर टैक्स चोरी करने वालों के साथ ही नियमों के पालन में लापरवाही करने वाले करदाताओं के खिलाफ भी है।

खुले में कचरा न फेंकने हेतु दुकानदार एवं ग्रामीणों को जागरूकता का संदेश देकर ओडीएफ प्लस मॉडल गांव के लिए संकल्पित किया

राजनांदगांव (दावा)। ब्लॉक के ग्राम पंचायत पदुमतरा, जनपद पंचायत राजनांदगांव में प्रत्येक शनिवार को स्वच्छता त्यौहार के तहत अभियान चलाया गया, जिसमें स्कूली बच्चों के द्वारा स्वच्छता एवं जागरूकता रैली निकाली गई है और लोगों को जागरूकता तथा व्यवहार परिवर्तन के संबंध में स्लोगन के माध्यम से पूरे ग्राम में रैली निकाल कर भ्रमण किया गया।

उक्त कार्यक्रम में मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, राजनांदगांव सुश्री तनूजा मांझी के द्वारा हायर सेकेंडरी स्कूल के बच्चों को स्वच्छता त्यौहार के उद्देश्य, कचरा प्रबंधन, प्लास्टिक कचरा प्रबंधन की जानकारी देते हुए अपने पालकों एवं समुदाय को जागरूक करने हेतु प्रेरित किया गया।

बलबीर सिंह सहायक विवि अधिकारी जनपद पंचायत, राजनांदगांव द्वारा ओडीएफ प्लस एवं बसंत मारकंडे वर्ल्ड विजन इंडिया, यूनिसेफ द्वारा मिशन लाईफ की जानकारी दी गई। नंदकिशोर साहू द्वारा सिंगल युज प्लास्टिक से इको ब्रिक्स बनाना सिखाते हुए 5 आर रिफ्युज, रेड्युज, रियुज, रिसायकल, रिकवर का संदेश दिया गया। स्कूल प्रांगण में वृक्षारोपण एवं गांव के मुख्य चौक-चौराहों में ग्रामीणों के साथ मिलकर साफ सफाई की गई एवं सभी ग्रामीणों से आग्रह किया गया कि सप्ताह में एक दिन शनिवार को अपने घर के आसपास एवं चौक-चौराहों को सफाई करें। साथ ही अपने ग्राम को हमेशा साफ सफाई कर स्वच्छ रखें, गांव के पेट्रोल पंप एवं बैंक प्रबंधक से मुलाकात कर कचरा सड़क पर फेंकने से मना करते हुए स्वच्छाग्राही दीदी को कचरा देने के लिए प्रेरित किया व न देने पर जुर्माना के प्रावधान से अवगत कराया गया। उक्त कार्यक्रम में सरपंच श्रीमति ललिता मोहन साहू अन्य जनप्रतिनिधिगण एवं ग्रामवासी उपस्थित हुए।

उक्त कार्यक्रम में सीईओ जनपद पंचायत, राजनांदगांव सुश्री तनूजा मांझी, सहायक विवि अधिकारी जनपद पंचायत, राजनांदगांव बलबीर सिंह, यूनिसेफ वर्ल्ड विजन से बसंत मारकंडे, विकासखंड समन्व्यक नंदकिशोर साहू, सरपंच ललिता मोहन साहू, शाला विकास समिति अध्यक्ष राकेश साहू, प्राचार्य संध्या किरण मिंज, समस्त शिक्षक एवं ग्राम पंचायत सचिव ओंकार निर्मलकर उपस्थित हुए।

चिखली में पोला पर्व के उपलक्ष्य में में रामनाम सप्ताह

राजनांदगांव (दावा)। प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी चिखली वार्ड नं.05 ठाकुर देव चौक में पोला पर्व के उपलक्ष्य में दिनांक 02 एवं 03 सितंबर 2024 को रामनाम सप्ताह का कार्यक्रम रखा गया है। जिसमें प्रवेश निःशुल्क एवं प्रथम 4001रू.से नवम 301रू. तथा विशेष पुरस्कार रखा गया है। यह जानकारी समिति के योगेश्वर साहू एवं भुनेश्वर साहू ने दिया तथा प्रतिभागी मंडली एवं दर्शकों से आयोजन को सफल बनाने सहयोग प्रदान करने की अपील की है।

अतिवृष्टि से मकान क्षति होने पर एक लाख 20 हजार रूपए की सहायता अनुदान राशि स्वीकृत

राजनांदगांव (दावा)। कलेक्टर संजय अग्रवाल ने दैवीय विपत्तियों के संबंध में राहत मद अंतर्गत तहसील डोंगरगढ़ में अतिवृष्टि से एक मकान पूर्णतः क्षति होने पर एक लाख 20 हजार रूपए की सहायता अनुदान राशि स्वीकृत की गई है।

केजाबाई देवांगन का देहावसान

राजनांदगांव (दावा)। समीपस्थ ग्राम तिलई के प्रतिष्ठित नागरिक भुनेश्वर देवांगन की धर्मपत्नी श्रीमती केजाबाई देवांगन (75 वर्ष) का रायपुर के हास्पिटल में इलाज के दौरान निधन हो गया। श्रीमती देवांगन अपने पीछे तीन पुत्रों गजेन्द्र देवांगन, महेन्द्र देवांगन एवं शैलेन्द्र देवांगन (पूर्व जनपद सभापति व अध्यक्ष, राज देवांगन) सहित भरापूरा परिवार छोड़ गई। पारिवारिक सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार आज एक सितंबर को पूर्वान्ह 11 बजे उनकी अंतिम यात्रा निकलेगी।

तिरंगा मंडल की इस वर्ष पौराणिक झांकी हेतु कार्यकारिणी गठित

पंकज गुप्ता अध्यक्ष, संरक्षक सागर चितलांग्या, गणेश शर्मा 'गन्नू'

राजनांदगांव (दावा)। संस्कारधानी की गणेश विसर्जन झांकी में अपनी अलग पहचान रखने वाली व 1981 से अनवरत 43 वर्षों से झांकियों में बेहतरीन प्रस्तुति देने वाली झांकी श्री तिरंगा मंडल द्वारा इस वर्ष पौराणिक धार्मिक विषय पर तीन जीपो के साईज की झांकी प्रस्तुत की जायेगी।

ज्ञातव्य है कि छत्तीसगढ़ी लोक कला संस्कृति की झांकी जनक, देशभक्ति, लोक कला, संस्कृति, सामाजिक, धार्मिक विषयों पर लोकप्रिय झांकियों की प्रस्तुति तिरंगा मंडल की हमेशा रहती है। जो की पूर्ण रूप से स्थानीय कलाकारों द्वारा संस्कारधानी नगरी में ही बनाई जाती है। पिछले वर्ष भी तिरंगा मंडल द्वारा माँ पाताल भैरवी के सजीव चित्रण की झांकी प्रस्तुत की गई थी, जो कि सर्वाधिक लोकप्रिय रही थी। इस हेतु समस्त व्यवस्था हेतु सर्वसम्मति से कार्यकारिणी गठित की गई है। जिसमें मुख्य संरक्षक सागर चितलांग्या, झांकी निर्देशक, मार्गदर्शक गणेश शर्मा, गन्नू सर तथा अध्यक्ष का दायित्व पुनः पंकज गुप्ता को दिया गया है। कार्यकारिणी में अध्यक्ष पंकज गुप्ता, कार्यकारी अध्यक्ष ज्ञानी मेश्राम संरक्षकगण - सागर चितलांग्या, गणेश शर्मा गन्नू, विवेक वासनिक, दीपक शर्मा, शिव अग्रवाल, श्रीमती प्रज्ञा गुप्ता, संयोजक- जितेश सिमनकर, अशोक अग्रवाल, विकास झाबक, उपाध्यक्ष- राजेश बाघमारे, राजेश पंचभाई, कोषाध्यक्ष- दिनेश खापर्डे, सचिव- संघप्रिय वासनिक, रजत भोईर पिन्टू, सहसचिव- संपत गुप्ता, शशांक भौतमांगे, अखिलेश ठावरे, प्रचार-प्रसार प्रभारी- राहुल गौतम, संदीप सोनी, विष्णु सिन्हा, पूजा प्रभारी- चंद्रकांत सोनी, पं. सृष्टि नारायण।

विसर्जन झांकी प्रभारी - युगल किशोर शर्मा, हेमंत सोनपिपरे, मनीष सिमनकर, गणेश गुप्ता, हेमंत साहू, श्रेय गुप्ता, नीलम मेश्राम, सुरेश डेकाटे, अनुज चौथवानी, गंगा प्रसाद सिन्हा, मोहसिन कुरैशी, नेता सोनवानी, अनिवेश खापर्डे, जीतू यादव, गणेश बिसने, प्रदीप हेड़ाऊ, रमेश पालीवाल, निखिल मंगवानी आदि शामिल है। उक्त जानकारी समिति के प्रचार-प्रसार प्रभारी राहुल गौतम ने दी।

दीगर प्रांत से आये फेरी वाले संदिग्धों को किया गया थाना तलब

सभी से पूछताछ कर लिया गया फिंगर प्रिंट

राजनांदगांव (दावा)। लालबाग पुलिस ने दीगर प्रांतों से आए वो गांवों में घूम-घूम कर फेरी लगाने वाले संदिग्धों को थाने बुलाकर पूछताछ किया और उनसे उनका फिंगर प्रिंट लिया गया।

बता दें कि पुलिस अधीक्षक मोहित गर्ग, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राहुल देव शर्मा, नगर पुलिस अधीक्षक पुष्पेन्द्र नायक द्वारा जिले में हो रहे लगातार चोरी की घटना की रोकथाम के लिए अभियान के तहत शनिवार 31अगस्त को थाना प्रभारी निरीक्षक नवरतन कश्यप के नेतृत्व पर थाना लालबाग स्टाफ जुर्म जरायम पतासाजी ग्राम भ्रमण पेट्रोलिंग पर देहात की ओर रवाना हुआ था जो गांव में फेरी कर सामान बेचने वाले संदिग्धों सेबू पिता रोजन मुक्तार पिता कल्लू सकलैन मुस्ताख पिता इबरार, मुअफजल पिता इवरार, मुकिम पिता वाहीद सभी निवासी जिला जौनपुर उत्तरप्रदेश व बब्लू पिता हमदानी, मो. नसीर पिता नूर मोहम्मद दोनो निवासी इलाहाबाद उत्तरप्रदेश को पुछताछ कर आधार कार्ड लिया गया एवं थाना तलब किया जाकर सभी संदिग्धों का फिगर प्रिंट लिया गया। आगे पुलिस द्वारा संदिग्धों का पृथक से निवास ग्राम की थाना में जानकारी भेजकर इनकी अपराधिक रिकार्ड/चरित्र के संबंध में जानकारी लिया जावेगा।

dts श्री कृष्णा (एयरकूल) में
रोजाना 4 खेलों में
समय : 12,3, 6 व 9 बजे रात्रि
बाल्कनी की एडवांस बुकिंग प्रारंभ है।
पारिवारिक मनोरंजन से भरपूर
संघर्ष एक जंग
छत्तीसगढ़ी भाषा में
कलाकार - अर्थ चन्द्रा, नेहा पाणिग्रही, अजय पटेल, संतोष सम्राट तिवारी आदि

आगामी ता. 6 से
तहीं मोर आशिकी
ऑनलाईन बुकिंग paytm & bookmyshow.com

कल आकाशवाणी से विजय मिश्रा की कहानी का प्रसारण

रायपुर (दावा)। छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ साहित्यकार विजय मिश्रा 'अमित' की कहानी 'बूढ़ी माई की बुद्धि' का प्रसारण आकाशवाणी से होगा। कार्यक्रम 'कथायन क्रम' के अंतर्गत उक्त कहानी के प्रस्तुतकर्ता उदय प्रकाश होंगे।

कल सोमवार 2 सितम्बर को सुबह 8.30 बजे कहानी का प्रसारण आकाशवाणी से होगा। अंधविश्वास पर केंद्रित कहानी

'बूढ़ी माई की बुद्धि' में नींबू - मिर्च को गूंथकर दुकान, गाड़ी में लटकाने की प्रथा पर कहानीकार विजय मिश्रा 'अमित' ने करारा प्रहार किया है। जादू-टोना के टोटके की आड़ में नींबू मिर्च की भारी बर्बादी को रोकने हेतु कहानी में बूढ़ी माई कहती है 'नींबू मिर्च को लटकाना फिर फेक देना किसानों की मेहनत का अपमान है। बिजली, पानी, खाद सहित किसानों के पसीने से उपजे नींबू-मिर्च का दान करना श्रेयस्कर कदम होगा।

शुभांक	
अनुमानित	बी. के.
	259-6 159-5

चेतावनी:-इस पत्र में प्रकाशित सर्वत्र शुभ राशियां ज्योतिष एवं ग्रह नक्षत्र के आधार पर धारणा मात्र है। इसका सट्टे आदि से कोई संबंध नहीं है, दुरूपयोग न करें। दुरूपयोग करने पर प्रकाशक की कोई जवाबदारी नहीं होगी। -सम्पादक

बैगापारा में नवनिर्मित सतनाम भवन का महापौर ने किया लोकार्पण

राजनांदगांव (दावा)। नगर निगम द्वारा वार्ड नं. 33 लखोली बैगापारा में महापौर निधि अंतर्गत 5 लाख रूपये की लागत से सतनाम भवन का निर्माण किया गया है। जिसका महापौर श्रीमती हेमा सुदेश देशमुख ने सामाजिक बंधुओं की उपस्थिति में एक संक्षिप्त एवं गरिमामय आयोजन में फीता काटकर पट्टीका का अनावरण कर लोकार्पण किया।

कार्यक्रम में नेता प्रतिपक्ष किशुन यदु, बाजार विभाग की प्रभारी सदस्य व वार्ड पार्षद श्रीमती दुलारी बाई साहू, विधि एवं समान्य प्रशासन विभाग के प्रभारी सदस्य अमीन हुद्दा विशेष रूप से उपस्थित थे। लोकार्पण कार्यक्रम में अपने संबोधन में महापौर श्रीमती देशमुख ने समाज को बधाई देते हुए कहा कि, वार्ड पार्षद एवं सामाजिक बंधुओं की मांग पर सतनाम भवन का निर्माण किया गया है। भवन निर्माण होने से समाज के लोगों को सामाजिक, धार्मिक एवं अन्य आयोजनों के लिये एक सर्वसुविधायुक्त उचित स्थान मिल गया। उन्होंने कहा कि सतनामी समाज बड़ा समाज है, इस समाज में बाबा गुरूघासीदास जैसे संत हुये, वहीं ममतामयी मिनीमाता जैसी महिला हुयी जो प्रदेश की पहली महिला सांसद थी। समाज के लोग इनके आदर्श पर चलकर समाज हित में कार्य करें।

प्रभारी सदस्य व वार्ड पार्षद श्रीमती दुलारी साहू ने कहा कि समाज वालो की मांग पर महापौर हेमा देशमुख ने अपनी महापौर निधि से 5 लाख रूपये देकर भवन का निर्माण कराया जिसके लिये में उनका समाज एवं वार्डवासियों की तरफ से आभार व्यक्त करती हूॅं और वार्ड के काम में इसी प्रकार सहयोग की अपेक्षा करती हूॅं। नेता प्रतिपक्ष श्री किशुन यदु एवं प्रभारी सदस्य अमीन हुद्दा ने भी भवन के लिये समाज वालों को बधाई देते हुये बाबा गुरूघासीदास के बताये मार्गो पर चल कर समाज हित में काम करने की अपील की।

कार्यक्रम के पूर्व में समाज के पं.नारायणदास राही, प्रकाश मारकंडे, धरम बघेल, डोमरूदास राही, गौकरण राही, लालचंद कुर्रे, पूनम चंद भारती, विष्णु महिलांग, सुनील डाहरे, परमेश्वर खुटारे, नरेश गेण्ड्रे, देवा चंदेल, भरत खिलाड़ी ने अतिथियों का पुष्पगुच्छ से स्वागत किया। तत्पश्चात अतिथियों ने गुरूघासीदास बाबा एवं मिनी माता के तैल चित्र पर माल्यार्पण कर पूजा अर्चनाकर सामुदायिक भवन का विधिवत लोकार्पण किया। इस अवसर पर उप अभियंता श्रीमती गरिमा वर्मा सहित समाज के लोग उपस्थित थे।

नौकरी लगाने के नाम पर ठगी का फरार आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ा

आरोपी ने लोगों को नौकरी लगाने के नाम धोखाधड़ी कर की थी, 36 लाख रूपए की ठगी

राजनांदगांव (दावा)। लोगों को नौकरी लगाने के नाम धोखाधड़ी कर 4 लोगों से 36 लाख रुपए की ठगी करने वाले आरोपी को लालबाग पुलिस ने पकड़ लिया है, बताया जाता है कि उक्त आरोपी गिरफ्तारी के डर से मोबाईल बंद कर फरार हो गया था। उसे कोरबा क्षेत्र के चांपा से धर दबोचा गया।

लालबाग थाना प्रभारी नवरतन कश्यप की मानें तो उक्त आरोपी पूर्व में भी ठगी व आबकारी एक्ट के मामले जेल जा चुका है। उक्त शातिर बदमाश की ठगी का चालाकी कार्य काम नहीं आया और उक्त 420 के आरोपी को आखिरकार पकड़ लिया गया है। उसे दो अलग-अलग 420 के मामलों में जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया गया है।

आरोपी के खिलाफ दो अलग-अलग रिपोर्ट

बताया जाता है कि प्रार्थी हरीश गंजीर एवं कुमार सोनवानी दोनो निवासी बरगा थाना लालबाग जिला द्वारा गत वर्ष 20 मई को थाना आकर लिखित आवेदन दिया कि प्रार्थीयों के बेटे व बहू कुल चार लोगों का आरोपी जीतू विश्वकर्मा एवं दोनों अपराध में अलग अलग सहयोगी के द्वारा भारतीय खाद्य निगम में नौकरी लगाने के नाम पर अलग अलग 12 लाख रू एवं 20 लाख रु कुल 36 लाख रू नगदी रकम लेकर नौकरी नहीं लगाकर धोखाधडी किया गया है।

उक्त आवेदन पर आवेदन जांच किया गया जांच पर से आरोपी जीतु विश्वकर्मा निवासी कुनकुरी जिला जशपुर के संबंध में अलग-अलग अपराध में उसके दो सहयोगियों के खिलाफ धारा 420, 34 भादंवि पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

लोकेशन बदल-बदल कर रह रहा था आरोपी

श्री कश्यप ने बताया कि आरोपी जीतू विश्वकर्मा घटना दिनांक से ही अपना मोबाईल नम्बर को बंद कर लगातार लोकेशन बदल रहा था और लुका छिपी कर भाग रहा था। सीडीआर के अवलोकन पर पाया गया की मुख्य आरोपी जीतू एक माह में 4-5 बार ही आवश्यकता पड़ने पर जरूरी कॉल करने के लिए दूसरे के मोबाईल को मांग कर अपना सीम लगाकर फोन करता था और तुरंत ही काम होने के बाद नम्बर बंद कर देता था। आरोपी का लोकेशन कभी जशपुर कभी कुनकुरी कभी कोरबा कभी चांपा दिखाया करता था। परसो दिनांक को ही आरोपी 10 दिन बाद पुनः अपने नम्बर को चंद समय के लिए चालू किया। जिसका लोकेशन चांपा के असपास दिखाया, फिर बंद कर दिया। कल शाम को भी आरोपी के मोबाईल का लोकेशन उसी स्थान पर दिखाने से शक हुआ कि आरोपी चांपा के आसपास रुका हुआ है। आरोपी के द्वारा पुनः मोबाईल को बंद कर देने के बाद चांपा के आसपास मुखबीर लगाया गया।

गिरफ्त में आया आरोपी

इस दौरान मुखबीर की सूचना के आधार पर थाना लालाबाग से तुरंत ही रात में टीम चांपा के लिए रवाना किया गया और मुखबीर से पता चला की जीतू विश्वकर्मा जो छत्तीसगढ़ स्टील एण्ड पावर लिमिटेड (सीएसपीएल) में सिक्योरिटी ऑफिसर के पद पर कार्यरत होकर अपने अधिनस्थ सुरक्षा गार्ड का देखरेख करता था जो कि रात्रि ड्यूटी में उपस्थित है कि सूचना पर टीम द्वारा आरोपी जीतु को सीएसपीएल कम्पनी में घेराबंदी कर पकड़ा गया।

बाद मे पुछताछ के लिए थाना लाया गया और उसे अभिरक्षा में लेकर पूछताछ कर गवाहों के समक्ष मेमोरेण्डम कथन लिया गया जिसमे आरोपी द्वारा जुर्म स्वीकार कर बताया कि, प्रार्थी से लिये रकम में से कुछ रकम अन्य सहयोगी आरोपी को देना और शेष रकम को स्वयं निजी कार्य से खर्च कर देना तथा नौकरी हेतु तैयार फर्जी नियुक्ति पत्र/ट्रासफर पत्र/ट्रेनिंग लेटर में प्रयुक्त रबर सील मुहर को जलाकर नष्ट कर देना बताया एवं नौकरी हेतु तैयार फर्जी दस्तावेजों को अपने पास रखना बताकर पेश करने पर आरोपी से दस्तावेजो को जप्त कर आरोपी के विरुद्ध अपराध धारा सदर का पर्याप्त साक्ष्य सबूत पाये जाने पर उसे न्यायिक रिमाण्ड में जेल भेज दिया गया है।

दहशत में वाहन चालक : 48 वाहनों से साढ़े 14 हजार रुपए वसूले गए

शहर में नो पार्किंग एवं आम रोड पर खड़े वाहनों पर पुलिस ने की कार्यवाही

राजनांदगांव (दावा)। यातायात पुलिस ने शनिवार 31 अगस्त को शहर में नो पार्किंग व आम रोड में खड़े वाहनों पर कार्रवाई की गई। पुलिस की इस धड़ाधड़ कार्रवाई से वाहन चालकों में दहशत मच गई। इस दौरान पुलिस ने 48 वाहनों पर कार्रवाई करते हुए वाहन चालकों से साढ़े 14 हजार रुपए जुर्माना वसूला गया।

बता दें कि आगामी त्योहारों के मद्देनजर शहर के भीतर अव्यवस्थित यातायात व्यवस्था सुधार हेतु यातायात प्रभारी निरीक्षक अजय कुमार खेस, सउनि येनलाल चन्द्राकर, कुंजलाल साहू, कमल किशोर श्रीवास्तव, थानेश्वर प्रसाद बांधव, शरद मसीह एवं यातायात टीम द्वारा शहर के जय स्तंभ चौक, मानव मंदिर चौक, जूनी हटरी, गुड़ाखू लाईन, आजाद चौक, भगत सिंह चौक, जलाराम मिष्ठान भंडार में बेतरतीब तरीके से नो पार्किंग एवं आम रोड में खड़े कुल 48 वाहनों पर चालानी कार्यवाही कर 14400 रूपये जुर्माना वसूला गया।

बताया जा रहा है कि आगामी पर्व त्यौहारों तक यह कार्यवाही लगातार जारी रहेगी। यातायात पुलिस ने की आम जन से अपील की है कि वे अपने वाहनों को निर्धारित पार्किंग स्थल पर ही पार्किंग करें, आम रोड पर वाहन खड़ी कर यातायात बाधित न करें, यातायात व्यवस्था बनाये रखने यातायात पुलिस का सहयोग करें, यातायात नियमों का पालन करे एवं असुविधा से बचे।

नशे से निजात : राजधानी में पकड़ाया अंतर्राज्यीय तस्कर

आरोपी के पास से 32 लाख का अफीम जब्त

रायपुर (दावा)। रायपुर में पुलिस ने अफीम के एक अंतर्राज्यीय तस्कर को गिरफ्तार किया है। आरोपी कुलजिन्दर सिंह के पास से 32 लाख का प्रतिबंधित मादक पदार्थ अफीम जब्त किया गया है। बीते दिनों केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ दौरे पर थे। जहां उन्होंने नारकोटिक्स कार्यालय का शुभारंभ किया था। साथ ही उन्होंने मंत्रियों के साथ मीटिंग कर नशे को लेकर कार्रवाई के निर्देश दिए थे।

रायपुर एसपी डॉ. संतोष कुमार सिंह के निर्देश पर निजात अभियान के तहत नशे के विरूद्ध विशेष अभियान चलाया जा रहा है। जिसमें समस्त थानों और एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट की टीम द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। नारकोटिक्स एक्ट पर प्रभावी कार्रवाई करने विशेष टीम का गठन किया गया है। साथ ही समस्त थाना प्रभारियों को नशे की सामाग्री बिक्री करने वालों पर कठोर कार्रवाई की जा रही है।

ऐसे पकड़ा गया आरोपी

30 अगस्त को सूचना मिली कि, पंडरी एक्सप्रेसवे के नीचे एक व्यक्ति ने एक्टीवा में अफीम रखा हुआ है और बेचने की फिराक में ग्राहक तलाश कर रहा है। जिस पर लखन पटले, नगर पुलिस अधीक्षक सिविल लाईन अनुराग झा द्वारा थाना प्रभारी सिविल लाइन को सूचना की। जांच कर आरोपी को अफीम के साथ रंगे हाथ पकड़ने निर्देशित दिया गया। जिस पर थाना सिविल लाईन पुलिस टीम द्वारा रेड कार्रवाई कर आरोपी को पकड़ा गया। उसके पास से 2.106 किलोग्राम अफीम और एक एक्टिवा जब्त की गई है। आरोपी कुलजिन्दर सिंह के विरूद्ध के खिलाफ सिविल लाईन थाने में अपराध क्रमांक 475/24 धारा 18(बी) नारकोटिक एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी के विरूद्ध अग्रिम कार्यवाही किया गया है।

पर्यावरण और बालिका स्वास्थ्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय कामों के लिए शिक्षिका रश्मि धुर्वे को मिलेगा अवार्ड

रायपुर (दावा)। राज्य शिक्षक अलंकरण के सर्वोच्च 'राज्य स्तरीय स्मृति पुरस्कार' से चार शिक्षक-शिक्षिकों को सम्मानित किया जायेगा। 5 सितंबर शिक्षक दिवस पर इन उत्कृष्ट शिक्षकों को राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान से स्मानित किया जायेगा।

इन्हें मिलेगा अवार्ड

राज्य स्तरीय स्मृति पुरस्कार के लिए जिन शिक्षकों का चयन किया गया है, उनमें रश्मि सिंह धुर्वे व्याख्याता, शासकीय हाई स्कूल पाली तखतपुर बिलासपुर को डॉक्टर पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। वहीं धरमलाल लहरे व्याख्याता, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कोठारी करतला कोरबा को गजानन माधव मुक्तिबोध स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इस तरह राजश्री पांडे शिक्षक शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला सिंगापुर कबीरधाम को मुकुटधर पांडे स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा, जबकि सरिता साहू उच्च वर्ग शिक्षक को शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला दुर्ग को डॉक्टर बलदेव प्रसाद मिश्र स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा।

डॉ. रश्मि सिंह धुर्वे का चयन पदुमलाल पुन्नालाल बक्शी स्मृति पुरस्कार के लिए हुआ है, उन्हें प्रशस्ति पत्र 50000 रूपये की राशि सम्मान स्वरूप महामहिम राज्यपाल के हाथों प्रदान की जाएगी।

रश्मि धुर्वे ने पर्यावरण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्यों को राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिल चुकी है। इनके द्वारा 6 अंतर्राष्ट्रीय और 6 राष्ट्रीय शोधपत्रों का प्रकाशन किया जा चुका है। वहीं शिक्षा के क्षेत्र में 20 प्रकार के नवाचार लिए गए हैं। सामाजिक सरोकार के तहत् 20 प्रकार के सामाजिक जागरूकता के कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं, जैसे पर्यावरण जागरूकता, स्वच्छता जागरूकता, किशोरी बालिकाओं के पोषण स्वास्थ्य जागरूकता महावारी जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से जन जागरूकता फैला रही हैं। विकास योजना में सक्रिय भागीदारी निभा रही हैं, इनके कुशल संचालन में शाला ने भारत सरकार की स्वच्छ विद्यालय प्रतियोगिता में राज्य स्तर पर चयनित होते हुए, राष्ट्रीय स्तर पर राज्य का प्रतिनिधित्व किया। पर्यावरण के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ ईको क्लब का चयन पर्यावरण विभाग की ओर से किया गया। इनके सफल संचालन में शाला ने विभिन्न शैक्षणिक, सांस्कृतिक, लक्ष्य निर्धारित किए भारत सरकार खेल एवं युवा कल्याण विभाग की ओर से संचालित युवा महोत्सव में प्रतिवर्ष बच्चे पुरुस्कृत होते है। ये स्वयं वादविवाद प्रतियोगिता में बिलासपुर संभाग से प्रथम स्थान प्राप्त कर राज्य स्तर पर प्रतिनिधित्व किया।

बच्चों के व्यक्तित्व विकास, समय प्रबंधन आदि पर मोटिवेशनल वक्ता के रूप छात्रों को प्रेरित कर रही है। इन्हे वर्ष 2019 में राज्यपाल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। लेखन कार्य, सामाजिक सरोकार, शिक्षा में नवाचार, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के कारण इन्हें प्रसिद्ध साहित्यकार पदुमलाल पुन्नालाल स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है।

बजट 2025-26 की तैयारी शुरुः विभाग ने जारी किया शेड्यूल, नवंबर तक देना है प्रस्ताव

रायपुर (दावा)। वित्त विभाग ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट की तैयारी शुरू कर दी है। विभाग की तरफ से नए बजट के लिए शेड्यूल जारी कर दिया गया है। विभाग नवंबर 2024 तक प्रस्ताव दे सकते हैं। जनवरी 2025 में मंत्री स्तरीय चर्चा होगी, जिसके बाद बजट फाइनल किया जाएगा। इसके बाद बजट भाषा की तैयारी शुरू हो जाएगी। वित्त विभाग की तरफ से जारी बजट कार्यक्रम में बताया गया है कि, आदिवासी क्षेत्र उपयोजना और अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना के बजट प्रस्ताव आदिम जाति और अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के वित्तीय सलाहकार प्रकोष्ठ को भेजा जाएगा। इसके अलावा विभागों को भी निर्देश दिया गया है कि, नवीन व्यय के प्रस्तावों को सूक्ष्म परीक्षित के रूप में शामिल कराएं। साल 2025-26 के बजट में अपरीक्षित व्यय के नवीन मदो के स्थान पर परीक्षित मद के रूप में प्रस्तावों को वरीयता दी जाएगी। अपरीक्षित नवीन मद के प्रस्ताव केवल मंत्री स्तरीय चर्चा में ही विचार किए जाएंगे।

पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग का भी बजट हो रहा तैयार

पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग की मांग संख्याओं के अंतर्गत संचालित योजनाओं का समेकित बजट प्रस्ताव पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग ने संबंधित विभागों से चर्चा करके तैयार किया जा रहा है। इसके बाद वित्त विभाग को समय सीमा में प्रस्तुत किया जाएगा।

लायंस क्लब राजनांदगांव सिटी कन्या शाला में स्कूली सामग्री का वितरण

राजनांदगांव (दावा)। इंटरनेशनल एसोसिएशन, लायंस क्लब के तत्वाधान में विद्यार्थियों के प्रोत्साहन हेतु विद्यार्थियों को आवश्यक स्कूली सामग्री प्रायोजित कर प्रतिवर्ष अगस्त माह में स्कूली सेवा कार्य सार्वत्रिक की जाती है, इसी कड़ी में भारती कन्या उच्चतर माध्यमिक शाला, भरका पारा राजनांदगांव में कार्यक्रम रखा गया।

प्रकल्प प्रभारी लायन रोहित वर्मा के संयोजन के साथ लायन अशोक पवार एवं वरिष्ठ लायन अनीता जैन के व्यवस्थापन में प्राचार्य श्रीमती अंजलि शुक्ला का विशिष्ट योगदान सराहनीय रहा। लायन कमल किशोर साहू के मंच संचालन एवं आगंतुकों का परिचय एवं अभिनंदन के साथ लायन शोभा चौरसिया का जन्मदिन बच्चों को भेंट स्वरूप मिठाई, चॉकलेट, वॉटर बॉटल गिफ्ट कर मनाई गई। स्टेशनरी सामग्री स्कूल स्टाफ के मान्यवर सावित्री सिंह, पुष्पलता चंद्राकर, हेमकुमारी साहू, चंचल चंद्राकर, पूजा सोनकर, विद्या गुप्ता के हाथों किट वितरण कर विद्यार्थियों को प्रोत्साहित की गई। लायंस डिस्ट्रिक्ट् 3233 सी के अंतर्गत लायंस क्लब राजनांदगांव सिटी के लायन तरणदीप सिंग 'गोल्डी' अरोरा की अध्यक्षता में सेवा प्रकल्प में क्लब के लायन मनोज अग्रहरि गुप्ता, लायन रमेश गुप्ता, सचिव लायन डॉ गिरीश श्रीवास्तव, लायन सुरेश शर्मा के उपस्थिति में संपन्न हुआ।

जनपद सभापति ओमप्रकाश साहू ने तिलई में प्रा. शाला अतिरिक्त भवन का लोकार्पण किया

राजनांदगांव (दावा)। ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम पंचायत तिलई में प्राथमिक शाला में निर्मित अतिरिक्त भवन का लोकार्पण क्षेत्रीय जनपद सदस्य सभापति ओमप्रकाश साहू के मुख्य अतिथि में किया गया।

इस दौरान उन्होंने प्राथमिक शाला में नव निर्मित अतिरिक्त कक्ष भवन का फीता काटकर लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि क्षेत्र का विकास मेरी प्राथमिकता में है। बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले इसके लिए संसाधन भी जरूरी है, अच्छे संसाधन से ही शिक्षा का विकास होता है वही शिक्षकों और विद्यार्थियों को बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना किया। इस अवसर पर सरपंच मथुरा नेताम, शाला विकास समिति अध्यक्ष राजेश्वरी साहू, उपसरपंच सफील खान, गुलाल साहू, ईश्वर साहू, पूनम देवांगन, हेमंत नेताम, नाजरीन खान, मिथलेश चंद्रवंशी, केशव देवांगन, अमजद खान, वीरेंद्र मुक्ति, दुर्गा साहू सहित जनप्रतिनिधि, शिक्षक, ग्रामीण उपस्थित रहे।

लखोली में भाजपा सदस्यता अभियान को लेकर बैठक आयोजित

राजनांदगांव (दावा)। राष्ट्रहित के लिए भाजपा को पहले से और अधिक सशक्त बनाने के लिए पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के निर्देशानुसार आगामी दो सितंबर से शुरू होने वाले सदस्यता अभियान को लेकर लखोली शक्ति केन्द्र में बैठक संपन्न हुई।

बैठक में पार्टी की रीति नीति की जानकारी देकर हर बुथ में 200 प्राथमिक सदस्य बनाने हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए एवं 50 सदस्यों से अधिक सदस्य बनाने वाले को सक्रिय सदस्य बनाने की बात से अवगत कराया गया।

इस अवसर पर दक्षिण मंडल अध्यक्ष तरुण लहरवानी, अभियान के मंडल प्रभारी रवि सिन्हा, मंडल महामंत्री हकीम खान, आईटी सेल के शैंकी बग्गा, विशाल शर्मा , शक्ति केन्द्र प्रभारी राजेश गुप्ता अग्रहरि, महिला मोर्चा अध्यक्ष मिथलेश्वरी वैष्णव, अनु.जाति मोर्चा प्रदेश मंत्री आशीष डोंगरे, अभियान के शक्ति केन्द्र संयोजक संतोष निर्मलकर, पुर्व पार्षद विट्ठल पटेल, मंत्री प्रकाश मारकंडे, बुथ अध्यक्षों डिलेश्वर साहू, संतोष गुप्ता, शत्रुहन साहू, शिवेंद्र वैष्णव, संतोष साहू, बाबा, हीरा साहू, सतीश साहू, अमरुद साहू, राकेश विश्वकर्मा, मिलन साहू, धिरपाल एवं कमलेश साहू सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं की उपस्थिति रही ।

बालरत्न मंच सेवा समिति द्वारा गणेश उत्सव समिति गठित

संयोजक संदेश जैन, प्रशांत अग्रवाल, रवि शर्मा, अध्यक्ष अभिनव अग्रवाल, सचिव रोहित शर्मा, कोषाध्यक्ष करण अग्रवाल

राजनांदगांव (दावा)। संस्कारधानी की सेवाभावी संस्था बाल रत्न मंच सेवा समिति गौ सेवा रथ दो रोटी, सेवा कार्यों में एक विशिष्ट पहचान रखती है संस्था द्वारा इस वर्ष गणेश उत्सव सेवा समिति का गठन किया गया है जिसमें सर्वसम्मति से अध्यक्ष अभिनव अग्रवाल को बनाया गया।

उन्होंने अपनी कार्यकारिणी इस प्रकार गठित की है हमारे आशीर्वादक वरिष्ठ सम्मानित संरक्षक गेंदमल ओसवाल, रमेश जैन छुरिया वाले, विजय अग्रवाल निर्मल शर्मा, ब्रजकिशोर सुरजन, हरीश अग्रवाल राजकुमार अग्रवाल, किशन अग्रवाल बाबा जी सम्मानित संरक्षक, श्रीमती हेमा सुदेश देशमुख महापौर, अजय सिंगी, राजेश अग्रवाल, संजय अग्रवाल, घनश्याम भूतड़ा, अमर लालवानी, जगदीश प्रसाद सोनी, जगमोहन यादव, राकेश वैष्णव होंगे।

'मेरी संस्कृति मेरा आधार' बाल रत्न मंच गणेश उत्सव की पहल

विशेष आमंत्रित सदस्य भावेश अग्रवाल, राजेश शर्मा, कमल किशोर साहू, निकुंज सिंघल, प्रेरणा स्रोत वरिष्ठ सदस्यगण राहुल अग्रवाल मयंक शर्मा, सौरभ खंडेलवाल, रितेश यादव, आयोजन समिति के संयोजक संदेश जैन, प्रशांत अग्रवाल, रवि शर्मा, अध्यक्ष अभिनव अग्रवाल, उपाध्यक्ष दिनेश अग्रवाल, सचिव रोहित शर्मा, सहसचिव कैलाश गुप्ता, मनीष यादव, कोषाध्यक्ष करण अग्रवाल, सहकोषाध्यक्ष चैतन्य अग्रवाल, भंडारा प्रमुख पीयूष शर्मा, भंडारा प्रभारी शैलेश शर्मा, अरविंद गुप्ता, पूजापाठ प्रभारी लोकेश अग्रवाल, महेश शर्मा, सांस्कृतिक प्रभारी प्रशांत कुशवाहा, श्रेयांश जोशी, प्रचार प्रमुख हर्ष अग्रवाल, आयुष शर्मा पडाल व्यवस्था प्रमुख सवी अग्रवाल, सतपाल वाधवानी, वरिष्ठ कार्यकारिणी सदस्य गोविंद जोशी, कार्यकारिणी सदस्य राजा गुप्ता निलेश शर्मा को बनाया गया है।

अध्यक्ष अभिनव अग्रवाल एवं सचिव रोहित शर्मा, कोषाध्यक्ष करण अग्रवाल ने बताया की मेरी संस्कृति मेरा आधार को शिरोधार्य करते हुए इस वर्ष गणेश उत्सव का 31वां आयोजन है। 11 दिवसीय गणपति महोत्सव आनंद उमंग महोत्सव के रूप में मनाया जाएगा। बालरत्न मंच सेवा समिति गणेश उत्सव पंडाल को भव्य आकर्षक रूप से सजाया जा रहा है। गणपति जी की नैनाभिराम प्रतिमा के साथ ही जगन्नाथ महाप्रभु की दिव्य भव्य झांकी सजाई जाएगी। जिसमें प्रथम दिवस दिनांक 7 सितंबर श्री गणेश स्थापना, 11 सितंबर को श्री गणेश अभिषेक महापूजा महाआरती 12 सितंबर को 5100 दीपों से दीपोत्सव मनाया जाएगा, 14 सितंबर को गणेश उत्सव में पहली बार विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन, 15 सितंबर अन्नकूट महाप्रसाद भंडारा एवं 17 सितंबर को भव्य आकर्षक शोभायात्रा बाजे गाजे के साथ उत्साह पूर्ण वातावरण में गणपति विसर्जन किया जाएगा और पुनः श्री गणपति से प्रार्थना करते हुए अगले बरस तू जल्दी आना का निमंत्रण दिया जाएगा। उपरोक्त जानकारी बाल रत्न मंच गणेश उत्सव सेवा समिति के सचिव रोहित शर्मा ने दी।

दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे

ई-निविदा सूचना

निविदा सूचना क्रमांक : 04 /निविदा/विद्युत निर्माण/द.पू.म.रेलवे/बीएसपी/2024, दिनांक: 26.08.2024

कार्य का नाम : द.पू.म. रेलवे नागपुर मंडल के राजनंदगाव - नागपुर के मध्य रेलवे लाइन तिहरीकरण कार्य के अंतर्गत बिजली आपूर्ति स्थापना (पी एस आई) का शेष कार्यों का निष्पादन और कमीशनिंग। **निविदा मुल्य :** रु. 2,36,98,396.11 (दो करोड़ छत्तीस लाख अठानवे हजार तीन सौ छियानवे रुपये ग्यारह पैसे मात्र) । **बयाना राशि :** रु. 2,68,500/- (दो लाख अड़सठ हजार पाँच सौ मात्र) । **निविदा बंद होने का समय एवं दिनांक :** 18.09.2024 को 15:30 बजे, **कार्य पूर्णता की अवधि :** 12 (बारह) माह स्वीकृती पत्र जारी होने की तारीख से । **वेबसाइट का विवरण तथा नोटिस बोर्ड का स्थान :** उपर दिए गए कार्य के लिए विस्तृत जानकारी/ई-निविदा दस्तावेज पात्रता का मापदंड तथा अन्य विस्तृत विवरण हेतु ई-निविदा के कागजात, जो हमारी वेबसाइट **www.ireps.gov.in** पर उपलब्ध है उसे डाउनलोड कर देख सकते है।

कृते उप मुख्य विद्युत अभियंता (निर्माण)
सीपीआर/10/AM/213 **द.पू.म. रेलवे, नागपुर**

South East Central Railway @secrail

अनमोल दावा

"मनुष्य जब तक अपने आप से नहीं हारता, तब तक उसे दुनिया की कोई ताकत हरा नहीं सकती..."

भारत-चीन सीमा विवाद पर कड़वाहट दूर करने की पहल, बीजिंग को दिखाना होगा लचीला रुख

भारत की शिकायत अभी अपनी जगह बनी हुई है कि चीन ने भारत के हिस्से वाले भूखंड पर नजर गड़ाई हुई है। कई जगह उसने अवैध निर्माण तक की कोशिश की है। राजनीतिक स्तर पर भी चीन की रणनीति भारत को चारों तरफ से घेरने की ही देखी जाती रही है।

भारत और चीन के बीच विवादित सीमा क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बहाल करने के मकसद से बेजिंग में हुई परामर्श और समन्वय के लिए कार्यतंत्र यानी डब्लूएमसीसी की इकतीसवीं बैठक निस्संदेह आशाजनक कही जा सकती है। इस बैठक में दोनों पक्षों ने इस बात पर जोर दिया कि सीमा पर तनाव को कम करने और लंबित मुद्दों का समाधान खोजने के लिए ऐसी बातचीत बेहद जरूरी है, जो स्पष्ट, रचनात्मक और भविष्य की जरूरी संभावनाओं के प्रति उन्मुख हो।

यह बैठक दरअसल, पिछले महीने दोनों देशों के विदेश मंत्रियों की आसियान और शंघाई शिखर सम्मेलन के दौरान हुई मुलाकातों में सीमा विवाद को सकारात्मक ढंग से निपटाने को लेकर बनी सहमति के आधार पर बुलाई गई थी। यों भारत-चीन सीमा विवाद पुराना है, मगर चार साल पहले गलवान घाटी में दोनों देशों के सैनिकों के बीच हुए संघर्ष के बाद कड़वाहट बढ़ गई थी। वह तनाव अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। तब से लेकर अब तक इसे सुलझाने के लिए राजनयिक और सैन्य स्तर की कई बैठकें हो चुकी हैं। ताजा बैठक उसी की कड़ी थी।

इसे सकारात्मक रुख माना जाना चाहिए कि चीन ने कभी सीमा विवाद को सुलझाने के लिए बातचीत से खुद को अलग नहीं किया। कुछ मौकों पर तो खुद चीन के सैन्य अधिकारियों ने भी बैठक बुलाई और उसके सकारात्मक नतीजे भी देखने को मिले। अगर चीन सचमुच सीमा पर शांति और स्थायित्व का पक्षधर है, तो उससे लचीले रुख की अपेक्षा स्वाभाविक है। दरअसल, अनेक मौकों पर देखा गया है कि बैठकों में तो चीन के अधिकारी सकारात्मक रुख जाहिर करते हैं, पर व्यवहार में वहां की सेना विस्तारवादी नीतियों पर आगे बढ़ती नजर आती है।

भारत की शिकायत अभी अपनी जगह बनी हुई है कि चीन ने भारत के हिस्से वाले भूखंड पर नजर गड़ाई हुई है। कई जगह उसने अवैध निर्माण तक की कोशिश की है। राजनीतिक स्तर पर भी चीन की रणनीति भारत को चारों तरफ से घेरने की ही देखी जाती रही है। वह भारत के पड़ोसी देशों में अपनी पैठ बना कर एक तरह से भारत पर सामरिक शिकंजा कसने का प्रयास करता देखा जाता है।

दो देशों के रिश्ते पारदर्शिता पर ही टिकाऊ और स्थायी बन सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि विश्व मंचों और औपचारिक बैठकों में तो रचनात्मक संबंधों की जरूरत पर बल दिया जाए और व्यवहार में संदेह पैदा करने वाली गतिविधियां चलाई जाएं। पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल और बांग्लादेश में उसने आर्थिक सहयोग के नाम पर जैसी गतिविधियां चलानी शुरू की हैं, वे भारत के लिए किसी भी रूप में रचनात्मक नहीं कही जा सकतीं।

हिंद-प्रशांत क्षेत्र में दबदबा कायम करने के लिए चीन ने जिस तरह की सामरिक बाड़बंदी की है, वह भी भारत के लिए चिंता का विषय है। इन सबके बावजूद भारत व्यापारिक मामलों में चीन का एक बड़ा सहयोगी है। इसलिए केवल कूटनीतिक स्तर पर समन्वय का आदर्श पेश करने के बजाय जब तक वह व्यावहारिक धरातल पर भारत के मामले में विस्तारवादी नीतियों का त्याग नहीं करेगा, इसके सकारात्मक नतीजे निकलने मुश्किल बने रहेंगे।

युद्ध की आड़ में फ़लस्तीनियों की ज़मीन पर कब्ज़ा करते इसराइली

योलांद नेल

प्राकृतिक झरनों के पानी से सिंचाई करने वाले पुराने फलस्तीनी गांव बतिर में आम जदिगी सैंकडों सालों से शांत ही रही है. यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल बतिर गांव को जैतून के बागों और अंगूर के खेतों लिए जाना जाता है. लेकिन मौजूदा वक्त में यह कब्जा किए गए वेस्ट बैंक वाले इलाके में बस्तियों को लेकर चर्चा में है. इसराइल ने इस इलाके में नई यहूदी बस्तियों को मान्यता दी है. लेकिन इसराइल की अनुमति के बिना यहां नई यहूदी बस्तियों के लिए फलस्तीनियों के लोगों की निजी स्वामित्व वाली जमीन को छीन लिया गया है और वहां सैन्य चौकियां बना दी गई हैं.घासन ओल्यान उन लोगों में से हैं जिनकी जमीन पर कब्जा किया गया है. ओल्यान कहते हैं, हमारी त्रासदी पर अपने सपने बनाने के लिए वो हमसे हमारी जमीनें छीन रहे हैं.यूनेस्को का कहना है कि बतिर के आसपास नई बस्ती और लोगों को लेकर वो चिंतित है. सभी बस्तियां अंतरराष्ट्रीय कानूनों के हिसाब से अवैध हैं, हालांकि इसराइल इस बात से सहमत नहीं है.ओल्यान यहां बस रहे नए लोगों को लेकर कहते हैं, उन्हें अंतरराष्ट्रीय कानूनों, स्थानीय कानूनों और ईश्वर के कानूनों की भी कोई परवाह नहीं है.इसराइल के खुफिया प्रमुख रोनेन बार ने पिछले हफ्ते मंत्रियों को पत्र लिखकर चेतावनी दी थी कि वेस्ट बैंक क्षेत्र में मौजूद यहूदी चरमपंथी फलस्तीनियों के खिलाफ आतंकी गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं और देश को नुकसान पहुंचा रहे हैं.

गजा में युद्ध शुरू होने के बाद से कब्जे वाले वेस्ट बैंक के क्षेत्र में नई यहूदी बस्तियों की संख्या में वृद्धि देखी जा रही है. इसराइली सरकार में मौजूद कट्टरपंथियों का मानना है कि इस तरह के बदलाव एक स्वतंत्र फलस्तीनी राष्ट्र बनने की संभावना को कम करेंगे.इस बात की भी आशंका है कि अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए वो गजा में जारी युद्ध और लंबा खींच सकते हैं.यहूदी बस्तियों की बढती संख्या पर नजर रखने वाली इसराइली संस्था पीस नाउ के योनातन मिजराही कहते हैं कि वेस्ट बैंक में मौजूद इसराइली कट्टरपंथी पहले से मौजूद तनावपूर्ण स्थिति को और बढा रहे हैं और इसराइल फलस्तीन संघर्ष के खत्म होने की संभावनाओं को मुश्किल बना रहे हैं.उनका मानना है कि सात अक्टूबर को हुए हमले के बाद इसराइल के लोगों में गुस्सा और डर दोनों है. हमास के हमले में 1200 लोगों की मौत हुई थी. उनके अनुसार इस कारण भी लोग अधिक जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं और उनसे बहुत कम लोग इस मुद्दे पर सवाल कर रहे हैं.प्यू रिसर्च सेंटर के जून में किए गए एक सर्वे के मुताबिक 40 प्रतिशत यहूदियों का मानना है कि नई बस्तियों ने देश को सुरक्षित बनाया है. 2013 में ऐसा मानने वालों की संख्या 27 प्रतिशत थी. वहीं दूसरी तरफ 35 प्रतिशत लोगों का मानना है कि इन बस्तियों से इसराइली की सुरक्षा को नुकसान पहुंचा है. ऐसा मानने वालों की संख्या इससे पहले 42 प्रतिशत थी.

मिजराही को इस बात की चिंता है कि वेस्ट बैंक में मौजूद कट्टरपंथी यहूदी पहले से तनावपूर्ण और अस्थिर स्थिति को और बढा रहे हैं. वो कहते हैं, यह बहुत खतरनाक है और दोनों पक्षों के बीच नफरत को और बढा रहा है.जंग शुरू होने के बाद से वेस्ट बैंक में फलस्तीन के लोगों के खिलाफ नए बसे लोगों (सेटलर्स) की तरफ से हिंसा के मामलों में बढोतरी दर्ज की गई है.हालांकि हिंसा में पहले भी वृद्धि देखी जा रही थी. लेकिन पिछले 10 महीनों में यूएन ने हिंसा के 1270 मामलों को दर्ज किया है जबकि 2022 में कुल 856 हमलों के मामले सामने आए थे.इसराइल की मानावधिकार संस्था बी'त्सेलेम के अनुसार इसी अवधि में नए बसने वाले इसराइलियों के उत्पीडन के कारण वेस्ट बैंक में कम से कम 18 गांवों से फलस्तीनियों को बाहर निकलने पर मजबूर होना पडा है.1967 में मध्य पूर्व में जंग के दौरान इसराइल और जॉर्डन के बीच मौजूद फलस्तीनी क्षेत्र पर इसराइल ने कब्जा कर लिया था. तब से लेकर अब तक यह क्षेत्र इसराइल के ही कब्जे में है.

यूएन के अनुसार सात अक्टूबर से लेकर अगस्त 2024 तक वेस्ट बैंक में 589 फलस्तीनी नागरिक मारे गए हैं. इनमें कम के कम 570 लोग इसराइली सैनिकों के हाथों मारे गए हैं और 11 इसराइली बस्तियों में रहने वाले लोगों के हाथों. इस दौरान फलस्तीनियों ने 11 इसराइली सेटलर्स को और इसराइली सुरक्षा बल से जुडे 9 लोगों को मारा है.इसी हफ्ते बेथलेहम के निकट मौजूद वादी एल राहेल में इसराइली सुरक्षा बलों और इसराइली सेटलर्स के घुसने के बाद कथित तौर पर एक 40 वर्षीय फलस्तीनी नागरिक की गोली मारकर हत्या कर दी गई. इसराइली सेना का दावा है कि पहले इसराइली वाहन पर पत्थर फेंके गए थे.

पिछले महीने जित नाम के एक गांव में इसराइलियों के घुसने और वहां तोडफोड करने के दौरान एक 22 वर्षीय फलस्तीनी युवक की मौत हो गई थी. इस घटना की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आलोचना की गई. इसराइली सुरक्षा बलों ने चार लोगों को गिरफ्तार किया था और इस घटना को गंभीर आतंकी घटना बताया था.लेकिन इस तरह के मामलों को देखा जाए तो सजा मिलने में कमी देखी जा रही है. इसराइली नागरिक अधिकार समूह येश दिन ने पाया है कि 2005 से लेकर 2023 तक इसराइली प्रवासियों की ओर से की गई हिंसा के मामले में सिर्फ 3 प्रतिशत मामलों में ही आधिकारिक जांच में सजा मिली है. इसराइल के खुफिया प्रमुख रोनन बार की लिखी चेतावनी वाली चिट्ठी को इसराइली मीडिया को लीक कर दिया गया था. इसमें उन्होंने कहा था कि कट्टरपंथी इसराइली सेटलर्स को कानून में ढिलाई के जरिए एक तरह से प्रोत्साहित किया गया था. वेस्ट बैंक के हिस्सों में नए सेटलर्स को खास बनाए गए यहूदी समुदायों में बसाया गया है.इनमें से अधिकतर बस्तियों को इसराइली सरकार की तरफ से कानूनी मदद मिलती है. अन्य बस्तियों को चौकियों के रूप में जाना जाता है जिन्हें तंबुओं और गाड़ियों में बने घरों के रूप में बनाया गया है. ये बस्तियां इसराइली कानून के अनुसार अमान्य हैं. लेकिन कट्टरपंथी और जमीनों पर कब्जा करने के लिए इन बस्तियों का निर्माण करते रहते हैं.जुलाई महीने में जब यूएन के उच्चतम कोर्ट को पहली बार यह पता चला था कि पूर्वी यरुशलम सहित वेस्ट बैंक के इलाके पर इसराइल का अवैध कब्जा था, तब कोर्ट ने कहा था कि इसराइल को नई बस्तियां बसाने की कार्रवाई को रोकना होगा और जल्द से जल्द पीछे हटना होगा.इसराइल के पश्चिमी सहयोगी इन नई बस्तियों को शांति की राह में रुकावट के रूप में देखते हैं. लेकिन इसराइल इस दलील को खारिज करता है. वो कहता है, यहूदी लोग कब्जा नहीं कर रहे हैं, यह उनकी अपनी ही जमीन है.अब इस बात को लेकर आशंका जताई जा रही है कि इसराइली कट्टरपंथी बस्तियों को स्थायी बनाने के लिए काम कर रहे हैं.इसराइल के इतिहास की अब तक की सबसे ज़्यादा दक्षिणपंथी सरकार के सहयोग से ये लोग क्षेत्र में अपने नियंत्रण को बढा रहे हैं. ये कट्टरपंथी वेस्ट बैंक पर अपने कब्जे की योजना को तो बढा ही रहे हैं, युद्ध खत्म होने के बाद गजा में बसने की बात भी खुलेआम कर रहे हैं. ये इसराइली सरकार के महत्वपूर्ण मंत्रालयों में भी काम कर रहे हैं.एक तरफ विश्व के नेता टू स्टेट समाधान पर जोर दे रहे हैं और नई बस्तियां बसाने का विरोध कर रहे हैं जिससे स्थायी शांति का रास्ता निकल सकेगा और एक अलग फलस्तीनी राष्ट्र बन सकेगा. दूसरी तरफ इसराइल के धार्मिक राष्ट्रवादियों का मानना है कि सारी जमीन पर इसराइल का हक है.विश्लेषकों का मानना है कि शायद इसीलिए कुछ नेता युद्धविराम के किसी भी समझौते को मानने से इनकार कर रहे हैं.%द टाइम्स ऑफ इसराइल% की राजनीतिक संवाददाता ताल श्नाइडर का कहना है कि वे लोग इस कारण से भी संघर्ष खत्म नहीं करना चाहते या बंधक रिहाई समझौते पर नहीं पहुंचना चाहते क्योंकि उनका मानना है कि इसराइल को तब तक युद्ध लडना चाहिए जब तक कि संघर्ष गजा के अंदर सिमट कर न रह जाए.ताल श्नाइडर कहती हैं, वो सोचते हैं कि लंबी अवधि में उनकी विचारधारा ज़्यादा सही है. यह उनका अपना तर्क है.इस बीच इसराइली प्रशासन ने पांच नई बस्तियां बसाने की घोषणा की है. इनमें से एक बस्ती बतिर गांव में भी बसाई जाएगी. यह बस्तियां 23 वर्ग किलोमीटर इलाके में बसाई जाएंगी. इसका मतलब यह है कि इसराइल इसे अपनी जमीन मानता है, भले ही यह जमीन कब्जे वाले इलाके में हो और फलस्तीनी लोगों की निजी जमीन हो. इसराइली सेटलर्स इस बात की उम्मीद करते हैं कि वे लोग अधिक से अधिक संख्या में इसराइली लोगों को इस जमीन पर बसाएंगे.

विचार सरिता

मन में बसे हैं राम - 246 : सीता जी ने कहा, मैं भी उनके साथ वन जाने की प्रबल इच्छा रखती हूं

डॉ. योगेंद्र कुमार पांडेय

जानकी जी का प्रश्न सुनकर श्री राम मुस्कुराने लगे, लेकिन उत्तर दिया लक्ष्मण जी ने। उन्होंने तेजी से आगे बढ़कर सीता जी के चरण स्पर्श किए। उन्होंने कहा, ''भाभी! स्थिति यह बन गई है कि भैया राम का अभिषेक तो होगा लेकिन अयोध्या की सीमा से दूर वन क्षेत्र में। वन क्षेत्र में निवास करने वाले प्रजाजन ही उनकी प्रजा होंगे और वन के वृक्ष,लताएं, पौधे पत्तियां, नदी, झरने, पहाड़ ये सब उनके विराट राज्य की जीवंत संपत्ति होंगे। भैया 14 वर्षों तक आर्यावर्त के वन क्षेत्र में रहेंगे और वन का कण-कण ही साकेत नगरी बन जाएगा. अभी एक अयोध्या यहां है तो दूसरे अयोध्या की सीमा वहां से शुरू होगी, जहां से दंडकारण्य का वन क्षेत्र शुरु होता है।उस क्षेत्र पर अयोध्या का आधिपत्य नहीं होगा लेकिन भैया राम लोगों के हृदय में राज्य करेंगे और सुख-दुख में उनकी सहायता करेंगे, उनके साथ रहेंगे।''

सीता जी यह सब सुनकर भी स्तब्ध और जड़वत नहीं हुईं। उनके मुख मंडल पर कोई चिंता जैसे भाव भी नहीं हैं। इस अप्रत्याशित सूचना से एक क्षण को उन्हें आश्चर्य हुआ, लेकिन अगले क्षण ही उन्होंने समझ लिया कि जहां पीड़ित मानवता की अपने हर एक पग पर रक्षा करने का उद्देश्य रखने वाले श्री राम हैं, वहां ऐसे निर्णय का कोई बड़ा और ठोस आधार अवश्य होगा।

उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, ''तो यह कारण है, आप सबके यहां एकत्र होने का और अभी तक अभिषेक स्थल के लिए प्रस्थान की तैयारी नहीं करने का।वन राज्य में आर्य पुत्र के साथ और कौन-कौन जाएंगे?....अगर केवल उनके जाने का निर्णय हुआ है तो मैं भी उनकी अर्धांगिनी के रूप में वन जाने की प्रबल इच्छा रखती हूं। मुझे भी अनुमति प्रदान की जाए।''

(भगवान श्री राम की प्रेरक गाथा संस्कृत साहित्य में आदि कवि वाल्मीकि और हिंदी साहित्य में अवधी के महाकवि तुलसी से लेकर विश्व की अनेक भाषाओं की शताधिक रामायणों में लिखी गई है। लेखक ने इस रचना में श्री राम की महागाथा के विविध प्रसंगों से कथा प्रवाह की प्रेरणा प्राप्त की है। उन्होंने उन रचनाकारों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए श्री राम के जीवन के विविध प्रसंगों में अनेक स्थानों पर एक साधारण भक्त की अपनी नवीन रचनात्मक कल्पनादृष्टि का भी सहारा लिया है और रामकथा की मौलिक साहित्यिक प्रस्तुति का प्रयत्न किया है।)

शब्द सामर्थ्य -164

(भागवत साहू)

बाएं से दाएं :
1. लज्जत, जायका 2. मुकाबला, भेंट, होड़ 5. बंदी, कैद की सजा पाने वाला व्यक्ति 7. खल-पात्र, नाटक फिल्म आदि का बुरा पात्र 9. कामी, व्याभिचारी 10. इज्जत जाना, बेइज्जती होना (उपमा)11. ऊटपटांग, विचित्र, कठिन 13. वैभव, ठाठ-बाट 14. साथ, सहित 15. कामदेव की पत्नी, प्रेम 16. मैं का बहुवचन 17. दरवाजे-दरवाजे 20. एक राशि, मगर 22. नमी, सीढ़, मुहर, छप्पा 23. औषधालय, चिकित्सालय।

ऊपर से नीचे
1. आत्मनिर्भर, स्वालंबन भावना से युक्त, स्वाश्रित 2. वर्ष, बरस 3. राजी करना, रूठे हुए को खुश करना, प्रसन्न करना 4. नाटक फिल्म आदि का मुख्यपात्र 6. दीवानगी, पागलपन, 7. दो वस्तुओं के टकराने से उत्पन्न ध्वनि, बैर-विरोध, अनबन 8. खीरे की प्रजाति का एक फल 11. बेवकूफ, मूर्ख 12. बादल, मेघ 13. बहुत चालाक, होशियार 14. जिसका मत दूसरे से मिलता हो, 15. दांत, दंत 18. प्राप्ति, वस्तु आदि मिलने का प्रमाण पत्र 19. दंगा-फसाद, उपद्रव विप्लव 21. बचाव, सुरक्षा।



शब्द सामर्थ्य क्रमांक163 का हल

ग	ल	त				खा	म	खाँ
णे		ल		झ	प	की		
श	र	ब	त		रं			मि
	ज	गा	ना		प	रा	का	छा
	नी	र		वि	रा	ज	मा	न
ना	च			प			य	
म	र	णा	स	न्न		पा	नी	
ची			प		पा			भो
न	ज	रा	ना		स	मा	चा	र

सू- दोकू क्र. 164

	9		1	6		2		7
3								
		6					9	
7			5		1		3	
	8			9		6		2
		4					7	
	3				2	9		6
6		7	3					4
	4			1		7	8	

नियम
1. कुल 81 वर्ग है,जिसमें 9वर्गों का एक खंड बनता है।
2. हर खाली वर्ग में 1से 9 के बीच का कोई एक अंक भर सकते है।
3. बाएं से दाएं और ऊपर से नीचे के प्रत्येक कालम,कतार और खंड में 1से9अंक में से किसी भी अंक का इस्तेमाल एक बार ही कर सकते है।

सू-दोकू क्र.163का हल

2	6	3	9	8	7	1	5	4
8	5	1	3	2	4	6	7	9
9	4	7	1	5	6	8	2	3
3	9	8	6	7	1	5	4	2
6	1	2	5	4	3	9	8	7
5	7	4	8	9	2	3	1	6
1	2	6	7	3	5	4	9	8
4	8	5	2	6	9	7	3	1
7	3	9	4	1	8	2	6	5

राशिफल

मेष — आज आपका सोचा हुआ काम पूरे होगा। परिवार के लोगों से आपको सहयोग मिलेगा। आपको माता-पिता का आशीर्वाद प्राप्त होगा। आज आप कोई नया काम शुरू करने की योजना बनायेंगे, आगे चलकर इससे आपको फायदा होगा। इस राशि के छात्रों के सफलता का स्तर अन्य लोगों की तुलना में ज्यादा रहेगा।

वृषभ — आज इनकम में बढ़ोतरी के लिये किसी की मदद मिल सकती है। आपको किस्मत का साथ मिलेगा। जीवनसाथी किसी काम के लिये आपकी तारीफ कर सकते हैं, इससे आपका मन खुश रहेगा। शाम को किसी दूर के रिश्तेदार से फ़ोन पर बात हो सकती है। काम को लेकर आपकी कई योजनाएं आज समय से पूरी हो जायेंगी।

मिथुन — आज आप अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाने में सफल होंगे। आपकी फिटनेस बनी रहेगी। आप जीवनसाथी की किसी काम में मदद करेंगे। जीवन में आगे बढ़ने के नए रास्ते अपने आप खुलते जायेंगे। कारोबारियों के लिए धन लाभ के योग बने हुए हैं। आपका कोई नया कार्य प्रारंभ करने का मन बनेगा।

कर्क — आज आपका दिन ठीक-ठाक रहेगा। आर्थिक उतार-चढ़ाव की स्थितियां देखने को मिलेगी। व्यापार की गति सामान्य बनी रहेगी। आज माता-पिता के साथ रिश्ते और बेहतर होंगे। विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा रहने वाला है। आज किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने का मन बनायेंगे।

सिंह — आज आपका दिन सामान्य रहेगा। घर में भाई-बहन की मदद से आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। करियर में आपको सफलता मिलेगी। आज आपको अपने काम को टालने से बचना चाहिए। परिवार के सुख-सौभाग्य में बढ़ोतरी होगी। जीवनसाथी के साथ ज्यादा समय बिताने की कोशिश करेंगे।

कन्या — आज आपका दिन उत्तम रहेगा। आर्थिक लाभ के अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। आपका स्वास्थ्य बेहतर रहेगा। कोई मित्र आपसे सहयोग के लिए कह सकता है। परिवार में सभी सदस्यों के साथ आपसी सामंजस्य बना रहेगा। आप जिस किसी काम को करने का प्रयास करेंगे, उस काम में आपको अच्छी कामयाबी मिलेगी।

तुला — आज आपका दिन मिला-जुला रहेगा। माता-पिता का स्वास्थ्य काफी अच्छा रहेगा। पुरानी बातों के झंझट में पड़ने से आज आपको बचना चाहिए। छोटी-छोटी बातों पर गुस्सा करने से कुछ लोग आपका विरोध कर सकते हैं। प्रभावशाली लोगों से फोन पर बात होने की संभावना है। निवेश के मामले में आपको कोई नई सलाह मिलेगी।

वृश्चिक — आज आपका दिन शानदार रहने वाला है। आज आपको मानसिक उलझनों से मुक्ति मिलेगी, जिससे काफी राहत महसूस करेंगे। परिवारजनों के साथ खुशियों के पल बितायेंगे। दाम्पत्य रिश्ते में मजबूती आयेगी। आज कोई नई बात आपको सीखने को मिलेगी। आज आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर रहेगी।

धनु — आज आपका दिन खुशी से भरा रहेगा। शैक्षणिक कार्यों में आपका मन लगेगा। इस राशि के राजनीति से जुड़े लोगों को सफलता मिलेगी। आज आप घरेलू काम को निपटाने में सफल रहेंगे। सही योजना के तहत अपने करियर में बदलाव लायेंगे। सेहत के मामले में आप खुद को फीट महसूस करेंगे।

मकर — आज आपका दिन अच्छा रहने वाला है। आपके रिश्तों में मिठास बढ़ेगी। आज आप अपना काम समय से पूरा कर लेंगे। अगर कोई नया काम शुरू करना चाहते है, तो फिलहाल कुछ दिनों के लिए रुक जाना अच्छा रहेगा। परिवार के मामले में कोई बड़ा फैसला लेने से पहले सबकी बात आपको जरूर सुननी चाहिए।

कुंभ — आज आपको कोई अच्छी खबर मिलेगी, जिससे पूरे दिन आपका मन प्रसन्न रहेगा। लंबे समय से चल रहा किसी कोर्ट-कचहरी के मामले को निपटने के लिए किसी खास दोस्त से फ़ोन पर राय लेंगे। आपके मान-सम्मान में बढ़ोतरी होगी। कारोबार में तरक्की के योग बन रहे है। सामाजिक क्षेत्र में आपकी सराहना होगी।

मीन — आज आपके व्यक्तित्व में निखार आयेगा। अध्यात्म के प्रति लगाव बढ़ेगा। आज आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। आज निनिहाल पक्ष से खुशखबरी मिलेगी। आप लोगों को अपनी बातें समझाने में सफल होंगे। आज बात करते समय अपनी भाषा पर ध्यान दें, नहीं तो किसी से कहा-सुनी हो सकती है।

लघुकथा

सास की कथा का अन्त

शादी के बाद जया जब पहली बार मायके आई ता सबने उसे घेर लिया। सभी उत्सुक थे उसके ससुराल का हाल जानने। छोटी बहन रमा ने कहा-''आओ जिज्जी। हम सब बाहर आंगन के चबुतरे पर बैठ बाते करते है। जया को अच्छा लगा। उसे यह चबुतरा सदा से बड़ा प्रिय रहा है। जब भी घर के काम से फुरसत पाती, वह यही आकर ध्यानस्थ सी बैठ जाती और अपने कॉलेज के दिनों की यादों में खो जाती। रमा ने जया को एक तरह से मीठा आदेश दिया-''जिज्जी! आप बीच में बैठों ताकि हम सब आपकी ससुराली कथा का मजा ले सकें। प्रसन्न वदना जया मुस्कराती हुई बैठी कि छोटे भैया जयवन्त दौड़ते हुए आया और जया की गोद में समा गया। जयवन्त ने ही बात शुरू की-''जिज्जी! आपके वहाँ के घर में कैरम है?'' जया ने बड़े स्नेह से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए हँस कर कहा-''वहाऊ तो कैरम नहीं है जया पर जब तुम आओगे न, तो तुम्हारे जीजाजी से कह कर मंगवा दूंगी। फिर हम कैरम खेलेंगे! वे सचमु इतने अच्छे हैं?'' फिर तो सब कोई एक बारगी जोर से हँस पड़े। जयवन्त हँसी का कारण न समझ सका। उसने कहा-''यहाँ तो बड़े भैया मेरी बात ही नहीं सुनते। कोई भी चीज मांगे न जिज्जी! तो कहते है, अभी रूक, बाद में ला देंगे। जिज्जी! जीजा जी के साथ आप यहीं आ जाओ, बड़ा अच्छा लगेगा। वे मेरी भी बात मानेंगे न जिज्जी!'' जया कुछ कहती कि रमा ने दखल दी-''तू चूप कर जयवन्त! पटर-पटर बोलते ही रहता है। अब मुझे बताओं जिज्जी! हम लोग तो यहाँ सावन में, सामने नीम पेड़ की डगाली में रस्सी बांध खूब झुला झूला करते थे। वहाँ झूले का आनन्द ले पाई कि नहीं?।'' जया ने बताया वहाँ पड़ोस में बिसेसरी दादी का बड़ा....एकदम बड़ा आंगन है। वही दादी आम के पेड़ में विशेष रूप से झूला बंधवाती है।'' रमा जिज्ञासु हुई-ये बिसेसरी दादी कौन है। उन्हे तो मैने शादी में नहीं देखा। जया बोली-'' वे मोहल्ले की एक तरह से महिलाओं की मुखिया हैं। बाजार चौक पर दादाजी की किराने की बड़ी दुकान है। अच्छा पैसा है उसके पास। तो उन्ही के बाड़े में कुछ न कुछ उत्सव होते रहती है। इन दिनों दादी गणेश जी की स्थापना को लेकर व्यस्त हैं। तुम्हारे जीजाजी बता रहे थे, गणेश पर्व में बाड़े में अच्छा-खासा आयोजन होता है। रमा! तुम मेरे साथ चलना। तुम्हारी गाने का..... मतलब 'एक शाम, रमाके गाने का नाम'- कार्यक्रम रखवा देंगे। तुम्हारी कीर्ति उधर भी फैल जाएगी।''

अब तक चुप बैठे यशवन्त ने कहा जमुहाई लेते हुए-''रमा आपके ससुराली शहर में नाम कमाएगी तब कमाएगी पर यहाँ तो आपके जाने से जिज्जी! हमारा मर्निंग वाक ही बन्द हो गया हैं। आप भी तो हम लोग सबरे पांच बजे से वो दूर रेल्वे ओव्हर ब्रिज तक घूमने जाते थे। सबेरे का समीर और आपकी हँसी-दिल्लगी, क्या मजा आता था पर अब तो सब सपना हो गया।'' जया ने यशवन्त कंधे पर रख उसे सान्त्वना दी-''सपना, यथार्थ हो सकता है यश! तुम भी मेरे साथ एक हफ्ते की छुट्टी लेकर चलो। वहाँ तुम्हे अच्छा लगेगा। बाबूजी रोज सबेरे अपनी प्रिय छड़ी लेकर नदी तक घूमने जाते हैं। तुम रहोगे तो मैं भी साथ चंलूगी और मालूम! बाबूजी औरों जैसे चिड़चिड़ नहीं, बड़े विनोदी व्यक्ति है। उनके साथ तुम्हारी खूब जमेगी। तुम्हे नयी-नयी कहानी का प्लाट भी मिलेगा।' और ....।'' तभी एकाएक, बड़े भैया.... पूरे मोहल्ले के बड़े भैया, घर-गृहस्थी के सिद्ध हस्त जानकारी बड़े भैया बिहारी बाबू आ गये। जया के पास बैठते हुए बोले- सुना कि तुम आई हो तो फिर रहा न गया, सीधे यहाँ चला आया। जया ने तुरन्त सिर पर पल्लू डालकर, उठ कर उनके चरण छूते हुए प्रणाम कर बोली-''अच्छा किया बड़े भैया जो आप आए। मुझे वहाँ जब तब आप याद आते रहते है।'' बड़े भैया ने जया को ''सदा प्रफुल्लित रहो- आशीर्वाद देते हुए कहा-''तुम्हारे पापा जी यहाँ बड़े खुश है कि तुम्हें बढ़िया ससुराल मिला है। दामाद बाबू बड़े सहृदय व्यक्ति हैं।'' फिर बिहारी बाबू ने स्वर को धीमा कर पूछा ''ये तो बताओ जया! तुम्हारी सास कैसी है?''

जया ने मुस्कराकर कहा - ''सास? सास क्यों कहते हैं बड़े भैया! अम्मा कहिए न! हाँ तो, आपको, कहिए क्या जानना है, अम्मा के बारे में?''

बड़े भैया बिहारी बाबू ने, बड़े स्नेह से जया का हाथ अपने हाथों में लेते हुए कहा-''अब क्या पूछना है जया! तुमने तो सास को 'अम्मा' कह कर सास की कथा का ही अन्त कर दिया।''

-गिरीश बख्शी

बीच गली में पानी बहना बना विवाद का कारण

राजनांदगांव (दावा)। डोंगरगांव रोड स्थित ग्राम अर्जुनी के निकटस्थ गांव केसला में गांव के बीच गली में पानी बहना विवाद का कारण बन गया जिससे ग्रामवासियों मे एक दूसरे से उलझने की स्थिति आ गई। शिकवा - शिकायत होने पर पुलिस द्वारा दखल दिया गया।

डोंगरगांव थाना प्रभारी उपेंद्र कुमार शाह ने बताया कि ग्रामवासी केशला के आवेदन पर जांच के दौरान अनावेदक आक्रोश में आ गए। इस पर पुलिस ने इंशतेहार पेश किया है और अशांति फैलाने की संभावना में अनावेदगणों को धारा-170 जा.फौ के अंतर्गत गिरफ्तार कर रिपोर्ट तैयार किया गया। बताया जाता है कि जांच के दौरान ही अनावेदकों के द्वारा पुलिस से उलझने लगे थे।

थाना प्रभारी के अनुसार थाना डोंगरगांव में शनिवार दिनांक 31 अगस्त को जिला पुलिस अधीक्षक मोहित गर्ग के निर्देश एवं अतिरिक्त पुलिस

अर्जुनी केसला में उलझे लोग

अधीक्षक राहुल देव शर्मा तथा पुलिस अनु. अधि. डोंगरगांव दिलीप सिंह सिसोदिया के मार्गदर्शन में स्वयं उनके नेतृत्व में क्षेत्र मे चोरी, लुट, अवैध शराब बिक्री व संवेदनशील मामलो के गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है।

इस दौरान शुक्रवार 30 अगस्त को ग्राम केशला ग्रामवासियों के द्वारा थाना में आकर लिखित आवेददन पेश किया गया कि ग्राम केशला के भगवंतीन बाई साहू के द्वारा अपने द्वारा उपयोग किये गये पानी को गली मे खुले तौर पर बहा देती है, जिससे उक्त बहे हुये गंदा पानी से गली मे आने-जाने वालों लोगों को परेशानियां होती है । उक्त महिला को पानी के निस्तारी के संबंध मे समझाने व मना करने पर गांव-मोहल्ले के प्रत्येक व्यक्ति से उलझकर गाली गलौच कर वाद विवाद किया जाता है। उक्त शिकायत पर जांच के दौरान प्रार्थी एवं अनावेदक को थाना डोंगगांव मे उपस्थित बुलाकर, कथन लेखबद्ध करते समय, भगवंतीन बाई के साथ आये उनके दामाद चंद्रकुमार पिता कमल सिंह उम्र-33 साल एवं उनका साथी सोनुराम डहरे पिता परदेशी डहरे, उम्र- 35 साल, दोनो निवासी पता-ग्राम भोलापुर, थाना छुरिया के द्वारा ग्रामवासी केशला के द्वारा झूठा रिपोर्ट लिखाये हो कहकर वाद विवाद करने लगा जिसे गांव वालो के द्वारा समझाने का प्रयास किया गया किन्तु नही समझने पर पुलिस स्टॉफ के द्वारा भी शांति बनाये रखने की अपील करते हुये समझाई दिया लेकिन अनावेदकगणों के द्वारा आवेश मे आकर पुलिस स्टॉफ से उलझ कर आवेदकों को मारने पीटने पर उतारू हो गया, तब संज्ञेय अपराध घटित होने की अंदेशा मे एवं मौके पर शांति बनाये रखने हेतु गिर. करने के अलावा अन्य कोई विकल्प नही होने से धारा 172 के तहत गिरफ्तार किया गया, एवं धारा- 125 ,135(2) के तहत रिपोर्ट तैयार कर अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), डोंगरगांव के कार्यालय पेश किया गया है, उक्त कार्यवाही में पुलिस स्टाफ डोंगरगांव की विशेष भूमिका रही।

अब 20 लाख रुपये तक ले सकते हैं मुद्रा लोन, उद्यमीमित्र पोर्टल पर भी कर सकेंगे आवेदन

रायपुर। छोटे व लघु उद्योगों को केंद्र सरकार द्वारा बड़ी राहत दी गई है, इसके तहत अब मुद्रा लोन की सीमा को बढ़ाकर 20 लाख रुपये कर दी गई है। अब तक मुद्रा लोन की सीमा 10 लाख थी। इसमें उन्हीं लोगों को 20 लाख का लोन मिलेगा, जिन्होंने पहले 10 लाख का लोन लेकर चुका दिया है। केंद्रीय बजट में इसका प्राविधान भी किया गया है। प्रधानमंत्री मुद्रा लोन के अंतर्गत मुद्रा लोन किसी भी बैंक, एनबीएफसी, एमएफआई आदि के नजदीकी शाखा कार्यालय से लिया जा सकता है। साथ ही उद्यमीमित्र पोर्टल पर भी आवेदन किया जा सकता है।

बैंक लोन जारी करने के लिए नई व्यवस्था भी बनाई जा रही है। वहीं अब खरीदारों को भी ट्रेडर्स प्लेटफार्म में शामिल करने की कोशिश की जा रही है। इसके तहत कारोबार की सीमा 500 करोड़ से घटाकर 250 करोड़ किया जाएगा। उरला इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष अश्विन गर्ग ने बताया कि इन योजनाओं से छोटे व लघु उद्यमियों को काफी राहत मिलेगी। साथ ही एमएसएमई की रफ्तार भी बढ़ेगी।

इन्हें मिलेगी सहायता

एमएसएमई के क्षेत्र में उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए वित्तीय सहायता भी दी जाएगी। इसके तहत 50 मल्टी प्रोडक्ट फूड इरिडिएशन यूनिट स्थापित करना होगा। उद्यमियों का कहना है कि इससे छोटे व लघु उद्योगों को काफी राहत मिलेगा।

45 दिन में करना होगा भुगतान, नहीं तो आय में जुड़ेगा

आयकर अधिनियम की धारा 43 बी(एच) के अनुसार अगर कोई बड़ी कंपनी किसी एमएसएमई को समय पर भुगतान नहीं करती है, तो लिखित समझौते के मामले में 45 दिनों के भीतर तो वह उस खर्च को अपनी कर योग्य आय से नहीं घटा सकेगा। यानि वह राशि उसके आय में जोड़ी जाएगी।

निखिल साहू ने किया तीसरी बार रक्तदान

राजनांदगांव (दावा)। जिला साहू संघ के पदाधिकारी माधव साहू के पुत्र निखिल साहू ने विद्याभूषण हॉस्पिटल डोंगरगांव में भर्ती मरीज श्रीमती शीला गैंदलाल डहरे के लिए रक्तमित्र फनेन्द्र जैन की प्रेरणा से तीसरी बार जीवन रक्षक रक्तदान कर लोगों को भी रक्तदान करने के लिए प्रेरित किया।

खैरागढ़ कालेज में रेड रिबन क्लब की उन्मुखीकरण बैठक संपन्न

खैरागढ़ (दावा)। रानी रश्मिदेवी सिंह शासकीय महाविद्यालय खैरागढ़ में 30 अगस्त शुक्रवार को रेड रिबन क्लब की वार्षिक उन्मुखीकरण बैठक प्रभारी प्राचार्य डॉ. जितेन्द्र साखरे, रेडक्रास प्रभारी जे.के. वैष्णव, रेड रिबन क्लब प्रभारी प्रो. सुरेश आडवानी की उपस्थिति में संपन्न हुआ। प्रभारी प्राचार्य डॉ. जितेन्द्र साखरे ने कहॉ कि वर्तमान समय में एच.आई.वी.एड्स जान लेवा बीमारी है। जिससे मनुष्य के शरीर की रोग-प्रतिरोधक क्षमता खत्म हो जाती है और शरीर विभिन्न तरह के रोगों का शिकार हो जाता है।

अतः जागरूकता एंव बचाव ही इसका उपाय है। रेडक्रास प्रभारी जे.के.वैष्णव ने छात्र-छात्राओं को

संबोधित करते हुए कहा कि एच.आई.वी.एड्स कैसे होता है एवं इसके सुरक्षा एवं बचाव के बारे में समस्त छात्र-छात्राओं को विस्तार पूर्वक बताया साथ ही सुरक्षा एवं बचाव ही इस एक मात्र इलाज है।

एच.आई.वी.एड्स कैसे होता है इसके संबंध में जाने एवं समाज में इसके बचाव के लिये जागरूकता फैलाऐं। साथ ही भारतीय जीवन शैली अनुसार जीवन जीने पर हम किसी भी प्रकार के बीमारी से हम ग्रसित नहीं होंगे। रेड रिबन क्लब के महत्व को बताते हुए जागरूकता संबंधी निबंध प्रतियोगिता, प्रश्नोत्तरी, रंगोली, स्लोगन, रैली आदि प्रतियोगिताओं के माध्यम से जागरूकता संबंधी जानकारी प्रदान की। रेड रिबन क्लब प्रभारी प्रो. सुरेश आडवानी ने एच.आई.वी. एवं एड्स क्या है, कैसे होता है इस संबंध में विस्तार पूर्वक छात्र-छात्राओं को बताया एवं उन्होंने कहा कि यदि समय रहते इस बीमारी का पता चल जाये तो इसका इलाज किया जाता है एवं मरीज स्वास्थ्य जीवन जी सकता है। सभी सरकारी अस्पतालों में इसका उपचार किया जाता है। इस अवसर पर विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले छात्र/छात्राओं को पुरस्कृत किया गया।

इस कार्यक्रम में महाविद्यालय के अधिकारी कर्मचारी सहित बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन एवं आभार प्रदर्शन प्रो. सुरेश आडवानी ने किया।

कल जिला स्थापना पर आकांक्षी जिला अंतर्गत संपूर्णता कार्यक्रम

मोहला (दावा)। जिला स्थापना दिवस 2 सितंबर के अवसर पर आकांक्षी जिला के अंतर्गत संपूर्णता अभियान कार्यक्रम का आयोजन स्थानीय दशहरा मैदान मोहला में प्रातः 11:00 बजे से आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि लोकसभा क्षेत्र राजनांदगांव के सांसद संतोष पाण्डेय होंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता विधायक मोहला मानपुर इंद्रशाह मंडावी करेंगे। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में विधानसभा खुज्जी के विधायक भोलाराम साहू उपस्थित रहेंगे। कार्यक्रम में जिला पंचायत के अध्यक्ष श्रीमती गीता घासी साहू, जनपद पंचायत मानपुर के अध्यक्ष दिनेश शाह मंडावी, जनपद पंचायत मोहला के अध्यक्ष लगनू राम चंद्रवशी, अध्यक्ष जनपद पंचायत अंबागढ़ चौकी, श्रीमती कुमारी बाई जुरेशिया, अध्यक्ष नगर पंचायत अंबागढ़ चौकी श्रीमती विद्या रमेश ताम्रकार, जिला पंचायत सदस्य नरसिंह भण्डारी, श्रीमती राधिका अंधारे, अरुण कुमार यादव, वीरेंद्र कुमार मसीया, राम भगवान चंद्रवंशी, सरपंच ग्राम पंचायत मोहला श्रीमती सरस्वती ठाकुर उपस्थित रहेंगे।

24वीं राज्य स्तरीय शालेय फुटबॉल प्रतियोगिता के लिए जिले से अथर्व सिंह का चयन

खैरागढ़ (दावा)। राज्य स्तरीय शालेय फुटबॉल प्रतियोगिता के लिए केसीजी जिले से अथर्व सिंह का चयन। वे 24वीं राज्य स्तरीय शालेय फुटबॉल प्रतियोगिता 1 सितम्बर से 4 सितम्बर तक अंबिकापुर (सरगुजा) में आयोजित होगी। जिसमें दुर्ग शिक्षा संभाग की टीम में जिला केसीजी के वेसलियन इंग्लिश मिडियम के कक्षा 9वीं में अध्ययनरत छात्र फुटबॉल खिलाड़ी अथर्व सिंह पिता अभिलेख सिंह का चयन जिला बालोद में आयोजित संभागीय प्रतियोगिता से राज्यस्तरीय प्रतियोगिता हेतु दुर्ग संभाग की टीम में हुआ।

राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में सम्मिलित होने हेतु टीम जनरल मैनेजर किशोर मेहरा जिला क्रीड़ा अधिकारी बालोद के नेतृत्व में 30

अगस्त को दुर्ग अंबिकापुर ट्रेन से रवाना हुए।

कोरोनाकाल में छोटे बच्चों को फुटबॉल के हुनर सिखाने वाले उभरते कोच तौकीर कुरैशी और एनडीएससी क्लब के कप्तान शिवांश बहादुर सिंह बाबा को अथर्व अपना आयडल मानते हैं। वे अपने इस उपलब्धि का श्रेय अथर्व सिंह कन्हैया पटेल, जिला क्रीड़ा अधिकारी जिला केसीजी, न्यू दन्तेश्वरी सपोर्टिंग क्लब के कोच जमीर कुरैशी को देते हैं। बता दें कि अथर्व सिंह के पिता अभिलेख सिंह वर्तमान में सहायक ग्रेड 2 के पद पर जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय जिला केसीजी में कार्यरत है, जो अपने समय के जाने-माने फुटबॉल खिलाड़ी, कप्तान और क्लब के सचिव तथा वर्तमान में सक्रिय सदस्य हैं। अथर्व की माता नीलू सिंह व्यायाम शिक्षक के पद पर स्थानीय सेजेस कन्या शाला में कार्यरत है।। केसीजी जिला पत्रकार संघ के उपाध्यक्ष व विधायक प्रतिनिधि यतेंद्रजीत सिंह 'छोटू' के भतीजे है। अथर्व के इस उपलब्धि पर न्यू दन्तेश्वरी सपोर्टिंग क्लब के सदस्यों, मित्रों एवं वेसलियन इंग्लिश मिडियम स्कूल के प्राचार्य एस मसीह तथा शिक्षकों ने बधाई दी।

पटवारी से दुर्व्यवहार कर जान से मारने की धमकी, रिपोर्ट दर्ज

डोंगरगढ़ (दावा)। ऋण पुस्तिका गुमने तथा दूसरी पुस्तिका बनाने के नाम पर एक युवक द्वारा पटवारी से दुर्व्यवहार करते हुए उसे जान से मारने की धमकी दिए जाने का मामला प्रकाश में आया है। शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अपराध दर्ज कर विवेचना में लिया है।

चिचोला पुलिस के सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार प्रार्थी नीरज हुमने उम्र 44 वर्ष निवासी सेठीनगर राजनांदगांव ने थाने में दर्ज कराई गई शिकायत में बताया कि वह पटवारी हल्का नंबर 10/3 ग्राम मड़ियान तहसील राजस्व निरीक्षक मंडल लालबहादुर नगर में पटवारी के पद पर पदस्थ है।

29 अगस्त को दोपहर लगभग 2 बजे ग्राम मड़ियान के पंचायत भवन में ग्राम की कोटवारिन पुनिया बाई व गांव के ही निवासी शंभू साहू, नोहर सिंह कंवर तथा अन्य ग्रामीणों की उपस्थिति में फसल की जानकारी गिरदावरी, आय-जाति, निवास के कार्य हेतु ग्रामीण इकट्ठा हुए थे। इसी दौरान ग्राम मड़ियान में रहने वाला नारायण कंवर वहां पहुंचा और अपनी ऋण पुस्तिका गुम हो जाने की जानकारी दी। आरोपी नारायण कंवर डुप्लीकेट ऋण पुस्तिका बनाने के लिए दबाव बनाने लगा। आरोपी नारायण कंवर ने गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी।

गोस्वामी तुलसीदास जन्मोत्सव का प्रथम दिवस सानंद संपन्न

डोंगरगांव (दावा)। दो दिवसीय जिला स्तरीय गोस्वामी तुलसीदास जन्मोत्सव का प्रथम दिवस सांकरदाहरा में सफलता के सम्पन्न हुआ। अयोजन में प्रातः श्री सत्यनारायण जी की स्थापना पं. शतानंद दुबे के मंत्रोच्चार व मानस दंपति तामेश्वर प्रसाद साहू व टेलेश्वरी साहू, कबीरमठ नादिया के माध्यम से संपन्न हुआ। ध्वजारोहण कबीर मठ नादिया आश्रम के संतों के द्वारा किया गया।

ध्वजारोहण के पश्चात् उद्घाटन समारोह में श्री तुलसी मानस प्रतिष्ठान के प्रांतीय अध्यक्ष गोपाल वर्मा ने अपने उद्बोधन में सगुण और निर्गुण के आश्रय से ईश्वर को प्राप्त करने को तुलसी का मार्ग बताया। उन्होंने कहा कि सगुण निर्गुण में कोई

भेद नहीं है। धर्माधिकारी सत्येंद्र साहेब ने तुलसी जी के जीवनी अपने विचार रखे व आचार्य मंगल साहेब ने कहा कि हमें सदैव सही मार्ग में चलने का प्रयास करना चाहिए जो त्रुटि हुई उससे सीखना चाहिए। संरक्षक कुलबीर छाबड़ा ने कहा कि हमे रामायण को हर घर में पहुंचाने का प्रयास करना है। उन्होंने कहा कि हमने मानस की प्रतियां बांटने की तैयारी कर ली है। इसके पश्चात मानस वंदना आदर्श महिला भजन मंडली द्वारा किया गया प्रथम दिवस के इस आयोजन में हरिदास मानस मंडली तुमडीबोड, श्रीराम भक्त मानस मंडली सोरीटोला, जय मां बंजारी मानस मंडली कल्लू बंजारी, संत मिलन मानस मंडली लखोली, कबीर मानस मंडली रातापायली का मानस पाठ व पं.श्री सुरेन्द्र दुबे द्वारा मानस सत्संग प्रवचन किया गया। उक्त आयोजन में श्री तुलसी मानस प्रतिष्ठान जिला राजनांदगांव, विकासखण्ड डोंगरगांव श्री राम आदर्श मानस प्रचार समिती कबीर मठ नादिया का सहयोग रहा। यह दो दिवसीय आयोजन आज 1 सितंबर तक होगा।

छत्तीसगढ़ में 6 आईएएस अफसरों के विभाग बदले, इधर 4 आईपीएस को मिली पोस्टिंग

रायपुर। राज्य शासन ने छह आईएएस अफसरों के विभागों के प्रभार में फेर बदल किया है। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी किया। जारी आदेश के अनुसार निहारिका बारिक प्रमुख सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग तथा अतिरिक्त प्रभार विकास आयुक्त, प्रमुख सचिव, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग को उनके वर्तमान प्रभारों के साथ-साथ महानिदेशक, ठाकुर प्यारेलाल राज्य पंचायत एवं ग्रामीण विकास संस्थान का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। हिमशिखर गुप्ता सचिव, खेल एवं युवा कल्याण विभाग को उनके वर्तमान प्रभारों के साथ-साथ सचिव, गृह एवं जेल विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। चंदन कुमार विशेष सचिव, वित्त विभाग तथा अतिरिक्त प्रभार विशेष सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, विशेष सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को उनके वर्तमान प्रभारों के साथ-साथ नियंत्रक खाद्य एवं औषधी प्रशासन का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। राजेन्द्र कुमार कटारा संचालक, राज्य शैक्षिक एवं अनुसंधान परिषद तथा अतिरिक्त प्रभार मिशन संचालक, राज्य साक्षरता मिशन, मिशन संचालक, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान को उनके वर्तमान प्रभारों के साथ-साथ प्रबंध संचालक, पाठ्य पुस्तक निगम का अतिरिक्त प्रभार सौपा गया है। कुलदीप शर्मा प्रबंध संचालक, पाठ्य पुस्तक निगम एवं अतिरिक्त प्रभार नियंत्रक, खाद्य एवं औषधी प्रशासन तथा रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं को रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं के पद पर पदस्थ किया गया है।

4 आईपीएस अफसरों को मिली पोस्टिंग

राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ कैडर के 4 आईपीएस अफसरों की पोस्टिंग आदेश जारी किया है। इन अधिकारियों ने अपने सेकंड राउंड की ट्रेनिंग पूरी कर ली है। अब ये नगर पुलिस अधीक्षक (सीएसपी) की जिमेदारी संभालेंगे। गृह विभाग की ओर से जारी आदेश के मुताबिक आकाश श्रीश्रीमाल को जगदलपुर, अजय कुमार को सिविल लाइन रायपुर, अक्षय प्रमोद सबद्रा को बिलासपुर और विमल कुमार पाठक को दर्री कोरबा की जिम्मेदारी दी है।

कलेक्टर एस. जयवर्धन की अध्यक्षता में छात्रावास अधीक्षक भर्ती परीक्षा हेतु दिया गया प्रशिक्षण

मोहला (दावा)। व्यापम द्वारा आयोजित होने वाली छात्रावास अधीक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी जिले में प्रारंभ हो चुकी है। जिले के सभी 19 केन्द्रों के केंद्राध्यक्षों एवं पर्यवेक्षकों को कलेक्टर एस. जयवर्धन की अध्यक्षता में 30 अगस्त को गहन प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

कलेक्टर एस. जयवर्धन द्वारा प्रशिक्षण के दौरान सभी अधिकारी कर्मचारियों को परीक्षा में बिना कोई त्रुटि एवं पूरी दक्षता से कार्य करने हेतु तथा परीक्षार्थियों को आवश्यक सुविधा उपलब्ध कराने निर्देशित किया गया।

इस परीक्षा में जिले के 19 केन्द्रों में कुल 5502 परीक्षार्थी सम्मिलित होंगे। परीक्षा में परीक्षार्थियों को बिना मूल पहचान पत्र एवं प्रवेश पत्र के परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। परीक्षा समय 12:00 बजे से 2:15 तक है। 12:15 बजे के बाद किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा कक्ष मे प्रवेश नहीं दिया जाएगा। सभी परीक्षार्थी अपने परीक्षा केन्द्रों का पूर्व से ही निरीक्षण कर लें ताकि परीक्षा के दिन कोई असुविधा न हो। साथ

मानपुर-औंधी क्षेत्र के परीक्षार्थी खड़गांव परीक्षा केन्द्र जाने के लिए परिवर्तित मार्ग का उपयोग करें

ही जिले के मानपुर-औंधी क्षेत्र के परीक्षार्थी खड़गांव परीक्षा केन्द्र जाने के लिए परिवर्तित मार्ग का उपयोग कर खड़गांव परीक्षा केन्द्र जा सकते है।

प्रशिक्षण में व्यापम के जिला नोडल अधिकारी अविनाश ठाकुर, जिला समन्वयक पुरुषोत्तम लाल साहू, मास्टर ट्रेनर सईद कुरैशी तथा भूपेंद्र मिश्रा ने केंद्राध्यक्ष, पर्यवेक्षक, वीक्षक एवं उड़नदस्ता के दायित्व को बहुत ही विस्तार से बताया। परीक्षा में विशेष निगरानी रखने के लिए उड़नदस्ता दल के प्रमुख जिले के अनुविभागीय अधिकारी राजस्व डॉ. हेमेंद्र भुआर्य एवं अमित नाथ योगी उपस्थित रहे।

नीरज विद्या मंदिर का छात्र संयोग दीक्षित राज्य खेल स्पर्धा में चयनित

डोंगरगांव (दावा)। नगर की प्रतिष्ठित शिक्षण संस्था नीरज विद्या मंदिर (सीबीएसई) मोहड़ के छात्र राज्य खेल स्पर्धा के लिए चयनित हुए है।

कक्षा-ग्यारहवीं विज्ञान में अध्ययनरत् संयोग दीक्षित पिता राजलौटन दीक्षित आगामी दिनों में जांजगीर-चांपा में आयोजित राज्य स्तरीय हैंडबॉल (अंडर - 19) में संस्था का प्रतिनिधित्व करेंगे यह स्पर्धा 1 सितम्बर से 4 सितम्बर तक आयोजित है। इसके पूर्व उक्त छात्र ने जोन लेवल में आयोजित स्पर्धा में श्रेष्ठ प्रदर्शन किया। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर श्रीमती पुष्पा बाजपेयी ने इस उपलब्धि के लिए छात्र संयोग को बधाई देते हुए अपनी हार्दिक शुभकामनाएँ दी और कहा कि आज के दौर में खेले जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है और खेल गतिविधियों में पूरी ऊर्जा के साथ भाग लेने की अपील छात्र-छात्राओं से कीं। प्राचार्या सुश्री अंजुम जहान ने इस उपलब्धि को महत्वपूर्ण बताते हुए संस्था के विद्यार्थियों से प्रेरणा हासिल करने को कहा। उन्होंने संस्था की खेल सुविधाओं को बेहतर बताते हुए विद्यार्थियों को इसका लाभ उठाने कहा। उक्त छात्र की इस शानदार उपलब्धि पर विद्यालय के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इंजी. नीरज बाजपेयी, श्रीमती सोनल बाजपेयी, समीर पोद्दार, इंजी. दिलीप तिवारी, रितेश शर्मा, नीरज कोटड़िया, सुश्री कुंतल बाजपेयी एवं प्रशासक जी. राम सिन्हा ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए अपनी-अपनी शुभकामनाएं दी। यह जानकारी एक विज्ञप्ति में खेल शिक्षक लक्ष्मण राव कदम ने दी।

पहला कॉलम...

सूर्यकुमार यादव हुए चोटिल

नई दिल्ली। भारत की टी20 टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव चोटिल हो गए हैं। उन्हें बीच मैदान पर चोट लगी जिसके चलते उन्हें बाहर जाना पड़ा। सूर्यकुमार को ये चोट बुची बाबू इंटरनेशनल टूर्नामेंट में लगी। मुंबई के लिए खेल रहे सूर्यकुमार यादव को तमिलनाडु क्रिकेट संघ इलेवन के खिलाफ खेले जा रहे मैच में चोट लगी।

सूर्यकुमार की चोट कितनी गंभीर है इस बात का पता अभी नहीं चला है और इसी के कारण इस पर अभी स्थिति साफ नहीं है कि वह पांच सितंबर से शुरू हो रही दलीप ट्रॉफी में खेले पाएंगे या नहीं।

मनु, सरबजोत, स्वप्निल नगद पुरस्कार से हुए सम्मानित

नई दिल्ली। देश में निशानेबाजी खेल की राष्ट्रीय शासी संस्था, नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एनआरएआई) ने सफल और इतिहास रचने वाले भारतीय ओलंपिक निशानेबाजी दल के सदस्यों को शुक्रवार रात को यहां एक समारोह में सम्मानित किया, जो पेरिस 2024 ओलंपिक से तीन कांस्य पदक लेकर लौटे। यह किसी भी ओलंपिक खेल में पहली बार है जब निशानेबाजों ने भारत द्वारा जीते गए कुल पदकों में से आधे पदक जीते हैं।

इस भव्य समारोह में पूरे भारतीय निशानेबाजी दल ने भाग लिया जिसमें पदक विजेता मनु भाकर, सरबजोत सिंह और स्वप्निल कुसाले शामिल थे। पदक विजेताओं को नगद पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जबकि पूरे दस्ते को भारतीय राष्ट्रीय राइफल एसोसिएशन द्वारा स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया।

इस अवसर पर एशिया ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष राजा रणधीर सिंह डॉ. नरिंदर ध्रुव बत्रा, पूर्व अध्यक्ष, भारतीय ओलंपिक संघ; 2012 ओलंपिक के रजत पदक विजेता विजय कुमार और कांस्य पदक विजेता गगन नारंग, पूर्व डबल ट्रैप विश्व चैंपियन रोंजन सोढी, अर्जुन पुरस्कार विजेता और शीतकालीन ओलंपियन शिवा केशवन सहित अन्य प्रमुख हस्तियां मौजूद थीं।

आरबीआई ने सरकारी बैंक पर ठोका जुर्माना

नई दिल्ली। रिजर्व बैंक आफ इंडिया ने नियमों के उल्लंघन के मामले में यूको बैंक पर बड़ी कार्रवाई की है। बैंकिग रेगुलेशन एक्ट 1949 और उसके निर्देशों का पालन नहीं करने पर यूको बैंक पर 2,68,30,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। इसकी जानकारी भारतीय रिजर्व बैंक ने प्रेस रिलीज जारी कर है।

आरबीआई के मुताबिक, यूको बैंक पर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के सेक्शन 26ए के प्रावधानों के उल्लंघन, एडवांस पर ब्याज दरों, बैंक के करंट अकाउंट्स में अनुशासन, डिपॉजिट पर ब्याज दरें और कमर्शियल बैंकों और चुनिंदा फाइनेंशियल इंस्टीट्युशन के फॉड क्लासिफिकेशन और उसकी रिपोर्टिंग को लेकर आरबीआई की ओर से जारी किए गए दिशानिर्देश का अनुपालन नहीं करने पर कार्रवाई की गई है। आरबीआई ने कहा कि उसने यह कार्रवाई उसे मिले अधिकारों के तहत की है। आरबीआई ने बताया कि बैंक के सुपवाइजरी जांच के बाद उसे शो कॉज नोटिस भी जारी किया गया था। बैंक को नोटिस भेजकर पूछा गया कि उसपर क्यों न ज्यादा से ज्यादा पेनल्टी लगाया जाए। नोटिस पर बैंक के जवाब के बाद आरबीआई ने पाया कि पेनल्टी लगाने की कार्रवाई होनी चाहिए, जिसके बाद बैंक पर मॉनिटरी पेनाल्टी लगाया गया।

22 लोगों को लेकर उड़ी हेलीकॉप्टर हुई लापता

मॉस्को। एमआई-8टी एक दो इंजन वाला हेलीकॉप्टर है, जिसे साल 1960 में डिजाइन किया गया था। रूस के अलावा कई अन्य देशों द्वारा भी इस हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इस हेलीकॉप्टर के दुर्घटनाग्रस्त होने का भी लंबा इतिहास है।

रूस में बड़े हादसे की खबर है। दरअसल रूस का एक हेलीकॉप्टर उड़ान के दौरान लापता हो गया है। हेलीकॉप्टर के दुर्घटनाग्रस्त होने की आशंका है। हेलीकॉप्टर जिस वक्त लापता हुआ, उस वक्त उसमें तीन क्रू के सदस्यों समेत कुल 22 लोग सवार थे।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, रूस के एमआई-8टी हेलीकॉप्टर ने शनिवार को रूस के पूर्वी इलाके में स्थित कामाचाटका पेनिसुला से उड़ान भरी थी। हेलीकॉप्टर में तीन क्रू सदस्यों समेत कुल 22 लोग सवार थे। रूस की संघीय हवाई यातायात एजेंसी ने बताया कि हेलीकॉप्टर वचकाझेट्स बेस से उड़ा था, लेकिन जब तय समय पर भी हेलीकॉप्टर अपने गंतव्य तक नहीं पहुंचा, इसके बाद खोज अभियान चलाया गया है। एमआई-8टी एक दो इंजन वाला हेलीकॉप्टर है, जिसे साल 1960 में डिजाइन किया गया था। रूस के अलावा कई अन्य देशों द्वारा भी इस हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इस हेलीकॉप्टर के दुर्घटनाग्रस्त होने का भी लंबा इतिहास है।

मंगोलिया की टीम के नाम फिर हुई शर्मनाक रिकार्ड दर्ज, 17 रनों में पूरी टीम हुई ढेर

नई दिल्ली। आईसीसी टी20 विश्व कप एशिया क्वालिफायर ए में हांगकांग और मंगोलिया के बीच मुकाबला खेला गया। इस मैच को हर कोई याद रखने वाला है। इस मैच में मंगोलिया की टीम के नाम टी20 क्रिकेट में एक बार फिर से शर्मनाक रिकॉर्ड दर्ज हो गया है। मैच के दौरान पूरी मंगोलिया की टीम महज 17 रनों पर ही ढेर हो गई। ये दूसरी बार है जब टी20 क्रिकेट में मंगोलिया की टीम कम स्कोर पर आउट हुई हो। इससे पहले 8 मई 2024 को जापान के खिलाफ मंगोलिया की टीम महज 12 रनों पर ढेर हो गई थी।

इस मैच में मंगोलिया के चार खिलाड़ी अपना खाता भी नहीं खोल पाए। इसके अलावा कोई भी बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा तक नहीं छू पाया। मंगोलिया की तरफ से मोहन विवेकानंद ने सबसे ज्यादा 5 रनों की पारी खेली। इसके अलावा तीन खिलाड़ियों ने 2-2-2 रन और तीन खिलाड़ियों ने 1-1-1 रन बनाया।

मंगोलिया ने खेले 14.2 ओवर

मंगोलिया की टीम ने इस मैच में 14.2 ओवर खेले थे। पूरी टीम को महज 17 रन बनाने के लिए 14.2 ओवर लगे। इस मैच में हांगकांग ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था, जो उनका सही फैसला साबित हुआ। हांगकांग के गेंदबाजों के सामने मंगोलिया के बल्लेबाजों को टिकना मुश्किल हो रहा था।

9 विकेट से हांगकांग ने जीता मैच

हांगकांग ने इस मैच को 9 विकेट से जीत लिया था। 18 रन के लक्ष्य को टीम ने 1.4 ओवर में एक विकेट खोकर हासिल कर लिया था। इसके अलावा हांगकांग की तरफ से आयुष शुक्ला ने कमाल की गेंदबाजी की।

आयुष ने इस मैच में चार ओवर डाले और उनके चारों ही ओवर मेडन थे। इन चार ओवरों में आयुष ने एक विकेट हासिल किया था।

पाकिस्तानी खिलाड़ी ने लगाया पीसीबी पर बड़ा आरोप

नई दिल्ली। टी20 वर्ल्ड कप 2024 में शर्मनाक प्रदर्शन के बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम के प्रदर्शन में किसी भी तरह का सुधार अब तक देखने को नहीं मिला है, जिसमें बांग्लादेश के खिलाफ 2 मैचों की टेस्ट सीरीज के पहले मुकाबले में उन्हें 10 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। पाकिस्तानी टीम के इस प्रदर्शन को लेकर सलामी बल्लेबाज और लंबे समय से टीम से बाहर चल रहे अहमद शहजाद ने जहां कड़ी आलोचना की थी तो वहीं उन्होंने पीसीबी को भी जमकर सुनाया था।

अब शहजाद ने 12 सितंबर से पाकिस्तान में शुरू होने वाले चैंपियंस कप में खेलने से इनकार कर दिया है, जिसमें भी उन्होंने पीसीबी को आड़े हाथों लेते हुए इस टूर्नामेंट के लिए घोषित किए गए 5 मेंटोर को लेकर बड़ी बात कही है। अहमद शहजाद ने चैंपियंस कप में नहीं खेलने के अपने फैसले के बारे में जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दी जिसमें उन्होंने लिखा कि मैंने 12 सितंबर से शुरू होने वाले चैंपियंस कप में नहीं खेलने का फैसला लिया है। पीसीबी की तरफ से घरेलू स्तर पर खेलने वाले खिलाड़ियों के साथ किए जा रहे पक्षपात और अन्याय को मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता।

एक तरफ जहां पाकिस्तान में महंगाई आसमान छू रही है और देश में लगातार गरीबी बढ़ रही है तो वहीं दूसरी तरफ पीसीबी ऐसे 5 मेंटर पर कई लाख रुपए बर्बाद कर रहा है जो इस खेल के लिए कुछ भी नहीं करते और ऐसे खिलाड़ियों को आगे बढ़ाते हैं जिन्होंने बिल्कुल भी अच्छा प्रदर्शन नहीं किया होता। अपने इस ट्वीट में अहमद शहजाद ने आगे लिखा कि पीसीबी ने पहले जहां मेजर सर्जरी की बात कही थी तो वहीं अब उन्होंने कहा है कि उनके पास सर्जरी के लिए कोई उपकरण मौजूद नहीं है, जिससे घरेलू क्रिकेट खेलने वाले खिलाड़ियों का अपमान होता है। इस तरह के बयानों का मैं बिल्कुल भी समर्थन नहीं करता।

युवा बल्लेबाज प्रियांश आर्य 1 ओवर में जमाये 6 छक्के

नई दिल्ली। युवा बल्लेबाज प्रियांश आर्य ने दिल्ली प्रीमियर लीग (डीपीएल) में साउथ दिल्ली से खेलते हुए इतिहास रच दिया है। उन्होंने नॉर्थ दिल्ली के खिलाफ खेले जा रहे मैच में एक ओवर में लगातार छह छक्के मारे हैं। ये पहला मौका है जब किसी बल्लेबाज ने इस लीग में ये कारनामा किया है। इस बल्लेबाज का नाम है प्रियांश आर्य। प्रियांश ने 12वां ओवर फेंकने आए मनन भारद्वाज पर लगातार छह छक्के मारे। मनन बाएं हाथ के स्पिनर हैं लेकिन बीच में उन्होंने प्रियांश के लिए राइट हैंड से भी गेंदबाजी की, फिर वह इस बल्लेबाज को रोक नहीं पाए।

इस मैच में प्रियांश यहीं नहीं रुके। उन्होंने तूफानी पारी खेलते हुए शानदार शतक जमाया। प्रियांश का ये इस लीग में दूसरा शतक है। वह इस लीग में शतक जमाने वाले पहले खिलाड़ी थे। अब उन्होंने दूसरा शतक जमाया है। उन्होंने 50 गेंदों पर 10 चौके और 10 छक्कों की मदद से 120 रनों की पारी खेली। वहीं आयुश बडोनी ने भी इस मैच में तूफानी बल्लेबाजी की। बडोनी ने 55 गेंदों पर आठ चौके और 19 छक्कों की मदद से 165 रन बनाए। इन दोनों की पारियों के दम पर साउथ दिल्ली ने विशाल स्कोर करते हुए एक और रिकॉर्ड बना दिया है। इस टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवरों में चार विकेट खोकर 308 रनों का स्कोर खड़ा किया। ये इस लीग में अभी तक का सबसे बड़ा स्कोर है।

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ घरेलू सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान, द्रविड़ के बेटे को मिला मौका

नई दिल्ली। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सीरीज का सभी क्रिकेट फैंस के बेसब्री से इंतजार है। इसी बीच बीसीसीआई ने एक बड़ा ऐलान करते हुए भारत के अंडर 19 टीम का ऐलान कर दिया है। जो ऑस्ट्रेलिया की अंडर 19 टीम के खिलाफ घरेलू सरजमीं पर वनडे और चार दिवसीय मैच खेलेगी। इस सीरीज के लिए ऐलान की गई टीम भारत के पूर्व हेड कोच राहुल द्रविड़ के बेटे समित द्रविड़ को भी मौका मिला है। हाल ही में भारत के मेंस सीनियर टीम ने राहुल द्रविड़ के अंडर टी20 वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम किया था।

बीसीसीआई ने इसके अलावा शेड्यूल का भी ऐलान किया है। भारत दौरे पर आ रही अंडर 19 ऑस्ट्रेलियाई टीम सबसे पहले भारत के लिए तीन मैचों की वनडे सीरीज खेलेगी। इस सीरीज की शुरुआत 21 सितंबर से होगी। वहीं चार दिवसीय टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला 03 अक्टूबर से खेला जाएगा। जहां दो चार दिवसीय टेस्ट मैच खेले जाएंगे। वनडे सीरीज और टेस्ट सीरीज के लिए 15-15 खिलाड़ियों के स्क्वाड का ऐलान किया गया है। वनडे सीरीज के लिए मोहम्मद अमान और चार दिवसीय टेस्ट के लिए सोहम पटवर्धन को कप्तान बनाया गया है। ऐसे में आइए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे और चार दिवसीय मैच के लिए ऐलान की गई भारतीय अंडर 19 टीम के स्क्वाड पर एक नजर डालें।

वनडे और चार दिवसीय सीरीज के लिए भारतीय अंडर 19 टीम का स्क्वाड

वनडे सीरीज के लिए टीमः रुद्र पटेल (उपकप्तान), साहिल पारख, कार्तिकेय केपी, मोहम्मद अमान (कप्तान), किरण चोरमले, अभिज्ञान कुंडू (विकेटकीपर), हरवंश सिंह पंगालिया (विकेटकीपर), समित द्रविड़, युधाजीत गुहा, समर्थ एन, निखिल कुमार, चेतन शर्मा, हार्दिक राज, रोहित राजावत, मोहम्मद एनान

चार दिवसीय सीरीज के लिए टीमः वैभव सूर्यवंशी, नित्या पंड्या, विहान मल्होत्रा ??(उपकप्तान), सोहम पटवर्धन (कप्तान), कार्तिकेय केपी, समित द्रविड़, अभिज्ञान कुंडू (विकेटकीपर), हरवंश सिंह पंगलिया (विकेटकीपर), चेतन शर्मा, समर्थ एन, आदित्य रावत, निखिल कुमार, अनमोलजीत सिंह, आदित्य सिंह, मोहम्मद एनान वनडे और चार दिवसीय सीरीज का शेड्यूल

पहला वनडे - 21 सितंबर 2024
दूसरा वनडे - 23 सितंबर 2024
तीसरा वनडे - 26 सितंबर 2024
पहला चार दिवसीय मैच - 03 अक्टूबर 2024
दूसरा चार दिवसीय मैच - 07 अक्टूबर 2024।

अमेरिकी बलों ने इस्लामिक स्टेट के आतंकियों पर किया बड़ा हमला, 15 की मौत सहित 7 सैनिक घायल

बगदादः अमेरिकी बलों ने इराक के पश्चिमी क्षेत्र में बड़ा हमला किया है। इस हमले में 15 लोगों की मौत हुई है। जबकि 7 अमेरिकी सैनिक भी घायल हो गए हैं। यह हमला इराक और अमेरिकी बलों द्वारा इस्लामिक स्टेट समूह के संदिग्ध आतंकवादियों को निशाना बनाकर किए गया था। अमेरिकी सेना ने शनिवार को यह जानकारी दी। अमेरिका सेना ने च्द एसोसिएटेड प्रेसज् (एपी) को बताया कि इस हमले में सात अमेरिकी सैनिक भी घायल हुए हैं।

बता दें कि इराक और सीरिया में आतंकवादियों को उनके स्वघोषित खिलाफत से बेदखल करने के बाद अमेरिकी सेना की इस्लामिक स्टेट समूह से लड़ाई वर्षों से जारी है। बहरहाल, हमले में शुक्रवार को हताहत हुए लोगों की संख्या अन्य हमलों की तुलना में अधिक है। अमेरिकी सेना के च्सेंट्रल कमांडज् ने कहा कि आतंकवादी च्चकई हथियारों, ग्रेनेड और विस्फोटक आत्मघाती बेल्टज्ज् से लैस थे। इराकी बलों ने कहा कि यह हमला देश के अनबर रेगिस्तान में किया गया।

सेंट्रल कमांड ने कहा, च्इस अभियान का लक्ष्य पूरे क्षेत्र और उसके परे भी इराकी नागरिकों, अमेरिकी नागरिकों, सहयोगियों और साझेदारों के खिलाफ हमलों की साजिश रचने और उन्हें अंजाम देने की आईएसआईएस (इस्लामिक स्टेट) के शीर्ष आतंकवादियों की क्षमता को बाधित करना या कमजोर करना था। इराकी सेना ने एक बयान में कहा, हवाई हमलों में आतंकवादियों के ठिकानों को निशाना बनाया गया।

ब्राजील ने एलन मस्क को दिया झटका, 'एक्स' पर लगाया बैन

नई दिल्ली। सोशल मीडिया कंपनी एक्स (पहले ट्विटर) ने ब्राजील में कानूनी अधिकारी की नियुक्ति के लिए मना करने कर दिया, जिसके बाद वहां के सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एलेक्जेंडर डि मोरियस ने पूरे देश में एक्स को बैन करने का आदेश जारी किया है. जिस्टिस ने बुधवार (30 अगस्त 2024) को एलन मस्क की इस कंपनी को 24 घंटे के भीतर कानूनी अधिकारी नियुक्त करने की डेडलाइन दी थी. इससे पहले एक्स ने अपने पुराने कानूनी अधिकारी को जेल में डालने की धमकियां मिलने का दावा करते हुए 17 अगस्त को अपना ऑफिस बंद कर दिया था.

समाचार एजेंसी सिन्हुआ के मुताबिक, एक्स कंपनी कई महीनों तक कोर्ट के आदेशों को न मानने के कारण जस्टिस डि मोरियस के विवादों में फंसी थी. यह विवाद उन अधिकारियों को हटाने के लिए था, जो देश में तख्तापलट की खबरें और लोकतंत्र को कमजोर करने वाले कंटेंट को बढ़ावा दे रहे थे. ब्राजील के सुप्रीम फेडरल कोर्ट (एसटीएफ) ने शुक्रवार (31 अगस्त 2024) को एक्स को बात न मानने के लिए 18 मिलियन रियाल (लगभग 3.2 मिलियन डॉलर) का जुर्माना भी लगाया.

जज ने फेडरल कोर्ट के फैसले को सही ठहराते हुए कहा कि कंपनी कोर्ट के आदेशों को बार-बार, जानबूझकर अनदेखा करती रही, साथ ही लगाए गए जुर्माने को चुकाने के लिए भी राजी नहीं थी. एक्स पर 2024 के नगर निगम चुनावों में ब्राजील के कानूनी प्रणाली को दरकिनार करने और सोशल मीडिया पर एक कानून विहीन क्षेत्र बनाने का आरोप लगा था।

इंग्लैंड के 16 साल के क्रिकेट फरहान अहमद 5 विकेट लेकर बनाया रिकॉर्ड

नई दिल्ली। इंग्लैंड क्रिकेट में एक नया सितारा उभर रहा है. 16 साल के फरहान अहमद ने काउंटी चैंपियनशिप में अपनी ऐतिहासिक गेंदबाजी से सबका ध्यान अपनी ओर खींचा है. फरहान ने सरे के खिलाफ नॉटिंघमशायर की ओर से खेलते हुए अपनी फिरकी से इतिहास रच दिया है. उन्होंने सरे के खिलाफ पांच विकेट लिए. इस प्रदर्शन के साथ फरहान पांच विकेट लेने वाले सबसे युवा गेंदबाज बन गए हैं.

इंग्लैंड के लेग स्पिनर रेहान अहमद के छोटे भाई फरहान अहमद ने 16 साल और 189 दिन की उम्र में यह उपलब्धि हासिल की. इससे पहले यह रिकॉर्ड डर्बीशायर के हमीदुल्लाह कादरी के नाम था, जिन्होंने 2017 में 16 साल और 203 दिन की उम्र में पांच विकेट लिए थे. फरहान का प्रदर्शन इसलिए भी खास है क्योंकि उन्होंने रोरी बर्न्स, बेन फोक्स और विल जैक्स जैसे टेस्ट क्रिकेटरों को आउट किया है.फरहान अहमद ने 50.4 ओवर में 7-140 के आंकड़े के साथ अपनी विकेट लेने की क्षमता और बेहतरीन नियंत्रण का प्रदर्शन किया. उन्होंने सिर्फ 2.76 की इकॉनमी रेट से गेंदबाजी की, जो उनकी उम्र और अनुभव को देखते हुए बेहद प्रभावशाली है.

प्रथम पेज का शेष

आंध्रप्रदेश में बारिश का कहर..

गुजरात के तट से दूर गया चक्रवात असना- गुजरात पर मंडराता चक्रवात असना का खतरा टल गया है। चक्रवात पिछले 6 घंटों के दौरान 15 किमी प्रति घंट की गति से पश्चिम की ओर बढ़ गया है। अगले 24 घंटे के दौरान इसके पश्चिम और उत्तर पश्चिम की तरफ से बढ़ने की संभवना है। फिलहाल यह गुजरात के नलिया से 460 किमी पश्चिम, पाकिस्तान के कराची से 310 किमी पश्चिम-दक्षिण पश्चिम इलाके में स्थित है। 1 सितंबर की सुबह तक इसकी तीव्रता बरकरार रहेगी। इसके बाद, अगले 24 घंटों में इसके पश्चिम-दक्षिण-पश्चिम की ओर बढ़ने और धीरे-धीरे कमजोर होकर एक दबाव में तब्दील होने की संभावना है।

राजस्थान के कई क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश- राजस्थान के चुरू, गंगानगर, बाड़मेर, जयपुर, धौलपुर, दौसा, झालवाड़ और करौली जिलों में लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है। दौसा जिले के रहुवास में सबसे अधिक 101 मिमी बारिश दर्ज की गई है। जयपुर स्थित मौसम विज्ञान केंद्र ने बताया कि राज्य में अगले हफ्ते फिर मानसून के मजबूत होने की संभावना है।

इसके प्रभाव से कई जिलों में गरज के साथ भारी बारिश हो सकती है और तेज हवाएं चल सकती हैं। त्रिपुरा के बाढ़ पीड़ितों के लिए मदद- त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक शाहा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य के बाढ़ पीड़ितों के लिए आर्थिक मदद की घोषणा की है। मृतकों के परिजनों के लिए दो-दो लाख रुपये और प्रत्येक घायल को 50,000 रुपये की मदद की घोषणा की गई है। 19-24 अगस्त के दौरान भारी बारिश और बाढ़ के चलते 32 लोगों की मौत हो गई थी और दो लोग घायल हुए हैं और व्यक्ति लापता है। वायनाड में भूस्खलन के केंद्र में फिर गिरा मलबा- केरल के वायनाड जिले में 30 जुलाई को हुए भूस्खलन का केंद्र रहे पंचिरीमट्टम के ठीक ऊपर शनिवार को भी पहाड़ से भारी मलबा गिरा। पिछले भूस्खलन में 200 से अधिक लोगों की जान चली गई और 78 लोग अभी भी लापता हैं। जिला प्रशासन ने कहा कि राहत और बचाव कार्य में लगे लोगों को उसने बहुत ही सावधानी के साथ काम करने को लेकर आगाह किया है।

पीएम मोदी ने 3 नई वंदे भारत ट्रेनों को...

0 दक्षिणी राज्यों का तेजी से विकास बहुत जरूरी- पीएम मोदी- पीएम ने कहा, विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दक्षिणी राज्यों का तेजी से विकास बहुत जरूरी है। दक्षिण भारत में अपार प्रतिभा, अपार संसाधन और अवसर मौजूद हैं।

इसलिए तमिलनाडु और कर्नाटक समेत पूरे दक्षिण का विकास हमारी सरकार की प्राथमिकता है।

100 दिन के भीतर 3 करोड़ घरों को...

उच्च गुणवत्ता के 100 से अधिक किस्मों के बीज जारी किए। दो लाख करोड़ रुपये के पीएम पैकेज की घोषणा की। इसका सीधा फायदा चार करोड़ से ज्यादा युवाओं को मिलेगा। तीन दिन के अंदर की ग्रामीण पृष्ठभूमि की 11 लाख नई लखपति दीदी बनी हैं।

पीएम बोले- महिला सुरक्षा के लिए....

हमारे क्रिमिनल लॉ शासक और गुलाम वाली कोलोनियल सोच से आजाद हुए हैं. लेकिन आज महिलाओं के खिलाफ अत्याचार, बच्चों की सुरक्षा, समाज की गंभीर चिंता है. देश में महिलाओं की सुरक्षा के लिए कई कठोर कानून बने हैं, लेकिन हमें इसे और सक्रिय करने की जरूरत है. महिला अत्याचार से जुड़े मामलों में जितनी तेजी से फैसले आएंगे, आधी आबादी को सुरक्षा का उतना ही बड़ा भरोसा मिलेगा.

भारत में फास्टैग सिस्टम होगा खत्म! ...

और हरियाणा में पानीपत-हिसार राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच-709) शामिल हैं। अधिकारी सभी चुनौतियों और आंकड़ों का विश्लेषण करेंगे और इसे संबंधित मंत्रालय को भेजेंगे। शीर्ष अधिकारी से हरी झंडी मिलने के बाद, नया टोल संग्रह प्रणाली चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। जो भारत के प्रमुख शहरों को जोड़ने वाले शीर्ष राजमार्गों को कवर करेगा।

डिप्टी सीएम साव को नहीं मिला ...

सड़कों के प्रबंधन और निर्माण की जानकारी देना था मुख्य उद्देश्य यात्रा का मुख्य उद्देश्य छत्तीसगढ़ में चल रही सड़कों के निर्माण और उन्नयन परियोजनाओं की गुणवत्ता में सुधार हो सके।

दौरे का मुख्य लक्ष्य छत्तीसगढ़ के अधिकारियों को अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार सड़कों के प्रबंधन और निर्माण की जानकारी देना था। फिलहाल डिप्टी सीएम अरुण साव छत्तीसगढ़ लौट आए हैं। जहां वे बिलासपुर में आयोजित दीक्षांत समारोह शामिल होने पहुंचे राज्यपाल और मुख्यमंत्री की हेलीपैड पर अगुवानी करते नजर आए।

अमेरिका के इन जिलों का करना था दौरा - अमेरिका के इस प्रशिक्षण दौरे में डिप्टी सीएम अरुण साव, सचिव और उनकी टीम मैरीलैंड, न्यूयॉर्क, कैलिफोर्निया, वर्जीनिया और कोलंबिया जिले के विभिन्न परियोजना स्थलों का दौरा करके वहां उन्नत स?क के निर्माण की तकनीकों और प्रबंधन प्रक्रियाओं का अध्ययन करती। लेकिन वीजा नहीं मिलने के कारण पूरा मामला खत्म हो गया।

काश मैं वंदे भारत से यूक्रेन जा पाता

यह युद्ध प्रभावित यूक्रेन में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा थी। व?ल्ड लीडर्स फोरम में पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए जयशंकर ने हंसते हुए कहा,काश, मैं वंदे भारत के साथ ऐसा कर पाता।

गूगल पे ने पेश किए नए फीचर , पेमेंट के लिए मिले कई नए ऑप्शन, बहुत कुछ है खास



नई दिल्ली। गूगल पे यूजर्स के लिए खुशखबरी है। ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2024 के दौरान, कंपनी ने अपने यूपीआई ऐप के लिए कई नए फीचर्स की घोषणा की है। इन नए फीचर्स में यूपीआई सर्कल, प्रीपेड यूटिलिटी पेमेंट्स और रुपे कार्ड्स से टैप ऐंड पे शामिल हैं। कंपनी ने बताया कि ये फीचर्स इस साल के अंत तक यूजर्स के लिए उपलब्ध होंगे। आइए इन नए फीचर्स को विस्तार से जानते हैं।

यूपीआई सर्किल

यूपीआई सर्किल, एनपीसीआई द्वारा पेश किया गया एक नया फीचर है, जो उन यूजर्स के लिए डिज़ाइन किया गया है जिनके पास बैंक अकाउंट नहीं है। इसके लिए यूजर्स को एक प्राथमिक यूपीआई अकाउंट होल्डर की जरूरत पड़ेगी, जो हर लेन-देन को मंजूरी देगा। यह फीचर खासतौर पर बुजुर्गों के लिए उपयोगी होगा जिनके पास बैंक अकाउंट या गूगल पे लिंक्ड अकाउंट नहीं है। प्राइमरी यूजर को पार्शियल डेलिगेशन प्रिविलेज मिलेगा, जबकि फुल डेलिगेशन में यूजर 15 हजार रुपये तक की मासिक सीमा निर्धारित कर सकते हैं।

यूपीआई वाउचर या ईरुपी

एक डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर फीचर है, जो 2021 में लॉन्च हुआ था। अब गूगल पे यूजर्स भी इसका लाभ उठा सकेंगे। इसके जरिए, यूजर बिना बैंक अकाउंट के भी अपने लिंक्ड मोबाइल नंबर से एक प्रीपेड वाउचर जेनरेट कर सकेंगे। गूगल ने इस फीचर के लिए डिपार्टमेंट ऑफ फाइनैंशियल सर्विस के साथ साझेदारी की है।

इस नए फीचर की मदद से गूगल पे यूजर्स ऐप के अंदर ही क्यूआर कोड स्कैन करके बिल भुगतान कर सकेंगे। बिलर को कस्टमाइज्ड क्यूआर कोड जेनरेट करना होगा। इसके अलावा, यूजर्स को प्रीपेड यूटिलिटी बिल्स की जानकारी और भुगतान का ऑप्शन भी मिलेगा। यह फीचर NPCI Bharat Billpay के साथ साझेदारी में पेश किया जाएगा और पेटीएम में ऑफर किए जाने वाले फीचर की तरह होगा।

गूगल पे का टैप ऐंड पे विद रूपे कार्ड फीचर इस साल के अंत में उपलब्ध होगा। इसमें, यूजर अपने रूपे कार्ड को ऐप में ऐड करके एनएफसी के जरिए कार्ड मशीन पर टैप और पे कर सकेंगे। इसके साथ कार्ड के विवरण भी सेव नहीं होंगे। यूपीआई लाइट फीचर में, ऑटोपे का एक विकल्प होगा, जो सेट अमाउंट से बैलेंस कम होने पर वॉलेट को ऑटोमैटिकली टॉप-अप कर देगा।

मचानपार में डायरिया का प्रकोप

भाजपा नेता गांधी ने डायरिया पीड़ितों का जाना हाल, मेडिकल टीम को दिए निर्देश

डोंगरगांव (दावा)। जिला पंचायत के पूर्व अध्यक्ष दिनेश गाँधी ने ब्लाक के अधीन आने वाले ग्राम मचानपार पहुंच कर डायरिया पीड़ित मरीज से मुलाकात किया। उन्होंने मेडिकल सुविधाओं का जायजा लेते हुए स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को बेहतर मेडिकल सुविधा प्रदान करने के निर्देश दिया।

मचानपर मे डायरिया के प्रकोप की जानकारी मिलने पर जायजा लेने पहुँचे श्री गाँधी को ग्रामीणों ने बताया कि ग्राम मे अब तक डायरिया से 120 लोगो के पीड़ित होने की पुष्टि हो चुकी है। गंभीर रूप से पीड़ित 16 मरीजों को राजनांदगांव जिला अस्पताल रेफर किया गया था जिसमे से 3 मरीज पूरी तरफ से स्वस्थ होकर घर वापस आ चुके है। बाकी मरीजों को घर में रखकर ही इलाज की सुविधा दी रहा रही है।

स्वास्थ्य विभाग द्वारा गांव में ही ग्राम पंचायत मचानपार में मेडिकल कैंप लगाकर ग्राम के मरीजों का टेस्ट तथा इलाज करके उन्हे आवश्यक दवाई व स्वास्थ्य सुविधा दी जा रही है।तथा मेडिकल टीम उनके स्वास्थ्य पर लगातार नजर बनाए हुवे है। श्री गांधी ने ग्रामीण जनों से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना मेडिकल टीम को ग्रामीण जनों के इलाज के बेहतर सुविधा के लिए आवश्यक निर्देश दिए। ग्रामीणजनों के मांग पर श्री गांधी ने ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी से बात कर पंचायत में ही 2 बेड की व्यवस्था करने के निर्देश दिए।

श्री गांधी ने ग्रामीण जनों को बताया की गंदे पानी का सेवन न करे और पानी को उबालकर पिए जिससे डायरिया फैलने को रोका जा सके। उन्होंने सभी के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। दिए। निरक्षण के दौरान जनपद सदस्य जागेश्वर राजू यादव, सरपंच चिंताराम साहू, डोमेश पटेल, पुनाराम साहू, गोपाल पटेल, उमेदी राम तथा अन्य ग्रामीणजन व स्वास्थ्य विभाग की मेडिकल टीम उपस्थित रहे।

निगम के आधा दर्जन कर्मचारी हुए सेवानिवृत्त, दी गई भावपूर्वक बिदाई

राजनांदगांव (दावा)। नगर निगम के विभिन्न विभागों में कार्यरत 6 कर्मचारी आज शासन नियमों के अधीन सेवानिवृत्त हुये। सेवानिवृत्त कर्मचारियों को निगम सभागृह में आयुक्त अभिषेक गुप्ता की अध्यक्षता में आयोजित बिदाई समारोह में नेता प्रतिपक्ष किशुन यदु, वरिष्ठ पार्षद शिव वर्मा, उपायुक्त मोबिन अली, कार्यपालन अभियंता यू.के.रामटेके सहित उनके परिजनों की उपस्थिति में भावपूर्वक बिदाई दी गयी।

कार्यक्रम में आयुक्त सहित उपस्थितजनो ने जल प्रदाय विभाग में वाल्वमेन के पद पर कार्यरत खुमान सिंह साहू, ठा.प्यारेलाल स्कूल में भृत्य के पद पर कार्यरत श्रीमती सुधा ठाकुर, स्वास्थ्य विभाग में भृत्य के पद पर कार्यरत खेमूलाल यादव, लोककर्म विभाग में मजदूर के पद पर कार्यरत बोधनलाल व श्रीमती रामकली साहू तथा सफाई कामगार सुश्री तुलसा बाई सेवानिवृत्त कर्मचारियों को माला पहनाकर, शाल, श्रीफल से सम्मानित किया गया तथा अवकाश नगदीकरण का चेक दिया गया। बिदाई समारोह में आयुक्त श्री गुप्ता ने कहा कि निगम परिवार के हमारे 6 कर्मचारी अपने जीवन का आधे से अधिक समय व्यतीत कर सेवानिवृत्त हो रहे है, अपने जीवन का लंबा समय देकर निगम के जल, सफाई, लोककर्म एवं स्कूल जैसे महत्वपूर्ण विभागों में कर्मठतापूर्वक दायित्वों का निर्वाहन करने पर मैं इनका आभार व्यक्त करता हूँ। इनके व्यवहार एवं काम से सभी कर्मचारियों को सीख लेकर काम करना है। उन्होंने कहा कि अब ये अपने पारिवारिक दायित्वों का निर्वहन करेंगे, जो भी समस्या होगी उसके समाधान के लिये निगम परिवार सदैव आपके साथ रहेगा, मैं इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। नेता प्रतिपक्ष श्री यदु ने कहा कि आज निगम के 6 कर्मचारी अपने दायित्वों का कुशलता से निर्वाहन कर सेवानिवृत्त हो रहे है, अब ये अपना शेष जीवन पारिवारिक दायित्वों का निर्वाहन करने में लगायेंगे। मै इन सभी के लिये भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि ये अपने परिवार के साथ अच्छा समय व्यतीत करे। वरिष्ठ पार्षद श्री वर्मा ने कहा कि अपने जीवन का लंबा सफर तय कर आज सेवानिवृत्त हो रहे है, आज से ये अपने पारिवारिक जीवन को आगे बढ़ाये तथा यहा से जो भी राशि मिलेगी उसका सदुपयोग ये परिवार के लिये करेंगे।

कार्यपालन अभियंता श्री रामटेके ने सभी कर्मचारियों को शुभकामनाए देते हुये कहा कि अपने सेवाकाल में इन्होंने अच्छा कार्य किये, अस्थाई रूप से कम वेतन में नौकरी की शुरुवात कर इन्होंने नियमित होकर आज दिनांक तक कुशलता से कार्य कर शासन के सेवानिवृत्त नियम के तहत आज शासकीय दायित्वों से मुक्त हो रहे है। बिदाई समारोह का आभार प्रदर्शन राजस्व अधिकारी अशोक देवांगन ने तथा संचालन प्र.कार्यालय अधीक्षक नारायण यादव ने किया।

कमला कॉलेज में स्वामी विवेकानंद वेदांत साहित्य प्रदर्शनी का प्रभावी आयोजन

राजनांदगांव(दावा)। शासकीय कमला देवी राठी महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय राजनांदगांव में संस्था प्राचार्य डॉ. आलोक मिश्रा के प्रमुख संरक्षण में श्रीरामकृष्ण मठ पुणे एवं श्रीरामकृष्ण विवेकानंद सेवा समिति राजनांदगांव के संयुक्त तत्वावधान में श्रीरामकृष्ण-स्वामी विवेकानंद वेदांत साहित्य की एक दिवसीय प्रदर्शनी सह-बिक्री का सफल प्रभावी आयोजन किया गया।

अखिल विश्व की अद्वितीय भारतीय सनातन संस्कृति के परम उत्कर्ष भारतीय वेदांत के महान उन्नायक एवं राष्ट्रीय युवा आदर्श स्वामी विवेकानंद की योग, ध्यान, एकाग्रता, व्यक्तित्व विकास, गीता, रामायण, उपनिषद एवं वैदिक साहित्य से संबंधित उत्कृष्ट पुस्तकें सदा-सर्वदा से युवा, किशोर, बालपीढ़ी के लिए आदर्श व्यक्तित्व विकास एवं संस्कार शिक्षा की मूल आधार रही हैं। महाविद्यालय के आयोजन प्रभारी प्राध्यापक डॉ. कृष्ण कुमार द्विवेदी ने विशेष रूप से बताया कि श्रीरामकृष्ण मठ पुणे द्वारा स्वामी विवेकानंद वेदांत साहित्य के व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए तैयार किए गए आकर्षक वाहन, श्रेष्ठ सहज सुलभ व्यवस्था तथा अति विनम्र मिशन प्रशिक्षित, समर्पित कार्यकर्ता विवेक निवल की प्रशंसा करते हुए बताया कि समग्र प्रदर्शनी महाविद्यालयीन विद्यार्थियों के साथ-साथ प्राध्यापकों एवं शिक्षाकर्मियों के लिए अत्यधिक उपयोगी तथा व्यक्तित्व में सतत परिष्कार और रचनात्मक समृद्धि के लिए स्वामी जी के विचार-संदेश एवं एक-एक पुस्तक अतिशय लाभकारी है। आगे डॉ. द्विवेदी ने विशेष रूप से बताया कि स्वामी विवेकानंद वेदांत साहित्य प्रदर्शनी का महाविद्यालय की सैकड़ों छात्राओं ने संस्था प्राचार्य डॉ. मिश्रा, वरिष्ठ प्राध्यापक डॉ. ओमप्रकाश गुप्ता, एनसीसी/एनएसएस प्रभारी श्रीमती रामकुमारी ध्रुवा, श्रीमती तारा ठाकुर एवं अन्य प्राध्यापकों के संरक्षण, सानिध्य एवं मार्गदर्शन में प्रत्यक्ष लाभ उठाया तथा यथायोग्य मनवांछित पुस्तकें क्रय भी की। उल्लेखनीय रूप से वेदांत साहित्य प्रदर्शनी के कार्यकारी स्वयंसेवक विवेक नवले द्वारा इस अवसर पर विवेकानंद साहित्य की प्रतियाँ और महाविद्यालय में स्थायी प्रदर्शन के लिए स्वामी जी के भव्य चित्र को प्राचार्य डॉ. मिश्रा को भेंट प्रदान किया गया।

सफल आयोजन के लिए प्रभारी प्राध्यापक डॉ. द्विवेदी ने आयोजक संस्थाओं के प्रति आभार प्रदर्शन किया। चलित प्रदर्शनी वाहन पर स्थापित स्वामी जी के भव्य चित्र पर उपस्थित सभी छात्राओं एवं प्राध्यापकों द्वारा श्रद्धांजलि अर्पित कर जय जय स्वामी विवेकानंद के नारे भी लगाये।

छत्तीसगढ़ पेरेंट्स एसोसिएशन ने कलेक्टर व डीईओ को लिखा पत्र

अंबागढ़ चौकी (दावा)। हाल ही में स्वामी आत्मानंद हिंदी व अंग्रेजी माध्यम मानपुर में शिक्षा और व्यवस्था गर्त में जाने के कगार पर है, सुबह साढ़े सात बजे से क्लास लगने की शुरुआत होती है, ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, कई दिनों से ही चपरासी के ही द्वारा प्रार्थना कराया जाता है।

खबर प्रकाशन के बाद छत्तीसगढ़ पेरेंट्स एशोसिएशन ने इस मामले को गंभीरता से लिया है, छत्तीसगढ़ पेरेंट्स एशोसिएशन ने मोहला मानपुर चौकी जिले के कलेक्टर और प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी को पत्र लिखकर दोषियों पर कार्यवाही की मांग की है। स्वामी आत्मानंद स्कूल में प्रार्थना के समय स्कूल स्टॉफ की लेटलतीफी और चपरासी द्वारा मॉर्निंग असेम्बली लिया जाता है जो अनुशासनहीनता को दर्शाता है जिसके कारण शिक्षा की गुणवत्ता पर भी सवाल खड़े करता है। छत्तीसगढ़ पेरेंट्स एसोसिएशन ने कहा कि स्वामी आत्मानंद स्कूल का पदेन अध्यक्ष कलेक्टर और सचिव होता है और प्रार्थना में शामिल नहीं होने वाले शिक्षक शिक्षिकाओं के लेटलतीफी के कारण सरकार की महत्वाकांक्षी योजना स्वामी आत्मानंद स्कूल और शिक्षा विभाग की छवि धूमिल हो रही है, वही एसोशिएशन ने स्वामी आत्मानंद स्कूल के जिम्मेदार लोगों पर जांच कर सख्त कार्यवाही करने पत्र लिखा है।

पालकों को नहीं बुलाया और हो गया माफीनामा

स्वामी आत्मानंद स्कूल में शिक्षा व्यवस्था पर शाला समिति और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक कर मामले को सुलझाया गया, लेकिन सुबह की क्लास में लगने वाले स्कूल में लगभग पाँच सौ छात्र छात्राएं अध्यनरत है, परंतु पालकों की गैरमौजूदगी में बिना राय लिए मामले को आपस में सुलझा लिया गया। विवादों और सवालों में रहा यह स्कूल बिना पालकों के जानकारी और राय लेकर मामले पर संज्ञान लिया जाना था परंतु दस बारह लोगों की सहमति से इस बड़े मामलों पर पर्दा डाल दिया गया।

शा. दिग्विजय महाविद्यालय के क्रीड़ा विभाग द्वारा खेल दिवस मनाया गया

राजनांदगांव (दावा)। शा. दिग्विजय महाविद्यालय के क्रीड़ा विभाग द्वारा खेल दिवस मनाया गया। प्रारंभ में माँ सरस्वती तथा ध्यानचंद के तैलचित्र पर माल्यार्पण के साथ ही कार्यक्रम प्रारंभ हुआ।

इस आयोजन के मुख्य अतिथि के राजेश्वर राव, एन.आई.एस. कोच बास्केटबाल, कार्यक्रम की अध्यक्ष प्राचार्य डॉ. अंजना ठाकुर तथा विशिष्ट अतिथि डॉ. दिनेश नामदेव संचालक शारीरिक शिक्षा हेमचंद यादव विश्वविद्यालय दुर्ग तथा परेश वर्मा क्रीड़ा अधिकारी शासकीय शिवनाथ विज्ञान महाविद्यालय, राजनांदगांव थे। कार्यक्रम प्रारंभ में डॉ.शैलेन्द्र सिंह द्वारा खेल दिवस की शुरूआत तथा उसके इतिहास की जानकारी प्रदान की गई तथा मेजर ध्यानचंद की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला गया। प्राचार्य डॉ.अंजना ठाकुर ने कहा कि ऐसे महान विभूति के जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाने का हमें अवसर प्राप्त हो रहा है। ये हमारे लिए गौरव की बात है। हमें उनके जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए। परेश वर्मा द्वारा खेल दिवस की शुभकामनाएं प्रदान की गई। दिनेश नामदेव ने कहा कि स्वस्थ मन तथा स्वस्थ तन हमारे जीवन के लिए उपयोगी है। खेलों को हमें अपने जीवन अंग बनाना चाहिए। नियमित व्यायाम तथा सही दिनचर्या से हम स्वस्थ रहते हैं, जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है।

मुख्य अतिथि राजेश्वर राव ने सभी खिलाड़ियों को सरकार द्वारा दी जाने वाली खेल सुविधाओं की जानकारी प्रदान की गई तथा कहा कि खेलों को भी आप अपने जीवन को नौकरी से भी जोड़ सकते हैं। वर्तमान में सरकार द्वारा उत्कृष्ट खिलाड़ियों की सरकारी नौकरी प्रदान करने की पहल की जा रही है, जो काफी अच्छी बात है। अतः योग एवं खेलों को भी अपने रोजगार का माध्यम बना सकते हैं। कार्यक्रम का संचालन करते हुए क्रीड़ा अधिकारी अरूण चौधरी ने आयोजन की उपयोगिता पर प्रकाश डाला तथा कहा कि हमें अपने जीवन में ध्यानचंद की उपलब्धियों से प्रेरणा लेनी चाहिए। इस अवसर पर वेटलिफ्टिंग के खिलाड़ियों का सम्मान किया गया।

सामाजिक सुरक्षा पेंशन हेतु वार्डो में शिविर

राजनांदगांव (दावा)। नगर निगम द्वारा प्रति माह पेंशन का भुगतान वार्डो में शिविर लगाकर किया जाता है। इसी कड़ी में हितग्राहियों को माह जून 2024 का पेंशन भुगतान के लिये वार्डो में 16 अगस्त से 9 सितम्बर तक प्रातः 11:30 बजे से दोपहर 4 बजे तक शिविर का आयोजन किया जा रहा है। जिसके तहत 2 सितम्बर को महावीर वार्ड नं. 37 के लिये गंजपारा स्कूल में, दिग्विजय वार्ड नं. 38 के लिये पार्षद कार्यालय ब्राम्हण पारा में, हीरामोती वार्ड नं. 39 के लिये सार्वजनिक भवन नागेश्वर मंदिर में, 3 सितम्बर को रविदास वार्ड नं. 20 के लिये पेन्ड्री स्कूल में, मेडिकल कालेज वार्ड नं. 21 के लिये आंगनबाडी केन्द्र पेण्ड्री में रेवाडीह आशानगर वार्ड नं. 22 के लिये रेवाडीह स्कूल में एवं 4 सितम्बर को गुरू गोविंद सिंह वार्ड नं. 24 के लिये सिंधु भवन लालबाग में आयोजन किया गया है। शेष वार्डो के लिये भी शिविर का आयोजन किया जायेगा।

आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति के माध्यम से वात-व्याधियों का ईलाज

राजनांदगांव (दावा)। आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति के माध्यम से जिले में विभिन्न प्रकार की वात-व्याधियों का ईलाज किया जा रहा है। शासन के आयुष मिशन के तहत ऑस्टियोआर्थराइटिस एवं मास्कुलर डिसऑर्डर के पायलेट प्रोजेक्ट के रूप में आयुष पॉली क्लीनिक आयुष विभाग में जनसामान्य का निःशुल्क उपचार किया जा रहा है। इसके अंतर्गत वात-व्याधियों, वात रक्त, स्पॉडिलाईटिस, ऐड़ी में दर्द के लिए जनसामान्य में जागरूकता, रोकथाम एवं उपचार के लिए कार्य किया जा रहा है। असम्यक जीवन शैली एवं कार्यशैली के कारण यह व्याधि होती है। इसके लक्षण दिखाई देने पर तुरंत ईलाज करने से तथा जीवन शैली एवं कार्य शैली में आवश्यक बदलाव किया जाए, तो इस व्याधि के आगे बढने, शल्य क्रिया एवं दिव्यांगता से हाफी हद तक बचाव किया जा सकता है। जिला आयुष अधिकारी डॉ. शिल्पा पाण्डेय के मार्गदर्शन में अर्थराईटिस की रोकथाम के लिए अच्छा कार्य किया जा रहा है।

आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी आयुष पाली क्लीनिक डॉ. प्रज्ञा सक्सेना ने बताया कि यहां मरीजों का ईलाज अश्वगंधा, लक्षादि गुग्गलु, दशमूल काढ़ा, नारायण तेल एवं अन्य दवाईयां दी जा रही है। दीनदयाल नगर चिखली निवासी रविराम सेन ने बताया कि उनके घुटने में दर्द था और पिछले कुछ दिनों से यहां ईलाज करा रहे हैं। उन्होंने बताया कि पहले घुटने में दर्द के कारण बैठने में तकलीफ हो रही थी। दवाई और काढ़ा से आराम मिला है। चिखली निवासी श्रीमती गायत्री यादव ने बताया कि उन्हें दो साल से कमर से लेकर पैर तक दर्द होता था और वह पिछले चार माह से यहां ईलाज करा रही हैं। अब उन्हें लगभग 90 प्रतिशत आराम मिला है। दवाई और मसाज से ज्यादा अच्छा फायदा मिला है। पहले घरेलू कार्य करने में उनको समस्या हो रही थी। उन्होंने बताया कि ईलाज के बाद अब राहत मिली है।

० वात-व्याधियों, वात रक्त, स्पॉडिलाईटिंस, ऐड़ी में दर्द के लिए जनसामान्य में जागरूकता, रोकथाम एवं उपचार किया जा रहा

उल्लेखनीय है कि जीवन शैली ठीक नहीं होने के कारण सर्वाइकल स्पोंडिलाईटिस, फ्रोजेन शोल्डर, आस्टियोआर्थराइटिस एवं एड़ी का दर्द जैसी बीमारियां हो रही हैं। प्रतिदिन घंटों लगातार कम्प्यूटर पर काम करने, टीवी देखना, पढना या अन्य कार्य जिसमें गर्दन को लम्बे समय तक झुकाना पड़ता है, गलत तरीके से सोना या ऊँचे तकिये का उपयोग भविष्य में सर्वाइकल स्पॉडिलाइटिस का कारण हो सकता है। जिससे गर्दन में दर्द जकड़ाहट चक्कर आने की शिकायत हो सकती है। एक या दोनों हाथों के कंधे में दर्द व सम्यक गति का न होना फ्रोजेन शोल्डर कहलाता है। इसमें कंधे के ऊपरी बाँह में दर्द, मांसपेशी में जकडन, जिससे दैनिक कार्य करने में कठिनाई होती है। ऑस्टिओआर्थराइटिस में एक या अधिक जोड़ों में लगातार या रूक-रूक कर दर्द, पैरों को मोडने एवं जमीन पर बैठने में परेशानी एवं जोड़ो में जकड़ाहट होती है, ये प्रायः अधिक उम्र के लोगों में देखा जाता है। रागी सिंघाड़ा, मखाना दूध से बने पदार्थ जिनमें कैल्शियम अच्छी मात्रा में हो का सेवन करें। गोघृत, लहसुन, अजवायन, हल्दी, सोंठ, मेथी का प्रयोग लाभप्रद है। साथ ही चिकित्सक की सलाह से योग व व्यायाम करें। वातकॅटक या प्लान्टर फेशिआइटिस में एड़ी पैरो के निचले हिस्से में सुबह सोकर उठने पर असहनीय दर्द एवं असमर्थता होती है। इसके लिए आयुर्वेद औषधियां अभ्यंग, अग्निकर्म प्रभावी है। साथ ही आरामदायक जूते चप्पल पहने।

चातुर्मास पर्व पर आध्यात्मिक दिव्य सत्संग एवं शिक्षक सम्मान समारोह पांच को

राजनांदगांव (दावा)। जिला राजनांदगांव के सुकूलदैहान समीपस्थ ग्राम पेंडरी में एतिहासिक सदगुरु कबीर मंदिर/आश्रम पेंडरी में चातुर्मास पर्व पर अध्यात्मिक दिव्य सत्संग एवं शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन आगामी 5 सितम्बर दिन गुरुवार को दोपहर 01 बजे से प्रारंभ किया जाएगा। ज्ञात हो कि एतिहासिक सदगुरु कबीर मंदिर/आश्रम- पेंडरी में विगत सात-आठ वर्षो से गुरु पूर्णिमा महोत्सव से चातुर्मास पर्व पर आध्यात्मिक दिव्य सत्संग का आयोजन किया जाता हैं, इनके साथ ही प्रत्येक माह/पखवाड़ा पर विशेष पर्वों पर अलग-अलग आयोजन होता रहता है।

इसी कड़ी पर आगामी दिनांक 05 सितम्बर को भारत देश के पूर्व राष्ट्रपति डॉ.सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन पर शिक्षक दिवस सदगुरु कबीर आश्रम पेंडरी में चातुर्मास आयोजन समिति द्वारा वृहद रूप से शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन रखा गया है। क्योंकि मनुष्य के जीवन में ज्ञान का बहुत अधिक महत्व है। ज्ञान के माध्यम से ही मनुष्य अपने समाज तथा अन्य चीजों के बारे में जानकारी प्राप्त कर पाता है। यह ज्ञान केवल किताबी ज्ञान तक ही सीमित नहीं है, अपितु जीवन जीने का तरीका, संस्कार, मानव मूल्य, विचार करने की क्षमता तथा कठिनाइयों का सामना करने का साहस आदि भी इस ज्ञान के भीतर समाहित हैं। एक मानव तभी पूर्ण हो पाता है जब उसके भीतर ये गुण निहित हो। मनुष्य को ज्ञान प्राप्त करने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है, उसके जीवन में इस माध्यम का कार्य शिक्षक करता है। इसलिए कहा जाता है कि-

' गुरु ब्रह्म गुरु विष्णु, गुरु देवो: महेशवरः।
गुरु साक्षात पर ब्रह्म, तस्मै श्री गुरूवै नमः।।

मानव की सबसे पहली शिक्षक उसकी माता पिता होती है जो एक बच्चे को चलना सिखाने से लेकर, बढे होने तक मानव मूल्यों और संस्कार की जानकारी प्रदान करती है। माता के साथ ही पिता उसे जीवन में कैसे संघर्ष करना है तथा जीवन संघर्ष के साथ अपने परिवार का ध्यान कैसे रखना है कि शिक्षा प्रदान करता है। यदि ये कहा जाये कि मनुष्य के माता पिता ही उसके पहले गुरु हैं तो इसमें कोई संदेह नहीं होगा। इसके पश्चात मनुष्य स्कूल में जाता है, जहाँ परंपरागत शिक्षा प्रदान करता है। विद्यालय में परंपरागत के साथ ही साथ जीवन में आगे चलकर काम आने वाली वास्तविक शिक्षा का भी बोध कराया जाता है। इस शिक्षा को एक गुरु के माध्यम से ही प्राप्त किया जा सकता है। छात्र एक गीली मिट्टी के समान होते हैं, उन्हें कुम्हार की आकर देना एक शिक्षक का ही कार्य है, इसलिए ही सदगुरु कबीर साहेब जी कहते हैं कि -

'गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है,
गढि-गढि काढै खोट।
अंतर हाथ सहार दै,
बाहर मारै चौट।।'

गुरु द्वारा प्रदान की गई शिक्षा, अनुभव, ज्ञान तथा संस्कार के प्रति कृतज्ञता दर्शाने के लिए हमारे देश में हर साल शिक्षक दिवस 05 सितम्बर को मनाया जाता है। हमारे देश में शिक्षक दिवस की शुरुआत 05 सितम्बर 1962 को की गई थी। यह दिवस देश के दूसरे पूर्व राष्ट्रपति डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। एक बार डॉ सर्वपल्ली राधाकृष्णन, छात्रों ने उनके जन्म दिवस मनाने की जिद्द की थी, तब डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने अपने जन्म दिवस को शिक्षक दिवस के रूप में मनाने के लिए कहा जाता था। तब से ये दिन शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये दिन देश सभी शिक्षकों को उनके योगदान के लिए समर्पित किया जाता है। इस शुभ पावन अवसर पर परम पूज्य महात्मा लेखचंद साहेब ज्योति कुंज कबीर आश्रम मुरमुंदा कुम्हारी दुर्ग के सानिध्य में होगा। चातुर्मास आयोजन समिति के संरक्षक गुलाब वर्मा वरिष्ठ समाजसेवी एवं अधयक्ष- नरबद वर्मा, साथ ही साथ सदगुरु कबीर सत्संग सेवायोग आश्रम पेंडरी के अध्यक्ष फलेश कुमार साहू और मंहत श्री सेवा दास साहेब के दिशा निर्देश में आयोजन किया जाता है। कार्यक्रम में सर्वप्रथम सदगुरु कबीर साहेब जी के दिव्य मूर्ति पर पूजा अर्चना, फूल माला पहनाकर की जावेगी।

आध्यात्मिक दिव्य सत्संग भजन उपरांत परम पूज्य महात्मा लेखचंद साहेब के पावन करकमलों द्वारा साथ ही साथ आमंत्रित अतिथियों की गरिमामयी उपस्थिति पर वृहद रूप से सभी शिक्षकों की सम्मान की जावेगी। जो कि इस प्रकार से है - मानस साहू, व्याख्याता राज्य पुरूस्कार से सम्मानित खैरागढ़ शासकीय हाईस्कूल गाड़ागाट, गोकुल दास जंघेल व्याख्याता राज्य पुरुस्कार से सम्मानित शासकीय हाईस्कूल सेंदरी डोंगरगढ़, टीकम साव सेवानिवृत्त शिक्षक राज्य पुरुस्कार से सम्मानित कन्हारपुरी राजनांदगांव, हंसराज साहू सेवानिवृत्त प्रधान पाठक डोंगरगढ़, हेंमत साहू व्याख्याता शासकीय उमावि टप्पा, कंवल राम साहू सेवानिवृत्त प्र.पाठक छोटे कुसमी डोंगरगढ़, मंथीर दास साहू सेवानिवृत्त व्याख्याता डोंगरगढ़, हेंमत कुमार साहू सेवानिवृत्त प्रधान पाठक डोंगरगढ़, भरत साहू सेवानिवृत्त प्रधान पाठक अछोली डोंगरगढ़, संवल सिंह सहारे सेवानिवृत्त व्याख्याता केदार बाडी डोंगरगढ़, कमल दास साहू शिक्षक ग्राम मोतीपुर, कंवल राम साहू शिक्षक शासकीय पूर्व मा शा जुरलाकला खैरागढ़, मेहतर राम साहू प्रधान पाठक माडीतराई, लुनकरण वर्मा प्रधान पाठक शासकीय पूर्व मा शा रूवांतला, फलेश कुमार साहू संकुल समन्वयक मुसराकला, के डी साहू सेवानिवृत्त प्रधान पाठक पार्री राजनांदगांव, सुरेंद्र साहू सेवानिवृत्त प्रधान पाठक सुंदरा राजनांदगांव, कुलदीप साहू सेवानिवृत्त व्याख्याता डोंगरगढ़, केशव राम साहू, सेवानिवृत्त शिक्षक डोंगरगढ़, राजेंद्र कुमार साहू शिक्षक प्राथमिक शाला भेलवाटोला डोंगरगढ़, श्रीमती सुजाता साहू शिक्षक आत्मानंद उत्कृष्ट डोंगरगढ़, योधनदास साहू सेवानिवृत्त शिक्षक अछोली, अशोक कुमार साहू शिक्षक शासकीय पूर्व मा शा खूभाटोला डोंगरगढ़, मनोज साहू शिक्षक शासकीय पूर्व मा शा मुगलानी डोंगरगढ़, श्रीमती दुलारी बाई साहू प्रधान पाठक शासकीय पूर्व मा शा ओडारबांध, श्रीमती पुष्पा साहू प्रधान पाठक शासकीय पूर्व मा शा खपरीकला राजनांदगांव, श्रीमती खेमिन साहू प्रधान पाठक प्राथमिक शाला डारागांव डोंगरगढ़, राजेंद्र कुमार साहू सहायक शिक्षक प्राथमिक शाला सलटिकरी, लोमेंद्र कुमार वर्मा शिक्षक शा पू मा शा सलटिकरी, श्रीमती लक्ष्मी साहू सहा शिक्षक प्राथमिक शाला पेंडरी, श्रीमती कौशिल्या गौर प्रधान पाठक शासकीय प्रशासकीय शाला मोहारा, तामेशवर वर्मा प्रधान पाठक प्राथमिक शाला ठेकवा, राजेश कुमार वर्मा प्रधान पाठक प्राथमिक शाला कसारी, श्रीमती शिलपी साहू शिक्षक शासकीय पूर्व मा शा कसारी, श्रीमती निर्मला वर्मा शिक्षक शासकीय पूर्व मा शा पेंडरी, जागेंद्र वर्मा उच्च वर्ग शिक्षक शासकीय पूर्व मा शा पेंडरी, सूरज प्रसाद शर्मा सहायक शिक्षक शासकीय प्राथमिक शाला ईदामरा, परमानंद साहू प्रधान पाठक प्राथमिक शाला कन्हारडबरी, विष्णु राम साहू प्रधान पाठक प्राथमिक शाला पुजारी टोला, राजेंद्र कुमार साहू सहायक शिक्षक प्राथमिक शाला घिरघोली, लेखराम साहू बजरंगपुर नवागांव, कृष्ण कन्हैया दास वैष्णव सेवानिवृत्त प्रधान पाठक शासकीय पूर्व मा शा पेंडरी, छन्नूलाल हिरवानी सेवानिवृत्त प्रधान पाठक सुखरी, बिसालिक वर्मा शिक्षक, मानसिंह साहू प्रधान पाठक शासकीय प्राथमिक शाला कोडेवा अर्जुदा बालोद, भरतलाल कोटेलकर ग्राम केशाल प्रधान पाठक मातेखेडा छुरिया, शेरसिंह गौंडिया प्रधान पाठक ग्राम कोलियरी मातेखेडा छुरिया जैसे अनेकों शिक्षक वृंदजनों को सम्मानित किया जाना है। यह जानकारी सदगुरु कबीर आश्रम पेंडरी के प्रबंधक योगदास साहू ने दी है।

जिला चिकित्सालय के महिनों बंद पड़ी सिटी स्कैन व एक्सरे मशीन, सुधार की गुंजाइश नहीं

बारिश के दिनों पानी प्रवेश ने किया जिला अस्पताल का बंटाधार, दीवालों में सीलन व सीपेज भी बनी समस्या

राजनांदगांव (दावा)। बसंतपुर स्थित जिला चिकित्सालय परिसर में बारिश के दिनों में घुटनों तक भरने वाला पानी व सामने का बजबजाते हुए गंदा नाले का पानी अस्पताल में प्रवेश कर जाने से हर बरसात में अस्पताल का लाखों रूपए का नुकसान होता है। हर बार बारिश के समय उपरोक्त स्थानों का पानी अस्पताल अन्दर घुस जाने से सिटी स्कैन व एक्सरे मशीन खराब हो जाती है। यहां तक कि ओटी तक पानी घुस जाने से मरीजों के आपरेशन बंद कर दिये जाते है। मरीजों के भर्ती वाले वार्डों तक बारिश का पानी भर जाने से सांप-बिच्छू तक तैरते देखा गया है। दीवारों में सीलन के चलते करेंट भी फैल जाता है। लेकिन दिक्कत की बात यह है कि आज तक अस्पताल के सामने का उक्त गंदा व बजबजाते हुए बड़े नाले को डायवर्ट करने के लिए कभी सोचा गया है और न इसकी समुचित रूप से साफ-सफाई की ओर ध्यान दिया गया है लिहाजा उक्त नाले जिला चिकित्सालय के लिए मुसीबत का कारण बना हुआ है। उक्त बजबजाते हुए नाले में बड़े वेग से आने वाले गंदा पानी अस्पताल परिसर से होते हुए जिला चिकित्सालय में भरने सिटी स्कैन से लेकर एक्स-रे मशीन वह ओटी के लिए समस्या बनी रहती है।

बंद पड़ा सिटी स्कैन व एक्सरे मशीन

बता दे कि उक्त गंदे नाले से जिला चिकित्सालय में भरने वाले पानी से न केवल जिला अस्पताल के लोग परेशान हैं, आयुष विभाग के डाक्टरों को उक्त गंदे नाले से उठने वाली बदबू से परेशानी झेलनी पड़ती है।

बता दें कि हास्पीटल में पानी भरने के कारण लगभग महिने भर से डिजीटल एक्सरे मशीन व सिटी स्कैन मशीन बंद पड़ा है। पिछले दिनों 21 लाख रूपए खर्च कर सिटी स्कैन का खराब हुए पाईप को चेंज कराया गया। चूंकि उक्त कक्ष में अब भी सीलन बनी हुई है, इसके कारण रायपुर के एम.आर. ने उसे ठीक करने से हाथ खड़ा कर दिया है। यही स्थिति एक्सरे मशीन की भी है। मशीन कक्ष की नालियों में अभी सीलन बना हुआ है। इससे इसे भी सुधारा नहीं जा सका है। बता दे कि सिविल सो डॉ. एम.के. दिवाकर के जमाने में 11 साल पहले उक्त डिजीटल एक्सरे मशीन को लगाया गया था। अब उसका एक्सपाईरी डेट आ चुका है। जिसका बनाया जाना भी संभव नहीं है। ऐसे में बंद पड़े दोनों मशीनों के चलते मरीजों को सिटी स्कैन व एक्सरे करवाने भटकनी पड़ रही है। लोगों को मजबूरी में बाहर से हजारों रूपए खर्च कर सिटी स्कैन व एक्सरे करवानी पड़ रही है। एक मरीज ने बताया कि उसने सिटी स्कैन कराने साढ़े 12 सौ रूपए जिला चिकित्सालय में जमा कर रखी है। इसी तरह और भी कई लोगों ने पैसे जमा करवा रखे है लेकिन मशीन बंद पड़े होने से उन्हें मजबूरी में बाहर से हजारों रूपए खर्च कर जांच करवानी पड़ी।

भटक रहे है सिटी स्कैन व डिजीटल एक्सरे कराने वाले मरीज

अस्पताल की उंचाई बढ़ाने का प्रयास

बताते चले कि सिविल सर्जन डॉ. के.के. जैन के समय लगभग साल भर पूर्व जिला चिकित्सालय का लाखों रूपए खर्च कर अन्दर से लेकर बाहर तक रेनोवेसिंग का कार्य कराया गया। अन्दर के मेडिकल वार्ड सहित सामने प्रवेश द्वार तक अस्पताल को एक फीट उंचा कराया गया। इसके बाद भी बारिश के दिनों में अस्पताल में भीतर तक पानी घुस जा रहा है। इसके अलावा अस्पताल के छत के उपर से भी पानी सीपेज होते रहती है। पर्ची के काउंटर के समीप छत से पानी टपकने पर नीचे बाल्टी लगानी पड़ती है। सिविल सर्जन डॉ जैन ने अस्पताल में बार-बार पानी भरने से सीटी स्कैन व एक्स-रे मशीन को उपर तल में ले जाने की बात कही थी लेकिन अब कहा जा रहा है कि इसमें 50 लाख का खर्च आएगा वहीं वर्तमान में एक्सरे कक्ष को उंचा किए जाने पर एक्सरे आपरेटरों द्वारा कहा जा रहा है कि इसके उंचा होने से मरीज को लिटाने वाला टेबल भी उंचा हो जाएगा।

इससे एक्सरे मशीन कवर नहीं कर पाएगा व किसी एंगल से फोटो नहीं ले सकेगा। इसमें लाखों रूपए खर्च के सिवाय और कुछ नहीं होने वाला है। बता दें कि मेडिकल कालेज हास्पीटल म सीटी स्कैन मशीन नहीं होने से मरीजों को जिला चिकित्सालय ही भेजा जाता है। यहां सिटी स्कैन व एक्सरे मशीन बंद होने से मरीज वह उनके परिजन परेशान हैं। मजबूरी में उन्हें निजी लैब में तीन से चार गुना पैसे खर्च कर जांच करवानी पड़ रही है। मरीजों के हो रहे सीधे नुकसान पर न तो विभाग का नियंत्रण है और न लोगों की इस परेशानी की ओर किसी भी जनप्रतिनिधि का ध्यान जा रहा है।

भले ही कहा जा रहा है कि सिटी स्कैन मशीन इंस्टाल करने का प्रोसेस जारी है। जिसे सीजी एमएससी का मामला बताया जाता है। वही दूसरी ओर प्रोसेस देखने वाले का कहना है कि कक्ष में सीलन के चलते मशीन चालू नहीं हो सकती। वही डीजीटल एक्सरे को कुछ आवश्यक सामान बदलने पर ठीक हो जाएगा लेकिन वहां नमी होने के कारण फिर खराब हो सकती है।

> एक्स-रे मशीन को ठीक करने साफ्ट वेयर व डिटेक्शन केबल को बदलने की जरूरत है लेकिन कक्ष में नमी होने के कारण फिर से खराब हो जाएगा। इसके लिए वहां के ड्रेनेज सिस्टम को ठीक करने की जरूरत है।
> **समल सुदीप मेडेसिटी जोनल - रायपुर**

> दोनों बंद मशीनों की इंजीनियर ने जांच की है। रिपोर्ट मिलने के बाद तय होगा कि मशीन चालू होगा की नहीं। हमें भी मरीजों की परेशानी की चिंता है।
> **- डॉ यू. एस. चंद्रवंशी, सिविल सर्जन जिला चिकित्सालय - बसंतपुर (राज)**

रायल कीड्स में बच्चे बने राधाकृष्ण

राजनांदगांव (दावा)। डॉ. जेबी सिंह मेमोरियल स्कूल में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी का पर्व धूमधाम से मनाया गया। पप्पाजी लाल शंकर बहादुर सिंह एवं जे.बी.सिंह की स्मृति में एक मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई। मनोहारी वेशभूषा में छोटे-छोटे बच्चों ने द्वापर युग में पहुंचने का मधुरम भान कराया। इस अवसर पर बच्चों ने राधाकृष्ण के परिधान में अपनी प्रस्तुतियां देकर सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। स्कूल के बच्चों ने भगवान कृष्ण एवं राधा माँ के जीवन और उनके उपदेशों पर आधारित नाटक, गाने और नृत्य प्रस्तुत किए। स्कूल की प्रधानाचार्य श्रीमती एकता खण्डेलवाल, सुषमा शुक्ला (सीजी) ने बच्चों को भगवान कृष्ण के जीवन और उनके संदेशों के बारे में बताया और उन्हें अच्छे जीवन मूल्यों को अपनाने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम के अंत में बच्चों को पुरस्कृत भी किया गया।

संस्था अध्यक्षा श्रीमती डॉ. सविता जेबी सिंह, उपाध्यक्ष अशोक चौधरी, निदेशक संजय बहादुर सिंह, सावंत बहादुर सिंह, जन्मेजय बहादुर सिंह, श्रेयांश बहादुर सिंह, एकेडमिक डायरेक्टर अभिषेक खंडेलवाल, बरसर आई.के. वैष्णव एवं शिक्षक शिक्षिकाओं ने कार्यक्रम के सफलतापूर्वक आयोजित होने पर एवं बच्चों के इसमें बढ़-चढ़कर भाग लेने पर खुशी जाहिर की है।

अवैध खनन पर राजस्व विभाग की कार्रवाई, मौके से तीन डंपर और एक जेसीबी जब्त

रेत के अवैध उत्खनन पर लगातार की जा रही है कार्रवाई - तहसीलदार मुकेश ठाकुर

डोंगरगढ़ (दावा)। रेत के अवैध उत्खनन पर रोक लगाने सक्रिय राजस्व विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मौके से तीन डंफर और एक जेसीबी वाहन को जप्त किया गया है। जिन आरोपियों पर रेत के अवैध उत्खनन का मामला शनिवार को बनाया गया वे आरोपी पूर्व में भी ग्राम मुढ़पार में अवैध रेत खनन और भंडारण के दोषी पाए गए थे। तत्कालीन एसडीएम उमेश पटेल द्वारा कि गई कार्यवाही को लेकर आरोपियों ने संगठित होकर कांग्रेस और भाजपा के नेताओं का सहारा लेकर बवाल मचाया था।

ताजा मामला डोंगरगढ़ शहर के वार्ड नंबर 1 से लगे ग्रामीण क्षेत्र बछेरा भाटा का है। ग्रामीण लंबे समय से चल रहे अवैध खनन से परेशान हो कर प्रशासन से शिकायत की थी। लगातार की जा रही शिकायतों को संज्ञान में लेकर डोंगरगढ़ तहसीलदार मुकेश ठाकुर ने अपने अमले के साथ पहुंच कर कार्यवाही की। क्षेत्रवासियों की माने तो लंबे समय से चल रहे खनन और भारी वाहनों के आवा जाही से सड़क और पुल जर्जर हो चुके हैं और साथ ही खनन में लगे वाहनों से सड़क में दुर्घटना का खतरा भी बना रहता है। डोंगरगढ़ तहसीलदार ने बताया कि आज कार्यवाही में क्षेत्र से 3 डंफर और एक जेसीबी वाहन को जप्त किया गया है पूरे मामले में आगे की कार्रवाई जारी रहेंगी।

अवैध कारोबारियों के खिलाफ लगातार की जा रही है कार्रवाई - मुकेश ठाकुर, तहसीलदार

तहसीलदार मुकेश ठाकुर ने कहा है कि शिकायत पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। कुछ दिन पूर्व भी इसी क्षेत्र में दबीश दी गई थी। किंतु मौके पर कोई वाहन नहीं पाया गया। आज के कार्रवाई में बेलगांव निवासी लेखराम साहू और श्याम अग्रवाल की गाड़ियों को जप्त किया गया है। जिस पर नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है।

रेत का अवैध खनन - बृजभूषण सिन्हा क्षेत्रवासी

क्षेत्रवासी बृजभूषण सिन्हा ने बताया कि रेत का अवैध उत्खनन 1 वर्ष पूर्व से किया जा रहा है। भारी वाहन के कमजोर सड़क पर चलने से मार्ग में जगह-जगह गड्ढे हो गए हैं। वाहन चालक वाहन को रात दिन धूल उड़ाते हुए धड़ल्ले से चला रहे हैं।

प्रशासन ने कार्रवाई करने में देरी की है

क्षेत्रवासी गोपी चक्रधारी ने बताया कि रेत के अवैध उत्खनन में संलग्न वाहन चालकों द्वारा मार्ग में चलने वाले ग्रामीण की परवाह किए बिना लापरवाही पूर्वक वहां को चलते आ रहे हैं शिकायत के बावजूद प्रशासन की ओर से कार्रवाई में देरी की गई है।

महाराष्ट्रीयन तेली समाज की विर्सजन यात्रा....

राजनांदगांव (दावा)। महाराष्ट्रीयन तेली समाज ने बड़ी धूमधाम से श्री कृष्ण भगवान का विसर्जन इंदिरा सरोवर में किया।

आज अडिटोरियम में भव्य यादव मेला

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय आयेंगे, मिंकी माउस, जंपिंग, ढेलवा गोल झूला, राइचुली झूला आदि होंगे

राजनांदगांव (दावा)। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन पर्व पर जिला सर्व यादव समाज राजनांदगांव के तत्वाधान में 3 दिवसीय ऐतिहासिक आयोजन के पहले दिन बाईक रैली, दूसरे दिन उज्जैन महाकाल यात्रा के तर्ज पर श्री कृष्ण पालकी यात्रा 21 झाँकियों के साथ विशाल शोभायात्रा के बाद अब 01 सितम्बर दिन रविवार को विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम व यादव गौरव सम्मान के साथ विशाल यादव मेला का आयोजन पद्मश्री गोविंद राम निर्मल कर अडिटोरियम राजनांदगांव में रखा गया है जिसमें जिला के साथ-साथ पड़ोसी जिला के भी स्वजातीय यादव बंधुगण अपनी उपस्थिति देकर यादवी एकता का परिचय देंगे।

इस आयोजन के मुख्य अतिथि प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय होंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व मुख्यमंत्री डॉ.रमन सिंह करेंगे। विशेष अतिथियों में संतोष पांडे सांसद, मधुसूदन यादव पूर्व सांसद, पद्मश्री फुलबाशन यादव पवन दागा समाज सेवी आदि भी

उपस्थिति देंगे। विशाल यादव मेला के आयोजन में बच्चों के लिए 5 प्रकार के झूलों का लगना चालू हो गया है जिसमें मिंकी माउस, जंपिंग, ढेलवा गोल झूला, राइचुली झूला आदि होंगे। यह अपने आप में एक अलग आयोजन होगा। बच्चों के खिलौने, बेलून, मिठाई आदि भी मिलेंगे।

कार्यक्रम का शुभारंभ प्रातः 11 बजे भगवान श्री राधा कृष्ण की विधिवत पूजा अर्चना के साथ होगा। इसी के साथ मुंदरि सांस्कृतिक संस्था व स्वजातीय बच्चों के विविध सांस्कृतिक कार्य क्रम भी होंगे व इसी मंच से कलाकार यादव गौरव से सम्मानित भी होंगे। उक्त जानकारी यादव समाज के प्रचार प्रसार प्रभारी दुर्गा यादव ने दी।

दैनिक दावा
मासिक बिल
माह- अगस्त 2024

प्रति दिन	दर	राशि
26 दिन	4 /-	104/-
1 दिन	5 /-	5/-
4 दिन अवकाश		
	योग	109 /-

व्यवस्थापक

किराये से देना है
कंचनबाग में सर्वसुविधायुक्त दो मंजिला भवन आफिस के लिये किराये से देना है। 3 बेडरुम, किचन, 3 हाल अटैच लेटबाथ गार्डन सहित पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। किराये से देना है।
-: संपर्क करें :-
मो. 8319936007

आवश्यकता है
रात्रिकालिन चौकीदार एवं हेल्पर की आवश्यकता है।
-: संपर्क करें :-
दैनिक दावा
बल्देव बाग, राजनांदगांव
मो. 9300414726

स्वत्वाधिकारी, प्रकाशक व मुद्रक दीपक कुमार बुद्धदेव द्वारा स्वस्तिक ऑफसेट एण्ड स्क्रीन प्रिंटर्स, बल्देवबाग रोड, राजनांदगांव से मुद्रित कर प्रकाशित। सम्पादक दीपक कुमार बुद्धदेव।
* समाचार चयन के लिए पी.आर.बी. एक्ट के तहत जिम्मेदार। * किसी भी विवाद की स्थिति में न्यायिक क्षेत्र राजनांदगांव रहेगा। फोन नं. - 07744-406631 e-mail : dainikdawa_rjn@yahoo.com